



प्रोश्म्

# अथ संस्कारविधिः

वेदानुकूलैर्गर्माधानाद्यन्त्येष्टिपर्यन्तैः

षोडशसंस्कारैः समन्वितः

आर्क्षभाष्या भक्त्युक्तः

श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यण श्रीमद्द्यानन्द-

सरस्वतीस्वामिना निर्मितः

सर्वथा राजनियमे नियोजितः

आर्यसंस्कारः श्रीमत्परोपकारिण्या लभया

स्वाधीन एव रक्षितः

श्रीजलरजवारे

वैदिक-यन्त्रालये मुद्रितः

संवत् १९२४ वि०

षोडशवार

२००००

श्रीमद्द्यानन्दजन्माद्य १०३

{ मूल्य १= }



ओ३म्

अजमेर

# अथ संस्कारविधिः

वेदानुकूलैर्गर्माधानाद्यन्त्येष्टिपर्यन्तैः षोडशसंस्कारैः  
समन्वितः

आख्यभाषया प्रकटीकृतः

श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यण श्रीमहद्यामन्द-  
सरस्वतीस्वामिना लिखितः

सर्वथा राजनियमे निरूपितः

अस्याधिकारः श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यण सभया  
स्वाधीन एव लिखितः

३३३३३३

(अजमेर)

वैदिक-यन्त्रासुरे मुद्रितः

संवत् १९५४ वि०

षोडशवार

१००००

श्रीमहद्यामन्दजन्माद्य १०३ { मूल्य १=)





# संस्कारविधेर्विषयसूचीपत्रम् ।

विषय	पृष्ठ से पृष्ठ तक
भूमिका	१-२
प्रन्थारम्भः	३-४
ईश्वरस्तुतिप्रार्थनोपा०	५-६
स्वस्तिवाचनम्	६-१२
शान्तिप्रकरणम्	१३-१६
सामान्यप्रकरणम्	१६-३३
षडङ्कुरण्डपरिमाणम्	१७-१८
यज्ञसमिधः	१८
होमद्रव्यं चतुर्विधम्	१८
स्थालीपाकः	१८-१९
यज्ञपात्रलक्षणानि	१९-२१
यज्ञपात्राकृतयः	२१-२३
ऋत्विग्वरणम्	२३-२४
आचमनम्	२४
मार्जनम्	२४
अग्न्याधानम्	२४-२५
समिदाधानम्	२५-२६
वेदिमार्जनम्	२७
आधारावाज्यभागाहुतयः	२७
व्याहृत्याहुतयः	२८
संस्कारचतुष्टये चतस्रो	
मुख्याऽऽहुतयः	२६
अग्राज्याहुतयः	२६-३१
पूर्णाहुतिः	३१
महावामदेव्यगानम्	३१-३२
गर्भाधानम्	३३-४६

विषय	पृष्ठ से पृष्ठ तक
गर्भाधानस्य प्रमाणम्	३४-३६
ऋतुदानकालादि	३६-४६
पुंसवनम्	४६-५३
सीमन्तोन्नयनम्	५३-५७
जातकर्मसंस्कारः	५७-६५
नामकरणम्	६६-७०
निष्क्रमणसंस्कारः	७०-७३
अन्नप्राशनसंस्कारः	७३-७६
चूडाकर्मसंस्कारः	७६-८१
कर्णवेधसंस्कारः	८१-८२
उपनयनसंस्कारः	८२-९१
वेदारम्भसंस्कारः	९२-१२०
ब्रह्म० कर्तव्योपदेशः	९८-१०५
ब्रह्मचर्यकालः	१०५-११०
पुनर्ब्रह्मचर्ये कर्तव्यं	११०-१२०
समावर्तनसंस्कारः	१२१-१२६
विवाहसंस्कारः	१२६-१८६
गृहाश्रमसंस्कारः	१८८-२६१
गृहस्थोपदेशः	१८८-२१६
पञ्चमहायज्ञाः	२१६-२३०
शालानिर्माणविधिः	२३०-२३५
वस्तुप्रतिष्ठा	२३५-२४२
गृहाश्रमे कर्तव्यो०	२४२-२६१
वानप्रस्था० संस्कारः	२६१-२६८
संन्यासा० संस्कारः	२६६-३०५
श्रान्त्यष्टिकर्मविधिः	३०५-३१६



श्री २५

बनो नमः सर्वविघ्ने जगदीश्वराय

## भूमिका

सब सज्जन लोगों को विदित होवे कि मैंने बहुत सज्जनों के अनुरोध करने से श्रीयुत महाराजे विक्रमादित्य के संवत् १९३२ कार्तिक कृष्णपक्ष ३० शनिवार के दिन संस्कारविधि का प्रथमारम्भ किया था, उसमें संस्कृतपाठ एकत्र और भाषापाठ एकत्र लिखा था। इस कारण संस्कार करनेवाले अनुष्ठानों को संस्कृत और भाषा दूर २ होने से कठिनता पड़ती थी। और जो १००० (एक हजार) पुस्तक छपे थे उनमें से अब एक भी नहीं रहा। इसलिये श्रीयुत महाराजे विक्रमादित्य के संवत् १९४० आषाढ़ वदि १३ रविवार के दिन पुनः संशोधन करके छपवाने के लिये विचार किया। अब की वार जिस २ संस्कार का उपदेशार्थ प्रमाण वचन और प्रयोजन है वह २ संस्कार के पूर्व लिखा जायगा, तत्पश्चात् जो २ संस्कार में कर्त्तव्य विधि है उस २ को क्रम से लिखकर पुनः उस संस्कार का शेष विषय जो कि दूसरे संस्कार तक करना चाहिये वह लिखा है। और जो विषय प्रथम अधिक लिखा था उसमें से अत्यन्त उपयोगी न जानकर छोड़ भी दिया है। और अब की वार जो २ अत्यन्त उपयोगी विषय है वह २ अधिक भी लिखा है। इसमें यह न समझा जावे कि प्रथम विषय युक्त न था और युक्त छूट गया था उसका संशोधन किया है, किन्तु उन विषयों का यथावत् क्रमबद्ध संस्कृत के सूत्रों में प्रथम लेख किया था। उसमें सब लोगों की बुद्धि कृतकारी नहीं होती थी इसलिये अब सुगम कर दिया है क्योंकि संस्कृतस्थ विषय विद्वान् लोग समझ सकते थे साधारण

नहीं। इसमें सामान्य विषय जो कि सब संस्कारों के आ  
 और उचित समय तथा स्थान में अवश्य करना चाहिये  
 प्रथम सामान्यप्रकरण में लिख दिया है और जो मन्त्र  
 क्रिया सामान्यप्रकरण की संस्कारों में अपेक्षित है उस  
 पृष्ठ पंक्ति की प्रतीक उन कर्त्तव्य संस्कारों में लिखी है  
 जिसको देखके सामान्यविधि की क्रिया वहाँ सुगमता से  
 करके और सामान्यप्रकरणका विधि भी सामान्यप्रकरण में लि  
 दिया है अर्थात् वहाँ का विधि करके संस्कार का कर्त्तव्य  
 करे। और जो सामान्यप्रकरण का विधि लिखा है वह प  
 स्थान से अनेक स्थलों में अनेक बार करना होगा। है  
 आग्न्याधान प्रत्येक संस्कार में कर्त्तव्य है वैसे वह सामान्य  
 प्रकरण में एकत्र लिखने से सब संस्कारों में बारम्बार  
 लिखना पड़ेगा। इसमें प्रथम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपास  
 पुनः स्वस्तिवाचन, शान्तिपाठ तदनन्तर सामान्यप्रकरण पश्च  
 पार्भाधानादि अन्योष्टि पर्यन्त सोलह संस्कार क्रमशः लिखे  
 और यहाँ सब मंत्रों का अर्थ नहीं लिखा है क्योंकि इस  
 कर्मकाण्ड का विधान है इसलिये विशेष कर क्रियाविधि  
 लिखा है। और जहाँ २ अर्थ करना आवश्यक है वहाँ २  
 भी कर दिया है। और मन्त्रों के यथार्थ अर्थ भरे किये वे  
 माध्य में लिखे ही हैं, जो देखना चाहें वहाँ से देख लें। य  
 तो केवल क्रिया करनी ही मुख्य है जिस करके शरीर अ  
 आत्मा सुसंस्कृत होने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्र  
 हो सकते हैं और सन्तान अत्यन्त योग्य होते हैं इसलि  
 संस्कारों को करना सब मनुष्यों को अति उचित है।

इति भूमिका

स्वामी दयानन्दसरस्वती

नमो नमः सर्वविधात्रे जगदीश्वराय

## अथ संस्कारविधिं वक्ष्यामः

ओं सह नावतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवा-  
बहै । तेजस्विनावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । ॐ शान्तिः  
शान्तिः शान्तिः ॥ तैत्तिरीय आरण्यके । अष्टमप्रपाठके ।  
अथमानुवाके ॥

सर्वात्मा सच्चिदानन्दो विश्वादिर्विश्वकृद्ब्रह्मः ।  
भूयात्तमां सहायो नस्सर्वेशो न्यायकृच्छुचिः ॥ १ ॥  
गर्माद्या मृत्युपर्यन्ताः संस्काराः षोडशैव हि ।  
वक्ष्यन्ते तं नमस्कृत्यानन्तविद्यं परेश्वरम् ॥ २ ॥  
वेदादिशास्त्रसिद्धान्तमाध्याय परमादरात् ।  
आर्यैतिह्यं पुरस्कृत्य शरीरात्मविशुद्धये ॥ ३ ॥  
संस्कारैस्संस्कृतं यद्यन्मेध्यमत्र तदुच्यते ।  
असंस्कृतं तु यल्लोके तदमेध्यं प्रकीर्त्यते ॥ ४ ॥  
अतः संस्कारकरणे क्रियतामुद्यमो बुधैः ।  
शिक्षयौषधिभिर्नित्यं सर्वथा सुखवर्द्धनः ॥ ५ ॥

कृतानीह विधानानि ग्रन्थग्रन्थनतत्परैः ।

वेदविज्ञानविरहैः स्वार्थिभिः परिमोहितैः ॥ ६ ॥

प्रमाणैस्तान्यनादृत्य क्रियते वेदमानतः ।

जनानां सुखबोधाय संस्कारविधिरुत्तमः ॥ ७ ॥

बहुभिः सज्जनैस्साम्यङ्मानवप्रियकारकैः ।

प्रवृत्तो ग्रन्थकरणे क्रमशोऽहं नियोजितः ॥ ८ ॥

दयाया आनन्दो विलसति परो ब्रह्माविदितः,

सरस्वत्यस्याग्र निवसति मुदा सत्यनिलया ।

इयं ख्यातिर्यस्मिन् प्रततलुगुणा हीशशरणाऽ-

स्त्यनेनायं ग्रन्थो रचित इति बोद्धव्यमनघाः ॥ ९ ॥

चक्षुरामाङ्कचन्द्रेन्द्रे कार्तिकस्यासिते दले ।

अमायां शनिवारोऽयं ग्रन्थारम्भः कृषो मया ॥ १० ॥

विन्दुवदाङ्कचन्द्रेन्द्रे शुक्ले मासजसिते दले ।

त्रयोदश्यां रवौधारे पुनः संस्करणं कृतम् ॥ ११ ॥

सब संस्कारों के आदि में निम्नलिखित मन्त्रों का पाठ और अर्थ द्वारा एक विद्वान् वा बुद्धिमान् पुरुष ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उद्धारसूचना स्थिरचित्त होकर परमात्मा में ध्यान लगा के करे और सब लोग इसमें ध्यान लगाकर सुनें और विचारें ॥

अथेश्वरस्तुतिप्रार्थनोपासनाः

ओ३म् विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव । यद्भ-  
द्रन्तन्न आसुव ॥ १ ॥ यजु० अ० ३० । मं० ३ ॥

अर्थः—हे ( सवितः ) सकल जगत् के उत्पत्तिकर्ता समग्र  
ऐश्वर्ययुक्त ( देव ) शुद्धस्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर !  
आप कृपा करके ( नः ) हमारे ( विश्वानि ) सम्पूर्ण ( दुरितानि )  
दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुःखों को ( परा, सुव ) दूर कर दीजिये  
( यत् ) जो ( भद्रम् ) कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और  
पदार्थ है ( तत् ) वह सब हम को ( आ, सुव ) प्राप्त की-  
जिये ॥ १ ॥

हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिस्कं आ-  
सीत् । स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा वि-  
धेम ॥ २ ॥ यजु० अ० १३ । मं० ४ ॥

अर्थः—जो ( हिरण्यगर्भः ) स्वप्रकाशस्वरूप और जिसने  
प्रकाश करनेहारे सूर्य चन्द्रमादि पदार्थ उत्पन्न करके धारण  
किये हैं जो ( भूतस्य ) उत्पन्न हुए सम्पूर्ण जगत् का ( जातः )  
प्रसिद्ध ( पतिः ) स्वामी ( एकः ) एक ही चेतनस्वरूप ( आ-  
सीत् ) था, जो ( अग्रे ) सब जगत् के उत्पन्न होने से पूर्व ( सम-  
वर्ततः ) वर्तमान था ( सः ) सो ( इमाम् ) इस ( पृथिवीम् ) भूमि  
( उत ) और ( द्याम् ) सूर्यादि को ( दाधार ) धारण कर रहा  
है हम लोग उस ( कस्मै ) सुखस्वरूप ( देवाय ) शुद्ध परमात्मा  
के लिये ( हविषा ) ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति-  
प्रेम से ( विधेम ) विशेष भाक्ति किया करें ॥ २ ॥

य आत्मदा ब्रह्मदा यस्य विश्व उपासते प्राशिषं यस्य



देवाः । यस्यच्छायाऽमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ३ ॥ य० अ० ५५ । मं० १३ ॥

अर्थः—( यः ) जो ( आत्मदाः ) आत्मज्ञान का दाता ( ब-  
रदाः ) शरीर, आत्मा और समाज के बल का देनेहार ( यस्य )  
जिसकी ( विश्व ) सब ( देवाः ) विद्वान् लोग ( उपासते )  
उपासना करते हैं और ( यस्य ) जिसका ( प्रशियम् ) प्रत्यक्ष  
अत्यल्प शासन और न्याय अर्थात् शिक्षा को मानते हैं  
( यस्य ) जिसका ( द्याया ) आश्रय ही ( अमृतम् ) मोक्षसुख-  
दायक है ( यस्य ) जिसका न मानना अर्थात् भक्ति न करना  
ही ( मृत्युः ) मृत्यु आदि दुःख का हेतु है हम लोग उस ( कस्मै )  
सुकलरूप ( देवाय ) सकलेश्वर के देनेहार परमात्मा की प्राप्ति  
के लिये ( हविषा ) आत्मा और अन्तःकरण से ( विधेम )  
भक्ति अर्थात् उसी की आज्ञापालन करने में तत्पर रहें ॥ ३ ॥

यः प्राणतो निमिपतो महित्वेक इद्राजा जगतो वभूव ।  
य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम  
॥ ४ ॥ यजु० अ० २३ । मं० ३ ॥

अर्थः—( यः ) जो ( प्राणतः ) प्राणबाल और ( निमिपतः )  
अप्राणिरूप ( जगतः ) जगत् का ( महित्वे ) अपने अगन्त  
महिमा से ( एक, इत् ) एक ही ( राजा ) विराजमान राजा  
( वभूव ) है ( यः ) जो ( अश्व ) इत्त ( द्विपदः ) मनुष्यादि और  
( चतुष्पदः ) गौ आदि प्राणियों के शरीर की ( ईशे ) रचना  
करता है हम उस ( कस्मै ) सुकलरूप ( देवाय ) सकलेश्वर  
के देनेहार परमात्मा के लिये ( हविषा ) अपनी सकल उत्तम  
सामग्री से ( विधेम ) विशेष भक्ति करें ॥ ४ ॥

येन द्यौरग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वः स्तभितं येन  
नाकः । यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा  
विधेम ॥ ५ ॥ य० अ० ३२ । मं० ६ ॥

अर्थः—(येन) जिस परमात्मा ने (उग्रा) तीक्ष्ण स्वभाव  
वाले (द्यौः) सूर्य आदि (च) और (पृथिवी) भूमि को  
(दृढा) धारण (येन) जिस जगदीश्वर ने (स्वः) सुख को  
(स्तभितम्) धारण और (येन) जिस ईश्वर ने (नाकः)  
हुंखरहित मोक्ष को धारण किया है (यः) जो (अन्तरिक्षे)  
आकाश में (रजसः) सब लोक लोकान्तरों को (विमानः)  
विशेष मानयुक्त अर्थात् जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं वैसे सब  
लोकों का निर्माण करता और भ्रमण कराता है, हम लोग उस  
(कस्मै) सुखदायक (देवाय) कामना करने के योग्य परमात्मा  
की प्राप्ति के लिये (हविषा) सब सामर्थ्य से (विधेम) वि-  
शेष भक्ति करें ॥ ५ ॥

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता व-  
भूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु त्वयं स्यात् पतयो  
रथीणाम् ॥ ६ ॥ ऋ० मं० १० । सू० १२१ । मं० १० ॥

अर्थः—हे (प्रजापते) सब प्रजा के स्वामी परमात्मा  
(त्वत्) आप से (अन्यः) भिन्न दूसरा कोई (ता) उन  
(पतानि) इन (विश्वा) सब (जातानि) उत्पन्न हुए जड़  
केतनादिकों को (न) नहीं (परि, वभूव) तिरस्कार करता  
है अर्थात् आप सर्वोपरि हैं (यत्कामाः) जिस २ पदार्थ की  
कामना वाले हम लोग (ते) आपका (जुहुमः) आश्रय लेंगे  
और वाञ्छा करें (तत्) उस २ की कामना (नः) हमारी

विद्व ( अस्तु ) होवे जिससे ( वयम् ) हम लोग ( स्वीणाम् )  
बनैश्वर्यों के ( पतयः ) स्वामी ( स्याम ) होवें ॥ ६ ॥

स नो बन्धुजनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि  
विधा । यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्ध्वैरयन्त  
॥ ७ ॥ यजु० अ० ३२ । मं० १० ॥

अर्थः—हे गण्डव्यो ! ( सः ) वह परमात्मा ( नः ) अपने लोगों  
को ( बन्धुः ) भ्रता के समान सुखदायक ( जनिता ) सकल  
जगत् का उत्पादक ( सः ) वह ( विधाता ) सब कामों का  
पूर्ण करनेहारा ( विधा ) संपूर्ण ( भुवनानि ) लोकमात्र और  
( धामानि ) नाम, स्थान, जन्मों का ( वेद ) जानता है और  
( यत्र ) जिस ( तृतीये ) सांसारिक सुख दुःख से रहित नि-  
स्थानन्दयुक्त ( धामन् ) मांजस्वरूप धारण करनेहारे परमात्मा  
में ( अमृतम् ) माल को ( आनशानाः ) प्राप्त होके ( देवाः )  
विद्वान् लोग ( ध्वैरयन्त ) स्वच्छाष्टयुक्त विचरते हैं वही  
परमात्मा अपना सुख, अन्निय, राज्ञ और न्यायाधीश है अपने  
लोग मिल के सदात्मकी भक्ति किया करे ॥ ७ ॥

अग्ने नय सुपथा गये अस्मान् विधानि देव व्युनानि  
विद्वान् । गुयाध्युस्मज्जुहुराणमज्ञा भूरिष्ठान्ते नम उक्त्रि  
विवेम ॥ ८ ॥ यजु० अ० ४० । मं० १६ ॥

अर्थः—हे ( अग्ने ) स्वप्रकाश दानस्वरूप सब जगत् के  
प्रकाश करनेहारे ( देव ) सकल सुखदाता परमेश्वर ! आप  
जिससे ( विद्वान् ) संपूर्ण विद्यायुक्त हैं रूपा करके ( अस्मान् )  
हम लोगों को ( गये ) विज्ञान वा राज्यादि पेश्वर्य की प्राप्ति के  
लिए ( सुपथा ) अच्छे धर्मयुक्त आस लोगों के मार्ग से ( वि-  
द्वानि ) संपूर्ण ( व्युनानि ) प्रज्ञान और उत्तम कर्म ( नय )

प्राप्त कराइये और ( अस्मत् ) हम से ( जुहुराणम् ) कुटिल-  
लायुक्त ( एनः ) पापरूप कर्म को ( युयोधि ) दूर कीजिये इस  
कारण हम लोग ( ते ) आप की ( भूयिष्ठाम् ) बहुत प्रकार की  
स्तुतिरूप ( नम उक्तिम् ) नम्रतापूर्वक प्रशंसा ( विधेम ) सदा  
किया करें और सर्वदा आनन्द में रहें ॥ ८ ॥

श्रीशिवस्तुतिप्रार्थनोपासनाप्रकरणम्



### अथ स्वस्तिवाचनम्

अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् । होतारं  
त्वधातमम् ॥ १ ॥ स नः पितेर्वसुनवेऽग्ने सुपायनो भव ।  
सचस्वा नः स्वस्तये ॥ २ ॥ ऋग्वेद मं० १ । सू० १ । मं०  
१ । ६ ॥ स्वस्ति नो मिमीतामधिना मः । स्वस्ति देव्य-  
दितिरनर्षणः । स्वस्ति पदा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्या-  
वापृथिवी सुचेतुना ॥ ३ ॥ स्वस्तये वायुष्टुः ब्रवासहे सोम  
स्वस्ति भुवन्नस्य यस्पतिः । बृहस्पतिं सर्वभूषणं स्वस्तये स्वस्तये  
आदित्यासौ भवन्तु नः ॥ ४ ॥ विश्वे देवा नो अद्या स्व-  
स्तये वैश्वानरो वसुमग्निः स्वस्तये । देवा अबन्त्वभवः स्व-  
स्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वहंसः ॥ ५ ॥ स्वस्ति मित्राव-  
हणा स्वस्ति पथ्ये रेवति । स्वस्ति नो इन्द्राग्निश्च स्वस्ति  
नो आदिते कृधि ॥ ६ ॥ स्वस्ति पन्थामसु चरेम सूर्या-  
चन्द्रमसाविद । पुनर्ददता भ्रता जानता उज्जमेमहि ॥ ७ ॥  
ऋ० मण्ड० ५ । सू० ५१ ॥

ये देवानां यज्ञिया यज्ञियानां मनोर्यजत्रा अमृता ऋत-  
ज्ञाः । ते नो रासन्तासुरुगायमद्य ययं पात स्वस्तिभिः सदा  
तः ॥ ८ ॥ ऋ० सं० ७ । सू० ३५ ॥

येभ्यो प्राता मधुमत्पिबन्ते पर्यः प्रीयुषुं द्यौरदिति रद्रिर्वर्हाः ।  
सुख्यशुमान् वृषभरान्त्स्वप्नसस्ताँ आदित्याँ अनुमदा स्व-  
स्तये ॥ ९ ॥ नृचक्षुसो आनिमिषन्तो अर्हणा बृहदेवासो  
पामृतत्वमानशुः । ज्योतीर्या अहिषाया अनागसो दिवो  
पुष्पाणि वसन्तु स्वस्तये ॥ १० ॥ सुभ्राजो ये सुवृधो यज्ञ-  
पायपुरपरिष्ठाता दधिरे दिवि क्षयम् । ताँ आ विवान् सम-  
ताँ सुवृक्षिभिर्भृहो आदित्याँ अदिति स्वस्तये ॥ ११ ॥  
सो ह्यः स्तोमं राधति यं जुजापथु विधे देवासो मनुषो  
धतिष्ठन् । क्रोवाँऽध्वरं तुविजाता अरं क्रधो नः पर्षद-  
संघः स्वस्तये ॥ १२ ॥ येभ्यो होत्राँ प्रयनमिहृजे मनुः  
क्षमिद्वाग्निर्मनसा सुप्तदोतृभिः । त आदित्या अमयं शदि  
धच्छत युगा नः कर्त्त सुपथा स्वस्तये ॥ १३ ॥ ये इशिरे  
एवंनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्यातुर्जगतश्च मन्तवः । त तः  
कृतादक्रुदिनसुपर्यया देवातः पिपृता स्वस्तये ॥ १४ ॥  
येष्विन्द्रं मुह्यं हवामहेऽहोमुच्यं सुकृत्यं देव्यं जनम् । अग्नि  
मिद्रं वरुणं सानये भगं व्यावापृथिवीं प्रकृतः स्वस्तये ॥ १५ ॥  
सुवामाणं पृथिवीं वामनेदसं सुशर्माणमदिति सुप्रणीदिम् ।  
दिव्यं नावं स्वस्त्रामनागवमस्रवन्तीमा रुहमा स्वस्तये ॥ १६ ॥

विश्वे यजत्रा अधि वोचतोतये त्रायध्वं नो दुरेवाया अधि-  
 हुतः । सत्यया वो देवहृत्या हुवेम शृण्वतो देवा अवसे  
 स्वस्तये ॥ १७ ॥ अपामीवामष विश्वात्मनाहुतिमपारादि  
 दुर्षिदत्रामघायतः । आरे देवा द्वेषो अरुमद्युद्योतनोरुणः  
 शर्म यच्छता स्वस्तये ॥ १८ ॥ अरिष्टः स मर्तो विश्व  
 एधते प्र गजार्भिर्जायते धर्मणस्परि । यमादित्यासो तयथा  
 सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता स्वस्तये ॥ १९ ॥ अ  
 देवासोऽवथ वाजसातौ यं शारसाता मरुतो द्वि ते धने ।  
 भ्रातर्यावाणं रथमिन्द्र सानसिसरिष्यन्तमा रुहेमा स्वस्तये  
 ॥ २० ॥ स्वस्ति नः पृथ्यासु धन्वसु स्वस्त्यप्सु अजने  
 स्ववति । स्वस्ति नः पुत्रकृष्ये योनिषु स्वस्ति राये मरुतो  
 दधातन ॥ २१ ॥ स्वस्ति सिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा रेवण स्वस्त्य-  
 मि या वाममेति । स नो अमा सो अरणे निपातु स्वति-  
 शा भवतु देवगोपाः ॥ २२ ॥ ऋ० मं० १० । सू० ६३ ॥  
 इषे त्वोज्जे त्वा जयव म्य देवो वः सविता प्रार्थियहु  
 अष्टतमाय कर्मणि आप्यायन्ध्वज्या इन्द्रसि भानं प्रजावती-  
 स्नमीवा अयुचमा सा वस्तेन इशत माघशशसो ध्रुवा अ-  
 स्मिन् गोपतौ स्यात बह्वीयजमानस्य एतद् पाहि ॥ २३ ॥  
 यजु० अ० १ । मं० १ ॥

आ नो भद्राः कर्तवो यन्तु विश्वतोऽद्वयामो अपरी-  
 तास उद्भिदः । देवा नो यथा सदमिदृशे असन्नप्रायुवो

शम्भ्वस्तु वायुः ॥ ६ ॥ शं नो देवः सविता प्रायमाहाः शं  
 नो भवन्तुपसो विभातीः । शं नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः  
 शं नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शम्भुः ॥ १० ॥ शं नो देवा वि-  
 श्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह धीभिरस्तु । शमभिपा-  
 चः शमु रातिपाचः शं नो दिव्याः पार्थिवाः शन्नो अप्याः  
 ॥ ११ ॥ शं नः सत्यस्य पतयो भवन्तु शं नो अर्वन्तः शम्भु  
 सन्तु गावः । शं नः क्रमवः सुकृतः सुहस्ताः शं नो भव-  
 न्तु पितरो हवेषु ॥ १२ ॥ शं नो अज एकपादेवो अस्तु  
 शं नोर्धिविध्वन्यः शं समुद्रः । शं नो अपां नपात्पेरुरस्तु शं  
 नः पृथिवीभवतु देवगोपाः ॥ १३ ॥ ऋ० मं० ७ । सू०  
 ३५ । मं० १-१३ ॥

इन्द्रो विश्वस्य राजति । शं नो अस्तु द्विपदे शं चतु-  
 ष्यदे ॥ १४ ॥ शन्नो वातः पवताश्शं नस्तपतु सूर्यः ।  
 शं नः कर्निकददेवः पर्जन्यो अभि वर्षतु ॥ १५ ॥ अहान्ति  
 शं भवन्तु नः शश्च रात्रीः प्रतिधीयताम् । शं नः इन्द्राग्नी  
 भवतामवोभिः शं नः इन्द्रावरुणा रातहव्या । शं नः इन्द्रा-  
 पूषणा वाजसातो शमिन्द्रासोमा सुविताय शंयोः ॥ १६ ॥  
 शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शंन्योरभि स्रव-  
 न्तु नः ॥ १७ ॥ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शा-  
 न्तिरापः शान्तिरोपधयः शान्तिः । वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे  
 देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः

सा मा शान्तिरोधि ॥ १८ ॥ तच्चतुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्ल-  
मुचरत् । पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतथं शृणु-  
याम शरदः शतं प्र ब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम  
शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ॥ १९ ॥ यजु० अ० ३६ ।  
मं० ८ । १० । ११ । १२ । १७ । २४ ॥


यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैव्यं तदु सुप्तस्य तथैवेति । दू-  
ङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ २० ॥  
येन कर्माण्यपसां मनीषिणां यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः ।  
यदपूर्वं यत्तन्मन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु  
॥ २१ ॥ यत्प्रज्ञानमुत्-चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं  
प्रजासु । यस्मान्न ऋते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः  
शिवसंकल्पमस्तु ॥ २२ ॥ येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परि-  
गृहीतममृतेन सर्वम् । येन यज्ञस्तायते समहोता तन्मे  
मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ २३ ॥ यस्मिन्नृचः सामः यजूथ-  
पि यस्मिन् प्रतिष्ठिता स्थनाभाविवांराः । यस्मिंश्चित्तथ  
सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ २४ ॥  
सुपारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽभीशुभिर्वाजिन इव ।  
दृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जर्विष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु  
॥ २५ ॥ यजु० अ० ३४ । मं० १-६ ॥

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५  
स नः पवस्व शं गवे शं जनाय शमवत । शं राजन्नो-  
षधीभ्यः ॥ २६ ॥ साम० उत्तरार्चिके० प्रपा० १ । मं० १ ॥



अभयं नः करत्यन्तरिंक्षमभयं धावापृथिवी उमे इमे ।  
 अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नो अस्तु ॥ २ ॥  
 अभयं मित्रादभयममित्रादभयं शतादभयं पुरोयः । अभयं  
 नक्षत्रमभयं दिवा नः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु ॥ २८ ॥  
 अथर्व० कां० १६ । सू० १५ । मं० ५ । ६ ॥

इति शान्तिप्रकरणम् \* ॥



### अथ सामान्यप्रकरणम्

नीचे लिखी हुई क्रिया सब संस्कारों में करनी चाहिये ।  
 परन्तु जहाँ कहीं विशेष होगा वहाँ सूचना करदी जायगी कि  
 वहाँ प्रोक्त अनुक्त कर्म न करनी चाहिए इतना अधिक करना  
 स्थान २ में जना दिया जायगा ।

यज्ञदेश—यज्ञ का देश पवित्र अर्थात् जहाँ स्थल, वायु  
 शुद्ध हो किसी प्रकार का उपद्रव न हो ॥

यज्ञशाला—इसी को यज्ञमण्डप भी कहते हैं यह अधिक  
 से अधिक १६ (सोलह) हाथ सम-चौरस चौकोर और न्यून से  
 न्यून ८ (आठ) हाथ की हो यदि भूमि अशुद्ध हो तो यज्ञशाला की  
 पृथिवी और जितनी गहरी वेदी बनानी हो उतनी पृथिवी दो २  
 हाथ चौद अशुद्ध निकालकर उसमें शुद्ध मिट्टी भरें । यदि १६  
 (सोलह) हाथ की समचौरस हो तो चारों ओर २० (बीस) खम्भे  
 और जो ८ (आठ) हाथ की हो तो १२ (बारह) खम्भे लगाकर उन  
 पर ढाया करें । वह ढाया की छूत वेदी की मेखला से १०

\* इस स्वस्तिवाचन और शान्तिप्रकरण को सर्वत्र जहाँ २ प्रतीक  
 हैं वहाँ २ करना होगा ।

(दश) हाथ ऊंची अवश्य होवे और यज्ञशाला के चारों दिशा में ४ द्वार रखें और यज्ञशाला के चारों ओर ध्वजा पताका पल्लव आदि बांधें। नित्य मार्जन तथा गोमय से लेपन करें और कुंकुम हस्त-दी मैदा की रेखाओं से सुभूषित किया करें। मनुष्यों को योग्य है कि सब मङ्गलकार्यों में अपने और पराये कल्याण के लिये यज्ञद्वारा ईश्वरोपासना करें। इसलिये निम्नलिखित सुगन्धित आदि द्रव्यों की आहुति यज्ञकुण्ड में दें ॥

### यज्ञकुण्ड का परिमाण

जो लक्ष आहुति करनी हों तो चार २ हाथ का चारों ओर समचौरस चौकोण कुण्ड ऊपर और उतना ही गहिरा और चतुर्थांश नीचे अर्थात् तले में एक हाथ चौकोण लम्बा चौड़ा रहे। इसी प्रकार जितनी आहुति करनी हों उतना ही गहिरा चौड़ा कुण्ड बनाना परन्तु अधिक आहुतियों में दो हाथ अर्थात् दो लक्ष आहुतियों में छः हाथ परिमाण का चौड़ा और समचौरस कुण्ड बनाना और जो पचास हजार आहुति देनी हों तो एक हाथ घटावे अर्थात् तीन हाथ गहिरा चौड़ा समचौरस और पौन हाथ नीचे। तथा पच्चीस हजार आहुति देनी हों तो दो हाथ चौड़ा गहिरा समचौरस और आध हाथ नीचे। दश हजार आहुति तक इतना ही अर्थात् दो हाथ चौड़ा गहिरा समचौरस और आध हाथ नीचे रखना। पांच हजार आहुति तक डेढ़ हाथ चौड़ा गहिरा समचौरस और जाड़े आठ अंगुल नीचे रहे। यह कुण्ड का परिमाण विशेष घृताहुतिका है यदि इसमें २५०० (दोई हजार) आहुति मोहनभोग, और और २५०० (दोई हजार) घृत की देवे तो दो ही हाथ का चौड़ा गहिरा समचौरस और आध हाथ नीचे कुण्ड रखे। चाहे घृत की हजार आहुति देनी हों तथापि सवा हाथ से न्यून चौड़ा गहिरा सम-

बौरस और चतुर्थीश नीचे न बनावे और इन कुण्डों में १५ (पन्द्रह) अंगुल की मेखला अर्थात् पांच २ अंगुल की ऊंची ३ (तीन) बनावे । और ये तीन मेखलायज्ञशाला की भूमि के तले से ऊपर करनी । प्रथम पांच अंगुल ऊंची और पांच अंगुल चौड़ी इसी प्रकार दूसरी और तीसरी मेखला बनावें ॥

### यज्ञसमिधा

पलाश, शमी, पीपल, बड़, गूलर, आम, विल्व आदि की समिधा वेदी के प्रमाणे छोटी बड़ी कटवा लें । परन्तु ये समिधा कीड़ा लगी, मलिनदेशोत्पन्न और अपवित्र पदार्थ आदि से दूषित न हों अच्छे प्रकार देख लें और चारों ओर बराबर कर बीच में चुनें ।

### होम के द्रव्य चार प्रकार

( प्रथम—सुगन्धित ) कस्तूरी, केशर, अरगर, तगर, श्वेत चन्दन, इलायची, जायफल, जावित्री आदि । ( द्वितीय—पुष्टिकारक ) घृत, दूध, फल, कन्द, अन्न, चावल, गेहूँ, उड़द आदि । ( तीसरे—मिष्ट ) शंकर, सहत, छुवारे, दास आदि । ( चौथे—रोगनाशक ) सोमलता अर्थात् गिलोय आदि ओषधियां ।

### स्थालीपाक

नीचे लिखे विधि से भात, खिचड़ी, खीर, लड्डू, मोहन-मोग आदि सब उत्तम पदार्थ बनावे । इसका प्रमाणः—

ओ३म् देवस्त्वा सविता पुनात्वच्छिद्रेण वसोः पवित्रेषु  
वर्षस्य गरिमामिः ॥

इस मन्त्र का यह अभिप्राय है कि होम के सब द्रव्य को यथायत् शुद्ध कर लेना अवश्य चाहिये अर्थात् सब का यथायत् शोध ज्ञान देख भाल सुचारु कर करें, इन द्रव्यों को यथायोग्य

मिला के पाक करना । जैसे कि सेर भर मिश्री के मोहनभोग में रत्ती भर कस्तूरी, मासे भर केशर, दो मासे जायफल, जावित्री, सेर भर मीठा, सब डाल कर, मोहनभोग बनाना इसी प्रकार अन्य-मीठा भात, खीर, खिचड़ी, मोदक आदि होम के लिये बनावें । चरु अर्थात् होम के लिये पाक बनाने की विधि ( ओं अग्नये त्वा जुष्टं निर्वपामि ) अर्थात् जितनी आहुति देनी हो प्रत्येक आहुति के लिये चार २ मूठी चावल आदि ले के ( ओं अग्नये त्वा जुष्टं प्रोक्षामि ) अर्थात् अच्छे प्रकार जल से धोके पाक-स्थाली में डाल अग्नि से पका लेवे । जब होम के लिये दूसरे पात्र में लेना हो तभी नीचे लिखे आज्यस्थाली वा शाकल्य-स्थाली में निकाल के यथावत् सुरक्षित रखें और उस पर घृत सेचन करें ।

### यज्ञपात्र

विशेष कर चांदी अथवा काष्ठ के पात्र होने चाहियें निम्न लिखित प्रमाणः—

### अथ पात्रलक्षणान्युच्यन्ते

बाहुमात्र्यः पाणिमात्रपुष्कराः, षडङ्गुलखातास्त्वग्वि-  
ह्ला हंसमुखप्रसेकाः, मूलदण्डाश्चतस्रः स्रुचो भवन्ति ।  
तत्र पालाशी जुहूः । आश्वत्थयुपभृत् । वैकङ्कती ध्रुवा ।  
अग्निहोत्रहवणी च । अरत्निमात्रः खादिरः स्रुवः अङ्गुष्ठ-  
पर्वमात्रपुष्करः । तथाविधो द्वितीयो वैकङ्कतः स्रुवः । वारणं  
बाहुमात्रं मकराकारमग्निहोत्रहवणीनिधानार्थं कूर्चम् ।  
अरत्निमात्रं खादिरं खड्गाकृतिं वज्रम् । वारणान्यहोम-  
संयुक्तानि । तत्रोलूखलं नाभिमात्रम् । मुसलं शिरोमात्रम् ।

अथवा प्रसक्तोत्सुकले वाच्ये सारदारुमये शुभे इच्छाप्रमाणे  
 मन्त्रः । तथा-खादिरं मुसलं कार्यं पालाशः स्यादुत्सुकलः ।  
 यद्वाभौ वारणी कार्यौ तदभावेऽन्यवृत्तौ ॥ शूर्पं वैणवमेव  
 वा । मेर्ताकं बलमेव वाऽचमेवद्वम् । प्रादेशमात्री वारणी  
 शक्या । कृष्णाजिनसखरदम् । दृपदुपले अश्ममये । वारणीं  
 २१ अन्वमात्री, २२ अरतिमात्री वा स्वातमध्यां मध्यसंगृ-  
 हीताः प्रोक्तव्यम् । अरतिमात्राणि ब्रह्मयजमानहोतृपत्न्या-  
 मुनाति । पुंजमयं त्रिवृतं व्यासमात्रं योक्तव्यम् । प्रादेशदीर्घे  
 अष्टादशगुणायत्तं पडङ्गुलस्वातमण्डलमध्ये पुरोडाशपात्र्यौ ।  
 प्रादेशमात्रं द्वयङ्गुलपरीणाहन्तीच्छात्रं श्रितावदानम् ।  
 आदेशमात्रं चतुरस्रं वा प्राशित्रहरणे । तयोरेकमीपत्खा-  
 तमध्यम् । पडङ्गुलकङ्कतिकाकारमुभयतः स्वातं पडवदा-  
 त्तम् । द्वादशाङ्गुलमष्टचन्द्राकारमष्टाङ्गुलसोत्सेधमन्तद्वान-  
 कदम् । उपवेशाञ्जतिमोत्रः । मुञ्जमयी रज्जुः । खादिरान्  
 द्वादशाङ्गुलजीवान् चतुरङ्गुलमस्तकान् तीक्ष्णाग्रान्  
 शङ्कन् । यजमानपूर्णपात्रं पत्नीपूर्णपात्रं च द्वादशाङ्गुल-  
 दीर्घं चतुरङ्गुलविस्तारं चतुरङ्गुलस्वातम् । तथा प्रणीता-  
 पात्रम् । आज्यस्थाली द्वादशाङ्गुलविस्तृता प्रादेशोच्चा । तथैव  
 चरुस्थाली । अन्वाहार्यपात्रं पुरुषचतुष्टयाहारपाकपर्याप्तं समि-  
 दिधमार्थं पलाशशाखामयं कौशं बर्हिः । ऋत्विग्वरणार्थं  
 कुण्डकाङ्गुलीयकयामांसि । पत्नीयजमानपरिधानार्थं क्षौम-  
 चासश्चतुष्टयम् । अग्न्याधेयदक्षिणार्थं चतुर्विंशतिपक्षे एको-


नपञ्चाशद् गावः । द्वादशपक्षे पञ्चविंशतिः । षट्पक्षे  
त्रयोदश । सर्वेषु पक्षेषु आदित्येऽष्टौ धेनवः । वरार्थं  
चतस्रो गावः ॥

समिध पलाश की १८ हस्त ३ इध्म परिधि ३ पलाश की  
बाहुमात्र नाभिधेनी समिध् प्रादेशमात्र समीक्षण लेर ५ शाळी  
१ दृषदुपल १, दीर्घ अङ्गुल १२ पृ० (पृष्ठभाग ?) १७ उपल  
अं० ६ नेतुव्यास हाथ ४ त्रिवृत्तृण या गोवाल का

पूर्णापात्र अं० १२

चौड़ा अंगुल ६



सूच सर्व ४ बाहुमात्र



सूचः ४ अंगुल २४

शम्याप्रादेश १



अरणी ४



पाटला ४ लम्बा २४ अंगुल

उलूखल नाभिमात्र



मुसल



उपल


श्रुतावदान प्रोदशमात्र

कूर्च बाहुमात्र १




कस्तूर्यात १ अं० १२

कांडा अंगुल २४

उत्तरारणी दुकड़ा  
१८अंगुल ६ पोली अंगुल  
४ कंची अत्रारणीप्राशित्रहरणे  
दर्पणाकार




पिष्टपात्री



अभि० १ अं० २४

आवली अं० १२


चात्र अं० १२



बहुवत अं० १२

पुरोडाश पात्री

इडा अंगुल १२



प्रवीता अं० १२

प्रोक्षणी अं० १२



अंगोछा २४ अं० लम्बा



मूलेखात उषध

उपदेश १ अं० २४

शर्प



### अथ ऋत्विग्वरणम्

यजमानोक्तिः—‘ओमावसोः सवने सीद’ इस मन्त्र का उच्चारण करके ऋत्विज को कर्म कराने की इच्छा से स्वीकार करने के लिये प्रार्थना करे। ऋत्विगुक्तिः—‘ओं सीदामि’ ऐसा कहके जो उसके लिये आसन बिछाया हो उस पर बैठे। यजमानोक्तिः—‘अहमद्योक्तकर्मकरण्याय भवन्तं वृणे’। ऋत्विगुक्तिः—‘वृतोऽस्मि’। ऋत्विजों का लक्षण—अच्छे विद्वान्, धार्मिक, जितेन्द्रिय, कर्म करने में कुशल, निर्लोभ, प्रोपकारी, दुर्व्यसनों से रहित, कुलीन, सुशील, वैदिक मतवाले वेदवित् एक दो तीन अथवा चार का वरण करें जो एक हों तो उसका पुरोहित और जो दो हों तो ऋत्विक् पुरोहित और तीन हों तो ऋत्विक् पुरोहित और अध्वक्ष और जो चार हों तो होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा इनका आसन वेदी के चारों ओर अर्थात् होता का वेदी से पश्चिम आसन पूर्व मुख, अध्वर्यु का उत्तर आसन दक्षिण मुख, उद्गाता का पूर्व आसन पश्चिम मुख और ब्रह्मा का दक्षिण आसन उत्तर में मुख होना चाहिये और यजमान का आसन पश्चिम में और वह पूर्वाभिमुख अथवा दक्षिण में आसन पर बैठ के उत्तराभिमुख रहे और इन ऋत्विजों को सत्कारपूर्वक आसन पर बैठाना और ये प्रसन्नतापूर्वक



आसन पर बैठें और उपस्थित कर्म के बिना दूसरा कर्म वा दूसरी बात कोई भी न करें और अपने २ जलपात्र से सब जन जो कि यज्ञ करने को बैठे हों वे इन मन्त्रों से तीन २ आचमन करें अर्थात् एक २ से एक २ बार आचमन करें वे मन्त्र ये हैं ।

ओं अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥ १ ॥ इससे एक,

ओं अमृतापिधानमसि स्वाहा ॥ २ ॥ इससे दूसरा,

ओं सत्यं यशः श्रीमयि श्रीः श्रयतां स्वाहा ॥ ३ ॥

तत्तरी० प्र० १० । अनु० ३२-३५ ॥

इससे तीसरा आचमन करके तत्पश्चात् नीचे लिखे मन्त्रों से जल करके अंगों का स्पर्श करें ।

ओं वाइसध्यास्येऽस्तु ॥ इस मन्त्र से मुख,

ओं नसोर्धे प्राण्येऽस्तु ॥ इस मन्त्र से नासिका के दोनों छिद्र,

ओं अक्ष्यामे चक्षुरस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों आंखें,

ओं कण्ठयोर्मे श्रोत्रमस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों कान,

ओं वाह्वामि ब्रह्ममस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों बाहु,

ओं जवामिऽश्रोजीऽस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों जंघा आदि

ओं अग्निष्ठानि मेऽङ्गानि तनूस्तन्वा मे सह सन्तु ॥

पारस्कर गृ० कण्डिका ३ । सू० २५ ॥

इस मन्त्र से दाहिने हाथ से जल स्पर्श करके सार्जन करना पूर्वोक्त सामिवाचयन वेदी में करें पुनः—

ओं भूर्भुवः स्वः ॥ गोभिल गृ० प्र० १ । खं० १ ।

सू० ११ ॥

इस मन्त्र का उच्चारण करके ब्राह्मण क्षत्रिय वा वैश्य के घर से अग्नि ला अथवा घृत का दीपक जला, उससे कपूर में लगा, किसी एक पात्र में घर उसमें छोटी २ लकड़ी लगा के यजमान वा पुरोहित उस पात्र को दोनों हाथों से उठा, यदि गर्म हो तो चिमटे से पकड़ कर अगले मन्त्र से अग्न्याधान करे वह मन्त्र यह है ।

ओं भूर्भुवः स्वर्धौरिव भूमना पृथिवीव क्षारिण्या ।  
तस्यास्ते पृथिवि देवयजनि पृष्टेऽग्निधेहादसभाहादये  
॥ १ ॥ यजु० अ० ३ । मं० ५ ॥

इस मन्त्र से वेदी के बीच में अग्नि को घर उस पर छोटे छोटे काष्ठ और थोड़ा कपूर घर अगला मन्त्र पढ़ कर यजमान से अग्नि को प्रदक्षि करे ।

ओं उर्ध्वव्यस्वाग्ने प्रति जागृहि स्वमिथापुत्रे मयः  
सृजेथामयं च । अस्मिन्त्वधमोऽध्युत्तरसिन् विश्वे देवा  
यजमानश्च सीदत ॥ यजु० अ० १५ । मं० ३४ ॥

जब अग्नि समिधाओं में प्रविष्ट होने लगे तब चन्द्रन की अथवा ऊपर लिखित पलाशादि की तीन लकड़ी आठ अंगुल की घृत में डुबा उनमें से एक २ नीचे लिखे एक २ मन्त्र से एक २ समिधा को अग्नि में चढ़ावे । वे मन्त्र ये हैं—

ओं अयन्त इधम आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्द्धस्व चेद्ध  
वर्द्धय चास्मान् प्रजया पशुमिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय,  
स्वाहा ॥ इदमग्नये जातवेदसे—इदन्न मम ॥ १ ॥

ओं समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्वोधयतातिथिम् । आ-

स्मिन् हव्या जुहोतन् स्वाहा ॥ इदमग्नये—इदम् मम  
॥ २ ॥ इससे और

सुसामिद्वाय शोचिपे घृतं तीव्रं जुहोतन् । अग्नये जात-  
वेदसे स्वाहा ॥ इदमग्नये जातवेदसे—इदम् मम ॥ ३ ॥

इस मन्त्र से अर्थात् दोनों मन्त्रों से दूसरी

तन्त्र्या समिद्धिरङ्गिरो घृतेन वर्द्धयामसि । बृहच्छ्वौचा-  
यविष्टय स्वाहा ॥ इदमग्नयेऽङ्गिसे—इदम् मम ॥ ४ ॥

यजु० अ० ३ । मं० १ । २ । ३ ॥

इस मन्त्र से तीसरी समिधा की आहुति देवे ।

इन मन्त्रों से समिधाधान करके होम का शाकल्य जो कि यथावत् विधि से बनाया हो, सुवर्ण, चांदी, कांसा आदि धातु के पात्र अथवा कान्ठपात्र में वेदी के पास सुरक्षित धरे पश्चात् उपरिलिखित वृतादि जा कि उष्ण कर छान पूर्वोक्त सुगन्ध्यादि पदार्थ मिलाकर पात्रों में रक्खा हो, उस, घृत वा अन्य मोहन-भोगादि जो कुछ सामग्री हो, में से कम से कम ६ मासा भर अधिक से अधिक छटांक भर की आहुति देवे यही आहुति का प्रमाण है । उस घृत में से चमसा, कि जिस में छः मासा ही घृत आवे पैसा बनाया हो, भर के नीचे लिखे मन्त्र से पांच आहुति देनी ।

ओं अयन्त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व  
चेद् वर्द्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनाग्नेन समेध-  
य स्वाहा ॥ इदमग्नये जातवेदसे—इदम् मम ॥ १ ॥

तत्पश्चात् अञ्जलि में जल लेके वेदी के पूर्व दिशा आदि  
धारों और छिड़कावे उसके ये मन्त्र हैं—

ओम् आदितेऽनुमन्यस्व ॥ इस मन्त्र से पूर्व,  
ओम् अनुमतेऽनुमन्यस्व ॥ इससे पश्चिम,  
ओं सरस्वत्यनुमन्यस्व ॥ इससे उत्तर और—  
गोमिलगृ० प्र० खं० ३ । सू० १-३ ॥

ओं देव सवितः प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भर्गाय ।  
दिव्यो गन्धर्वः केतपूः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः  
स्वदतु ॥ यजु० अ० ३० । मं० १ ॥

इस मन्त्र से वेदी के चारों ओर जल छिड़कावे; इस के पश्चात् सामान्य होमाहुति गर्भाधानादि प्रधान संस्कारों में अवश्य करें। इस में मुख्य होम के आदि और अन्त में जो आहुति दी जाती है उनमें से यज्ञकुरण्ड के उत्तर भाग में जो एक आहुति और यज्ञकुरण्ड के दक्षिण भाग में दूसरी आहुति देनी होती है उसका नाम "आधारवाज्याहुति" कहते हैं। और जो कुरण्ड के मध्य में आहुतियां दी जाती हैं उनको "आज्य-भागाहुति" कहते हैं। सो घृतपात्र में से सुवा को भर अंगूठा अथवा अनामिका से सुवा को पकड़ के—

ओम् अग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये इदन्न मम ॥

इस मन्त्र से वेदी के उत्तर भाग अग्नि में,

ओं सोमाय स्वाहा ॥ इदं सोमाय—इदन्न मम ॥

गो० गृ० प्र० १ । खं० ८ । सू० २४ ॥

इस मन्त्र से वेदी के दक्षिण भाग में प्रज्वलित सामिधा षट्

आहुति देनी, तत्पश्चात्

ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये—इदन्न मम ॥

ओम् इन्द्राय स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय—इदन्न मम ॥

इन दोनों मन्त्रों से वेदी के मध्य में दो आहुति देनी उसके पश्चात् चार आहुति अर्थात् आवासावाज्यभागाहुति देके जब प्रधान होम अर्थात् जिस २ कर्म में जितना २ होम करना हो करके पश्चात् पूर्णाहुति पूर्वोक्त चार ( आवासावाज्यभागा० ) देवें । पुनः शुद्ध किये हुए उसी दूतनात्र में से चुपा को भर के मन्थलित समिश्राओं पर व्याहृति की चार आहुति देवें ।

ओं भूर्गन्धये स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न मम ।

ओं भुवर्वायवे स्वाहा ॥ इदं वायवे-इदन्न मम ।

ओं स्वरादित्याय स्वाहा ॥ इदसादित्याय-इदन्न मम ।

ओं भृशुवः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः स्वाहा ॥ इदम-  
ग्निवाय्वादित्येभ्यः-इदन्न मम ।

ये चार दो कौ आहुति देकर स्विष्टकृत होनाहुति एक ही है यह दूत अथवा भात की देनी चाहिये उसका मन्त्र—

ओं यदस्य कर्मणोऽल्परिचं यद्वा न्यूनविदकस्य ।  
अग्निष्टत्स्विष्टकृद्विधात्सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे । अग्नये  
स्विष्टकृतं सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्द्ध-  
यिन्नं सर्वान्नः कामान्तसमर्द्धय स्वाहा ॥ इदमग्नये स्विष्ट-  
कृते-इदन्न मम ॥ शतपथ क० १४ । ६ । ४ । २४ ॥

इस से एक आहुति करके प्राजापत्याहुति करे । नीचे लिखे मन्त्र को मन में बोल के देनी चाहिये ।

ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये-इदन्न मम ॥

इस से मौन करके एक आहुति देकर चार आज्याहुति दूत की देवें । परन्तु जो नीचे लिखी आहुति बोल समावर्तन और विवाह में मुख्य हैं वे चार मन्त्र ये हैं—

ओं भूर्भुवः स्वः । अग्ने आयूषि पवस आ सुवोर्ज्ज-  
मिषं च नः । आरे वाधस्व दुच्छुनां स्वाहा ॥ इदमग्नये  
पवमानाय—इदन्न मम ॥ १ ॥ ओं भूर्भुवः स्वः । अग्नि-  
र्ऋषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः । तमीमहे महागयं  
स्वाहा ॥ इदमग्नये पवमानाय—इदन्न मम ॥ २ ॥ ओं  
भूर्भुवः स्वः । अग्ने पवस्व स्वया अस्मे वज्रैः सुवी-  
र्यम् । दधद्रयि मयि पोषं स्वाहा ॥ इदमग्नये पवमाना-  
य—इदन्न मम ॥ ३ ॥ ऋ० मं० ६ । सू० ६६ । मं०  
१६ । २० । २१ ॥

ओं भूर्भुवः स्वः । प्रजापते न त्वदेतान्विन्यो विश्वा  
जातानि परि ता वभूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु व्यं  
स्याम पतयो रयीणां स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये—इदन्न मम  
॥ ४ ॥ ऋ० मं० १० । सू० १२१ । मं० १० ॥

इन स घृत की चार आहुति करके "अष्टाज्याहुति" ये निम्न-  
लिखित मन्त्रों से सर्वत्र मङ्गल कार्यों में ८ (आठ) आहुति  
देवे परन्तु किल २ संस्कार में कहां २ देनी चाहिये यह विशेष  
बात उस २ संस्कार में लिखेंगे वे आठ आहुति मन्त्र ये हैं ॥

ओं त्वन्नोऽअग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेळोऽअव  
भासिसीष्टाः । यजिष्ठो वह्नितसुः शोशुचानो विश्वा द्वेषांसि  
प्र सुमुग्ध्यस्मत् स्वाहा ॥ इदमग्निवरुणाभ्याम्—इदन्न मम  
॥ १ ॥ ओं स त्वन्नोऽअग्नेऽवमो भवोती नेदिष्ठो अस्या  
उपसो व्युष्टौ । अव यच्च नो वरुणं रराणो वीहि मंडीकं

सुहवो न एधि स्वाहा । इममग्निवरुणाम्यां—इदन्न मम ॥ २ ॥ ऋ० मं० ४ । सू० १ । मं० ४ । ५ ॥

ओं इमं मे वरुण शुधी हवसुधा च मृळ्य । त्वामह-  
स्युरा चके स्वाहा ॥ इदं वरुणाय—इदन्न मम ॥ ३ ॥  
ऋ० मं० १ । सू० २५ । मं० १६ ॥

ओं तत्त्वां यासि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशांस्ते यजमा-  
नो हविर्भिः । अहेळमानो वरुणेह शोध्युरुशंस मा न आयुः  
प्र सोपीः स्वाहा ॥ इदं वरुणाय—इदन्न मम ॥ ऋ० मं०  
१ । सू० २४ । मं० ११ ॥

ओं ये ते शतं वरुण ये सहस्रं यज्ञियाः पाशा वितता  
प्रहान्तः । तेभिर्नोऽग्रघ सवितोत विष्णुर्विथे मुञ्चन्तु मरुतः  
स्वर्काः स्वाहा ॥ इदं वरुणाय सवित्रे विष्णावे विश्वेभ्यो  
देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्केभ्यः—इदन्न मम ॥ ५ ॥ ओं अया-  
धाग्नेऽस्यनभिशस्तिपाश्च सत्यमित्दमयासि । अया नो यज्ञं  
वहास्यया नो धेहि मेपजथ स्वाहा ॥ इदमग्नये अयसे—  
इदन्न मम ॥ ६ ॥ कात्या० २५—११ ॥ ओं उदुत्तमं  
वरुण पाशंमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय । अथा वयमा-  
दिग्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम स्वाहा ॥ इदं  
वरुणायाऽऽदित्यायाऽदितये च—इदन्न मम ॥ ऋ० मं० १ ।  
सू० २४ । मं० १५ ॥

ओं भवतन्नः समनमौ सचेतसावरेपसौ । मा यज्ञथ

हिंथ सिंष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमृद्य नः  
स्वाहा ॥ इदं जातवेदोभ्यां—इदन्न मम ॥ यजु० अ० ५ ।  
मं० ३ ॥

सब संस्कारों में मधुर स्वर से मन्त्रोच्चारण यजमान ही  
करे, न शीघ्र न विलम्ब से उच्चारण करे किन्तु मध्य भाग  
जैसा कि जिस वेद का उच्चारण है करे । यदि यजमान न पढ़ा  
हो तो इतने मन्त्र तो अवश्य पढ़ लेवे । यदि कोई कार्यकर्ता  
जड़ मंदमति काला अक्षर भँस बराबर जानता हो तो वह शूद्र  
है अर्थात् शूद्र मन्त्रोच्चारण में असमर्थ हो तो पुरोहित और  
ऋत्विज् मन्त्रोच्चारण करे और कर्म उसी मूढ़ यजमान के  
हाथ से करावे, पुनः निम्नलिखित मन्त्र से पूर्णाहुति कर चुवा  
को घृत से भर के—

ओं सर्व वै पूर्णं स्वाहा ॥

इस मन्त्र से एक आहुति देवे, ऐस ही दूसरी और तीसरी  
आहुति देके जिसको दक्षिणा देनी हो वा जिसको जिमाना हो  
जिमा, दक्षिणा देके सब को विदा कर खाँ पुरुष हुतशेष घृत,  
भात वा मोहनभोग को प्रथम जीम के पश्चात् रुचिपूर्वक उत्त-  
मान्न का भोजन करे ।

मङ्गलकार्य ॥

अर्थात् गर्भाधानादि संन्यास संस्कार पर्यन्त पूर्वोक्त और  
निम्नलिखित सामवेदोक्त वामदेव्यगान अवश्य करें वे मन्त्र  
ये हैं ।

ओं भूर्भुवः स्वः । कया नश्चित्र आभुवदूती सदा वृथः  
सखा । कया शचिष्ठया वृता ॥ १ ॥ ओं भूर्भुवः स्वः ।



कस्त्वा सत्या मदानां महिष्ठो मत्सदन्धसः । दृढा चिदा-  
 रुजं वसु ॥ २ ॥ ओं भूर्भुवः स्वः । अमीषुणः सर्वाणाम-  
 विता जरितृणाम् । शतम्भवास्पृतये ॥ ३ ॥ महावामदेव्यम् ॥  
 काऽप्रया । नश्वाऽ इत्राऽ आभुवात् । ऊ । ती सदावृधः  
 सखा । औऽहोहाई । कया २३ शचाई । ष्ट्याहोऽ हुम्मा २ ।  
 वारतोऽप्रहाइ ॥ ( १ ) ॥ काऽप्रस्त्वा । सत्योऽमाऽदा-  
 नाम् । मा । दिष्टा मात्सादन्ध । सा । औऽहोहाई । दृढारऽ  
 चिदा । रुजाहोऽ । हुम्मार । वाऽसोऽप्रहायि ॥ ( २ ) ॥  
 आऽप्रमी । पु णाऽः साऽस्वीनाम् । आ । विता जरायितृ ।  
 णाम् । औऽहो हायि । शताऽऽम्भवा । सियाहोऽ ।  
 हुम्मा २ । ताऽऽ योऽप्रहायि ॥ ( ३ ) ॥ साम० उत्त-  
 राचिके । अध्याये १ । खं० ३ । मं० १ । २ । ३ ॥

यह वामदेव्यगान होने के पश्चात् गृहस्थ स्त्री पुरुष कार्य-  
 कर्त्ता सद्धर्मी लोकप्रिय परोपकारी सज्जन विद्वान् वा त्यागी  
 पक्षपातरहित संन्यासी जो सदा विद्या की वृद्धि और सब के  
 कल्याणार्थ वृत्तनेवाले हों उनको नमस्कार, आसन, अन्न, जल,  
 वस्त्र, पात्र, धन आदि के दान से उत्तम प्रकार से यथासामर्थ्य  
 सत्कार करें, पश्चात् जो कोई देखने ही के लिये आये हों उनको  
 भी सत्कारपूर्वक विदा कर दें अथवा जो संस्कार क्रिया को  
 देखना चाहें वे प्रथक् २ मौन करके बैठ रहें, कोई बात चीत

दृष्ट्वा गुह्या न करने पावें सब लोग ध्यानावस्थित प्रसन्नवदन रहें विशेष कर्मकर्त्ता और कर्म कराने वाले शान्ति धीरज और विचारपूर्वक क्रम से कर्म करें और करावें ॥ यह सामान्य विधि अर्थात् सब संस्कारों में कर्तव्य है ।

इति सामान्यप्रकरणम् ।



अथ गर्भाधानविधिं वक्ष्यामः ॥

निषेकादिश्मशानान्तो मन्त्रैर्यस्योदितो विधिः ।

मनुस्मृति द्वितीयाध्याये श्लोक १६ ॥

अर्थः—मनुष्यों के शरीर और आत्मा के उत्तम होने के लिये निषेक अर्थात् गर्भाधान से लेके श्मशानान्त अर्थात् अन्त्येष्टि मृत्यु के पश्चात् मृतक शरीर का विधिपूर्वक दाह करने पर्यन्त १६ संस्कार होते हैं । शरीर का आरम्भ गर्भाधान और शरीर का अन्त भस्म कर देने तक सोलह प्रकार के उत्तम संस्कार करने होते हैं उन में से प्रथम गर्भाधान संस्कार है ।

गर्भाधान उसको कहते हैं कि जो “गर्भस्याऽऽधानं वीर्यस्थापनं स्थिरीकरणं यस्मिन्येन वा कर्मणा तद् गर्भाधानम्” गर्भ का धारण अर्थात् वीर्य का स्थापन गर्भाशय में स्थिर करना जिससे होता है । जैसे बीज और क्षेत्र के उत्तम होने से अन्नादि पदार्थ भी उत्तम होते हैं वैसे उत्तम बलवान् स्त्री पुरुषों से सन्तान भी उत्तम होते हैं । इससे पूर्णयुवावस्था पथावत् ब्रह्मचर्य का पालन और विद्याभ्यास करके अर्थात् न्यून से न्यून १६ ( सोलह ) वर्ष की कन्या और २५ ( पच्चीस ) वर्ष का पुरुष अवश्य हो और इससे अधिक बयवाले होने से

आधिक उत्तमता होती है क्योंकि विना सोलहवें वर्ष के गर्भा-  
शय में बालक के शरीर को यथावत् बढ़ने के लिये अवकाश  
और गर्भ के धारण पोषण का सामर्थ्य कभी नहीं होता और  
२५ ( पच्चीस ) वर्ष के विना पुरुष का वीर्य भी उत्तम नहीं  
होता । इसमें यह प्रमाण है ।

पञ्चविंशो ततो वर्षे पुमान्जारी तु षोडशे ॥

सप्तत्वागतवीर्यौ तौ जानीयात् कुशलो मिषक् ॥ १ ॥

सुश्रुते सूत्रस्थाने । अध्याय ३५ ॥

ऊनषोडशवर्षायामप्राप्तः पञ्चविंशतिम् ।

यथावचे पुमान् गर्भं कुक्षिस्थः स विपद्यते ॥ २ ॥

जातो वा न चिरं जीवेज्जीवेद्वा दुर्बलेन्द्रियः ।

तस्मादत्यन्तवालायां गर्भाधानं न कारयेत् ॥ ३ ॥

सुश्रुते शारीरस्थाने अ० १० ॥

ये सुश्रुत के श्लोक हैं । शरीर की उन्नति वा अवनति की  
विधि जैसी वैद्यक शास्त्र में है वैसी अन्यत्र नहीं जो उसका  
मूल विधान है आगे वेदारम्भ में लिखा जायगा अर्थात् किस २  
वर्ष में कौन २ धातु किस २ प्रकार का कच्चा वा पका वृद्धि  
वा क्षय को प्राप्त होता है यह सब वैद्यक शास्त्र में विधान है  
इसलिये गर्भाधानादि संस्कारों के करने में वैद्यकशास्त्र का  
आशय विशेष लेना चाहिये । अब देखिये सुश्रुतकार परमवैद्य  
कि जिनका प्रमाण सब विद्वान् लोग मानते हैं वे विवाह और  
गर्भाधान का समय न्यून से न्यून १६ वर्ष की कन्या और पच्चीस  
वर्ष का पुरुष अवश्य होवे यह लिखते हैं जितना सामर्थ्य २५  
( पच्चीसवें ) वर्ष में पुरुष के शरीर में होता है उतना ही

सामर्थ्य १६ ( सोलहवें ) वर्ष में कन्या के शरीर में हो जाता है इसलिये वैद्य लोग पूर्वोक्त अवस्था में दोनों को समवीर्य अर्थात् तुल्य सामर्थ्यवाले जानें ॥ १ ॥ सोलह वर्ष से न्यून अवस्था की स्त्री में २५ ( पच्चीस ) वर्ष से कम अवस्था का पुरुष यदि गर्भाधान करता है तो वह गर्भ उदर में ही बिगड़ जाता है ॥ २ ॥ और जो उत्पन्न भी हो तो अधिक नहीं जीवे अथवा कदाचित् जीवे भी तो उसके अत्यन्त दुर्बल शरीर और इन्द्रिय हों इसलिये अत्यन्त बाला अर्थात् सोलह वर्ष की अवस्था से कम अवस्था की स्त्री में कभी गर्भाधान नहीं करना चाहिये ।

चतस्रोऽवस्थाः शरीरस्य वृद्धिर्यौवनं संपूर्णता किञ्चित्परिहाणिश्रेति । आपोडशाद्दृष्टिराचतुर्विंशतेर्यौवनमाचत्वारिंशतः सम्पूर्णता ततः किञ्चित्परिहाणिश्रेति ॥

अर्थः—सोलहवें वर्ष से आगे मनुष्य के शरीर के सब धातुओं की वृद्धि और पच्चीसवें वर्ष से युवावस्था का आरम्भ, चालीसवें वर्ष में युवावस्था की पूर्णता अर्थात् सब धातुओं की पूर्णपुष्टि और उससे आगे किञ्चित् २ धातु वीर्य की हानि होती है अर्थात् ४० ( चालीसवें ) वर्ष सब अवयव पूर्ण हो जाते हैं पुनः खानपान से जो उत्पन्न वीर्य धातु होता है वह कुछ २ क्षीण होने लगता है । इससे यह सिद्ध होता है कि यदि शीघ्र विवाह करना चाहें तो कन्या १६ ( सोलह ) वर्ष की और पुरुष २५ ( पच्चीस ) वर्ष का अवश्य होना चाहिये । मध्यम समय कन्या का २० ( बीस ) वर्ष पर्यन्त और पुरुष का ४० ( चालीसवां ) वर्ष और उत्तम समय कन्या का चौबीस वर्ष और पुरुष का ४८ ( अड़तालीस ) वर्ष पर्यन्त का है । जो अपन कुल की उत्तमता उत्तम सन्तान दीर्घायु सुशील बुद्धि बल पराक्रमयुक्त विद्वान् और श्रीमान् करना चाहें वे १६ ( सोलहवें ) वर्ष से

पूर्व कन्या और २५ (पञ्चीसवें) वर्ष से पूर्व पुत्र का विवाह कभी न करें। यही सब सुधार का सुधार, सब सौभाग्यों का सौभाग्य और सब उन्नतियों की उन्नति करनेवाला कर्म है कि इस अवस्था में ब्रह्मचर्य रख के अपने सन्तानों को विद्या और सुशिक्षा ग्रहण करावें कि जिससे उत्तम सन्तान हों।

### ऋतुदान का काल

ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतस्सदा ।

पर्ववर्जं व्रजेच्चैनां तद्व्रतो रतिकाम्यया ॥ १ ॥

ऋतुः स्वामाधिकः स्त्रीणां रात्रयः षोडश स्मृताः ।

चतुर्भिरितरैः सार्द्धमहोमिः सद्विगर्हितैः ॥ २ ॥

तासामाद्याश्चतस्रस्तु निन्दितैकादशी च या ।

त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः ॥ ३ ॥

युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियोऽयुग्मासु रात्रिषु ।

तस्माद्युग्मासु पुत्रार्थी संविशेदात्तवे स्त्रियम् ॥ ४ ॥

पुमान् पुंसोऽधिके शुके स्त्री भवत्यधिके स्त्रियाः ।

समे पुमान् पुंस्त्रियो वा क्षीणेष्वपे च विपर्ययः ॥ ५ ॥

निन्यास्वष्टासु चान्यासु स्त्रियो रात्रिषु वर्जयन् ।

ब्रह्मचार्येव भवति यत्र तत्राश्रमे वसन् ॥ ६ ॥

मनुस्मृतौ अ० ३ ॥

अर्थः—मनु आदि महर्षियों ने ऋतुदान के समय का निश्चय इस प्रकार से किया है कि सदा पुरुष ऋतुकाल में स्त्री का समागम करे और अपनी स्त्री के बिना दूसरी स्त्री का सर्वदा त्याग रखे ! वैसे स्त्री भी अपने विवाहित पुरुष को छोड़

के अन्य पुरुषों से सदैव पृथक् रहे । जो स्त्रीव्रत अर्थात् अपनी विवाहित स्त्री ही से प्रसन्न रहता है जैसे कि पतिव्रता स्त्री अपने विवाहित पुरुष को छोड़ दूसरे पुरुष का संग कभी नहीं करती वह पुरुष जब ऋतुदान देना हो तब पूर्व अर्थात् जो उन ऋतुदान के ( सोलह ) दिनों में पौर्णमासी अमावास्या चतुर्दशी वा अष्टमी आवे उसको छोड़ देवे इनमें स्त्री पुरुष रतिक्रिया कभी न करे ॥ १ ॥ स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतु-फाल १६ ( सोलह ) रात्रि का है अर्थात् रजोदर्शन दिन से लेके १६ ( सोलहवें ) दिन तक ऋतुसमय है उनमें प्रथम की चार रात्री अर्थात् जिस दिन रजस्वला हो उस दिन से ले चार दिन निन्दित हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ रात्रि में पुरुष स्त्री का स्पर्श और स्त्री पुरुष का सम्बन्ध कभी न करे अर्थात् उस रजस्वला के हाथ का छुआ पानी भी न पीवे, न वह स्त्री कुछ काम करे किन्तु एकान्त में बैठी रहे क्योंकि इन चार रात्रियों में समागम करना व्यर्थ और महारागकारक है । रजो अर्थात् स्त्री के शरीर से एक प्रकार का विहृत उष्ण रुधिर जैसा कि फोड़े में से पीव वा रुधिर निकलता है वैसा है ॥ २ ॥ और जैसे प्रथम की चार रात्रि ऋतुदान देने में निन्दित हैं वैसे न्यारहवीं और तेरहवीं रात्रि भी निन्दित है और बाकी रहीं दश रात्रि सो ऋतुदान देने में श्रेष्ठ हैं ॥ ३ ॥ जिनको पुत्र की इच्छा हो वे छठी, आठवीं, दशवीं, बारहवीं, चौदहवीं और सोलहवीं ये छः रात्रि ऋतुदान में उत्तम जाने परन्तु इनमें भी उत्तर २ श्रेष्ठ हैं और जिनको कन्या की इच्छा हो वे पांचवीं, सातवीं, नवीं और पन्द्रहवीं ये चार रात्रि उत्तम समझे \* इससे पुत्रार्थी युग्म रात्रियों में ऋतुदान देवे ॥ ४ ॥

\* रात्रिगणना इसलिये की है कि दिन में ऋतुदान का निषेध है ।

पुरुष के अधिक वीर्य होने से पुत्र और स्त्री के अधिक होने से कन्या, तुल्य होने से नपुंसक पुरुष वा बन्ध्या स्त्री, क्षीण और अल्पवीर्य से गर्भ का न रहना वा रहकर गिरजाना होता है ॥ ५ ॥ जो पूर्व निन्दित ऋ ( आठ ) रात्रि कह आये हैं उनमें जो स्त्री का संग छोड़ देता है वह गृहाधम में वसता हुआ भी गृहाधारी ही कहाता है ॥ ६ ॥

उपनिषदि गर्मलम्नम् ॥

यह आश्रमलायन गृह्यसूत्र का वचन है जैसा उपनिषद् में गर्भस्थापन विधि लिखा है वैसा करना चाहिये अर्थात् पूर्वोक्त समय विवाह करके जैसा कि १६ ( सोलहवें ) और २५ ( पचासवें ) वर्ष विवाह करके ऋतुदान लिखा है वही उपनिषद् से भी विधान है ।

अथ गर्माधानं स्त्रियाः । पुष्पवत्याश्चतुरहादूर्ध्वं स्नात्वा निरुजायास्तस्मिन्नेव दिवा “आदित्यं गर्ममिति” ॥

यह पारस्कर गृह्यसूत्र का वचन है । ऐसा ही गोभिलीय और शौनक गृह्यसूत्रों में भी विधान है । इसके अनन्तर जब स्त्री रजस्वला होकर चौथे दिन के उपरान्त पांचवें दिन स्नान कर रजरोगरहित हो उसी दिन ( आदित्यं गर्ममिति ) इत्यादि मन्त्रों से जैसा जिस रात्रि में गर्भस्थापन करने की इच्छा हो उससे पूर्व दिन में सुगन्धादि पदार्थों सहित पूर्व सामान्य-प्रकरण के लिखित प्रमाणे हवन करके निम्नलिखित मन्त्रों से आहुति देनी । यहाँ पत्नी पति के वाम भाग में बैठे और पति वेदी के पश्चिमाभिमुख पूर्व दक्षिण वा उत्तर दिशा में यथाभीष्ट मुख करके बैठे और ऋत्विज भी चारों दिशाओं में यथासुख बैठें ।

ओं अग्ने प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तरसि ब्राह्म-

णस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्याः पापी लक्ष्मीस्तनू-  
 स्तामस्या अपजहि स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न मम ॥ १ ॥  
 ओं वायो प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्म-  
 णस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्याः पापी लक्ष्मीस्तनू-  
 स्तामस्या अपजहि स्वाहा ॥ इदं वायवे-इदन्न मम ॥ २ ॥  
 ओं चन्द्र प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा  
 नाथकाम उपधावामि यास्याः पापी लक्ष्मीस्तनूस्तामस्या  
 अपजहि स्वाहा ॥ इदं चन्द्राय-इदन्न मम ॥ ३ ॥ ओं  
 सूर्य प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथ-  
 काम उपधावामि यास्याः पापी लक्ष्मीस्तनूस्तामस्या अप-  
 जहि स्वाहा ॥ इदं सूर्याय-इदन्न मम ॥ ४ ॥ ओं अग्नि-  
 वायुचन्द्रसूर्याः प्रायश्चित्तयो यूयं देवानां प्रायश्चित्तयः स्थ  
 ब्राह्मणो वो नाथकाम उपधावामि यास्याः पापी लक्ष्मीस्त-  
 नूस्तामस्या अपहत स्वाहा ॥ इदमग्निवायुचन्द्रसूर्येभ्यः-इदन्न  
 मम ॥ ५ ॥ मन्त्र ब्राह्मण प्र० १ । खं० ४ । मं० ५ ॥  
 ओं अग्ने प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा  
 नाथकाम उपधावामि यास्याः पतिष्ठी तनूस्तामस्या अप-  
 जहि स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न मम ॥ ६ ॥ ओं वायो  
 प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम  
 उपधावामि यास्याः पतिष्ठी तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा ॥  
 इदं वायवे-इदन्न मम ॥ ७ ॥ ओं चन्द्र प्रायश्चित्ते त्वं  
 देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि



यास्याः पतिधनी तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा ॥ इदं चन्द्रा-  
य-इदन्न मम ॥ ८ ॥ ॐ सूर्य प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्राय-  
श्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्याः पतिघ्नी  
तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा ॥ इदं सूर्याय-इदन्न मम ॥ ९ ॥  
ॐ अग्निर्वायुचन्द्रसूर्याः प्रायश्चित्तयो यूयं देवानां प्राय-  
श्चित्तयः स्य ब्राह्मणो वो नाथकाम उपधावामि यास्याः  
पतिधनी तनूस्तामस्या अपहत स्वाहा ॥ इदमग्निवायुचन्द्र-  
सूर्येभ्यः-इदन्न मम ॥ १० ॥ पारस्कर कां० ११ ॥ ॐ  
अग्ने प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा  
नाथकाम उपधावामि यास्या अपुत्र्यास्तनूस्तामस्या अपजहि  
स्वाहा ॥ इदमग्नये इदन्न मम ॥ ११ ॥ ॐ वायो प्राय-  
श्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उप-  
धावामि यास्या अपुत्र्यास्तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा ॥  
इदं वायवे-इदन्न मम ॥ १२ ॥ ॐ चन्द्र प्रायश्चित्ते त्वं  
देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि  
यास्या अपुत्र्यास्तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा ॥ इदं चन्द्रा-  
य-इदन्न मम ॥ १३ ॥ ॐ सूर्य प्रायश्चित्ते त्वं देवानां  
प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्या  
अपुत्र्यास्तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा ॥ इदं सूर्याय-इदन्न  
मम ॥ १४ ॥ ॐ अग्निवायुचन्द्रसूर्याः प्रायश्चित्तयो यूयं  
देवानां प्रायश्चित्तयः स्य ब्राह्मणो वो नाथकाम उपधावा-  
मि यास्या अपुत्र्यास्तनूस्तामस्या अपहत स्वाहा ॥ इदमग्नि-

वायुचन्द्रसूर्यभ्यः—इदन्न मम ॥ १५ ॥ ओं अग्ने प्रायश्चित्ते  
 त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि  
 यास्या अपसव्यास्तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा ॥ इदमग्न-  
 ये—इदन्न मम ॥ १६ ॥ ओं वायो प्रायश्चित्ते त्वं देवानां  
 प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्या  
 अपसव्यास्तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा ॥ इदं वायवे—  
 इदन्न मम ॥ १७ ॥ ओं चन्द्र प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्राय-  
 श्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्या अप-  
 सव्यास्तनूस्तामस्या अपजहि स्वाहा ॥ इदं चन्द्राय—इदन्न  
 मम ॥ १८ ॥ ओं सूर्य प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि  
 ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्या अपसव्यास्तनूस्ता-  
 मस्या अपजहि स्वाहा ॥ इदं सूर्याय—इदन्न मम ॥ १९ ॥  
 ओं अग्निवायुचन्द्रसूर्याः प्रायश्चित्तयो यूयं देवानां प्राय-  
 श्चित्तयः स्थ ब्राह्मणो वो नाथकाम उपधावामि यास्या  
 अपसव्यास्तनूस्तामस्या अपहत स्वाहा ॥ इदमग्निवायुच-  
 न्द्रसूर्यभ्यः—इदन्न मम ॥ २० ॥

इन बीस मन्त्रों से बीस आहुति देनी \* और बीस आहुति  
 करने से यत्किंचित् घृत वच्चे वह कांसे के पात्र में ढांक के  
 रख दें। इसके पश्चात् भात की आहुति देने के लिये यह  
 विधि करना अर्थात् एक चांदी वा कांसे के पात्र में भात रख

\* इन बीस आहुति देते समय बधू अपने दक्षिण हाथ से वर के  
 दक्षिण स्कन्ध पर स्पर्श कर रखे ॥

के उसमें घी दूध और शकर मिला के कुछ थोड़ी बेर रख के ज्वर घृत आदि भात में एकरस होजाय पश्चात् नीचे लिखे एक २ मन्त्र से एक २ आहुति अग्नि में देवें और खुवा में का शेष आगे धरे हुए कांस के उदकपात्र में छोड़ता जावे ।

ओं अग्नये पवमानाय स्वाहा ॥ इदमग्नये पवमानाय—  
इदन्न मम ॥ १ ॥ ओं अग्नये पावकाय स्वाहा ॥ इदम-  
ग्नये पावकाय—इदन्न मम ॥ २ ॥ ओं अग्नये शुचये  
स्वाहा ॥ इदमग्नये शुचये—इदन्न मम ॥ ३ ॥ ओं आदि-  
त्यै स्वाहा ॥ इदमादित्यै—इदन्न मम ॥ ४ ॥ ओं प्रजापतये  
स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये—इदन्न मम ॥ ५ ॥ ओं यदस्य  
कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनभिहाकरम् । अग्निष्टत्स्विष्टकृ-  
द्विद्यात्सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे । अग्नये स्विष्टकृते सुहु-  
तहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः का-  
मान्तसमर्धय स्वाहा ॥ इदमग्नये स्विष्टकृते—इदन्न मम ॥ ६ ॥

इन छः मन्त्रों से उस भात की आहुति देवें । तत्पश्चात् पूर्व सामान्यप्रकरणोक्त २६—३० पृष्ठ लिखित आठ मंत्रों से अष्टाज्याहुति देनी । उन = ( आठ ) मन्त्रों से = ( आठ ) तथा निम्नलिखित मन्त्रों से भी आष्टाज्याहुति देवें ।

विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिशतु । आ सिं-  
ध्वतु प्रजापतिर्धाता गर्भं दधातु ते स्वाहा ॥ १ ॥ गर्भं  
धेहि सिन्धुवाञ्छि गर्भं धेहि सरस्वति । गर्भं ते अश्विनौ  
देवावाधत्तां पुष्करस्रजां स्वाहा ॥ २ ॥ हिरण्ययी अरणी  
यं निर्मन्त्रतो अध्विना । तं ते गर्भं इवामहे दशमे मासि

सूतवे स्वाहा ॥ ३ ॥ ऋ० मं० १० । सू० १८४ ॥

रेतो मूत्रं विजहाति योनिं प्रविशतिन्द्रियम् । गर्भो  
जरायुणावृत उरुवं जहाति जन्मना । ऋतेन सत्यमिन्द्रियं  
विपानं शुक्रमन्धस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोऽमृतं मधु स्वाहा  
॥ ४ ॥ यजु० अ० १६ । मं० ७६ ॥ यत्ते सुसीमे हृदयं  
दिवि चन्द्रमसि श्रितम् । वेदाहं तन्मां तद्विद्यात् ॥ पश्येम  
शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं  
भ्रंज्वाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः  
शतात् स्वाहा ॥ ५ ॥ पारस्कर कां० १ । कं० ११ ॥

यथेयं पृथिवी मही भूतानां गर्भमादधे ॥ एवा ते  
धियतां गर्भो अनुसूतुं सवितवे स्वाहा ॥ ६ ॥ यथेयं पृथिवी  
मही दाधारेमान् वनस्पतीन् । एवा ते धियतां गर्भो अनु-  
सूतुं सवितवे स्वाहा ॥ ७ ॥ यथेयं पृथिवी मही दाधार  
पर्वतान् गिरीन् । एवा ते धियतां गर्भो अनुसूतुं सवितवे  
स्वाहा ॥ ८ ॥ यथेयं पृथिवी मही दधार विष्टितं जगत् ।  
एवा ते धियतां गर्भो अनुसूतुं सवितवे स्वाहा ॥ ९ ॥  
अथर्व० कां० ६ । सू० १७ ॥

इन ९ मन्त्रों से नव आज्य और मोहनभोग की आहुति  
दे के नीचे लिखे मन्त्रों से भी चार घृताहुति देवे ॥

ओं भूरग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये इदन्न मम ॥ १ ॥  
ओं भुवर्वायवे स्वाहा ॥ इदं वायवे-इदन्न मम ॥ २ ॥  
ओं स्वरादित्याय स्वाहा ॥ इदमादित्याय-इदन्नमम ॥ ३ ॥

ओं अग्निवाय्वादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा ॥

इदमग्निवाय्वादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः—इदन्न मम ॥४॥

पश्चात् नीचे लिखे मन्त्रों से घृत को दो आहुति देनी ॥

ओम् अयास्यग्नेर्वषट्कृतं यत्कर्मणोऽत्यरीरिचं देवा  
गातुविदः स्वाहा ॥ इदं देवेभ्यो गातुविद्भ्यः—इदन्न मम

॥ १ ॥ ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये—इदन्न मम

॥ २ ॥ पारस्कर कां० १ । कं० २ ॥

इन कर्म और आहुतियों के पश्चात् पृष्ठ २८ में लिखे प्रमाणे  
“ओं यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं०” इस मन्त्र से एक खिष्टकृत  
आहुति घृत की देवे जो इन मन्त्रों से आहुति देते समय प्रत्येक  
आहुति के लुवा में शेष रहे घृत को आगे धरे हुए कांसे के  
बदकपात्र में इकट्ठा करते गये हों जब आहुती हो चुके तब  
इस आहुतियों के शेष घृत को बबू लेके स्नान के घर में  
जाकर उस वीं का पग के नख से लेके शिर पर्यन्त सब अंगों  
पर मर्दन करके स्नान करे तत्पश्चात् शुद्ध बख से शरीर पीछे  
शुद्ध बख धारण करके कुण्ड के समीप आवे तब दोनों बबू  
पर कुण्ड की प्रदक्षिणा करके सूर्य का दर्शन करे, उस समय—

ओं आदित्यं गर्भं पर्यसा शमद्भृश्वि गृहस्यस्य प्रतिमां  
विश्वरूपम् । परिवृद्ध्यधि हर्सा माभि मंथस्याः शुतायुषं  
कण्वि चीयमानः ॥ १ ॥ यजु० अ० १३ । मं० ४१ ॥

सूर्यो नो दिवस्पातु वातो अन्तरिक्षात् । अग्निर्नः पार्थिवेभ्यः

॥ २ ॥ ज्योषा सर्वितयेस्य ते हरः शतं सुवाँ अर्हति ।

प्राहि नो दिव्युतः पतन्त्याः ॥ ५ ॥ चक्षुर्नो देवः सञ्चित

चक्षुर्न उत पर्वतः । चक्षुर्थाता दधातु नः ॥ ४ ॥ चक्षुर्नो  
 वेहि चक्षुषे चक्षुर्विख्यै तनूभ्यः । तं चेदं वि चं पश्येम  
 ॥ ५ ॥ सुसुदृशं त्वा व्यं प्रतिपश्येम सूर्य । विपश्येम नृच-  
 क्षसः ॥ ६ ॥ ऋ० मं० १० । सू० १५८ । मं० १—५ ॥

इन मन्त्रों से परमेश्वर का उपस्थान करके वधू—

ओं ( अमृक( १ ) गोत्रा शुमदा, अमृक( २ ) दा  
 अहं सो भवन्तमभिवादयामि )

ऐसा वाक्य बोलके अपने पति को वन्दन अर्थात् नमस्कार  
 करे तत्पश्चात् स्वपति के पिता पितामहादि और जो वहां  
 अन्य माननीय पुरुष तथा पति की माता तथा अन्य कुटुम्बी  
 और सम्बन्धियों की वृद्ध स्त्रियां हों उनको भी इसी प्रकार  
 वन्दन करे इस प्रमाणे वधू वर के गोत्र की हुए अर्थात् वधू  
 पत्नीत्व और वर पतित्व को प्राप्त हुए पश्चात् दोनों पति पत्नी  
 शुभासन पर पूर्वाभिमुख वेदी के पश्चिम भाग में बैठ के वाम-  
 देव्यगान करें तत्पश्चात् यथोक्त ( ३ ) भोजन दोनों जने करें

( १ ) इस ठिकाने वर के गोत्र अथवा वर के कुल का नामो-  
 चारण करे ॥

( २ ) इस ठिकाने वधू अपना नाम उच्चारण करे ।

( ३ ) उत्तम सन्तान करने का मुख्य हेतु यथोक्त वधू वर के  
 आहार पर निर्भर है इसलिये पति पत्नी अपने शरीर आत्मा की पुष्टि के  
 लिये बन्न और बुद्धि आदि की वर्द्धक सबौषधि का सेवन करें । सबौषधि  
 ये हैं—दो सबड आँबाहल्दी, दूसरी खाने की हल्दी, “चन्दन” मुस  
 ( यह नाम दक्षिण में प्रसिद्ध है ), कुड, जटामांसी, मोरबेल ( यह भी  
 नाम दक्षिण में प्रसिद्ध है ), शिवाजीत, कपूर, मुस्ता, भद्रमोथ इन  
 सब औषधियों का चूर्ण करके सब सम भाग लेके उदुम्बर के ब्युष्टपात्र में

और पुरोहितादि सब मण्डली को सन्मानार्थ यथाशक्ति भोजन कराके आदर सत्कार पूर्वक सब को विदा करें ॥

गाय के दूध के साथ मिला उनका दही जमा और उदुम्बर ही के लकड़े की मंथनी से मंथन करके उसमें से मक्खन निकाल उसको ताप, घृत करके उसमें सुगन्धित द्रव्य केशर, कस्तूरी, जायफल, इलायची, जावित्री मिला के अर्थात् सेर भर दूध में छटांक भर पूर्वोक्त सबोंपधी मिला सिद्ध कर घी हुए पश्चात् एक सेर में एक रत्ती कस्तूरी और एक मासा केशर और एक २ मासा जायफलादि भी मिला के नित्य प्रातःकाल उस घी में से २० पृष्ठ में लिखे प्रमाणे आवासावाज्यभागाहुति ४ ( चार ) और पृष्ठ ४२-४३ में लिखे हुए ( विष्णुयानि० ) इत्यादि ७ ( सात ) मंत्रों के अन्त में स्वाहा शब्द का उच्चारण करके जिस रात्रि में गर्भस्थापन क्रिया करनी हो उसके दिन में होम करके उसी घी को दोनों जनों खीर अथवा भात के साथ मिला के यथासंभव भोजन करें इस प्रकार गर्भ-स्थापन करें तो सुराल, विद्वान्, दीर्घायु, तेजस्वी, सुख और नीरोग पुत्र उत्पन्न होवे, यदि कन्या की इच्छा हो तो जल में चावल पका पूर्वोक्त प्रकार घृत गूज़र के एक पात्र में जमाप हुए दही के साथ भोजन करने से उत्तम गुणयुक्त कन्या भी होवे क्योंकि—

“आहारशुद्धौ सत्वशुद्धिः सत्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः ॥

यह छान्दोग्य का वचन है अर्थात् शुद्ध आहार जो कि मद्यमांसादि-रहित घृत दुग्धादि प्वावल गेहूं आदि के करने से अन्तःकरण की शुद्धि बल पुत्रार्थ आरोग्य और शुद्धि की प्राप्ति होती है इसलिये पूर्ण युवावस्था में विवाह करें इस प्रकार विधि कर प्रेमपूर्वक गर्भाधान करें तो सन्तान और कुल नित्यप्रति उत्कृष्टता को प्राप्त होते जायें जब रजस्वला होने समय में १२-१३ दिन शय्य रहें तब शुक्लपत्र में १२ दिन तक पूर्वोक्त घृत मिला के इसी खीर का भोजन करके १२ दिन का व्रत भी करें और मित्रादारी होकर अनुसमय में पूर्वोक्त रीति से गर्भाधान किया

इस के पश्चात् रात्रि में नियत समय पर जब दोनों का शरीर आरोग्य, अत्यन्त प्रसन्न और दोनों में अत्यन्त प्रेम बढ़ा हो, उस समय गर्भाधान क्रिया करनी, गर्भाधान क्रिया का समय प्रहर रात्रि के गये पश्चात् प्रहर रात्रि रहे तक है जब वीर्य गर्भाशय में जाने का समय आवे तब दोनों स्थिर शरीर, प्रसन्नवदन, मुख के सामने मुख, नासिका के सामने नासिकादि, सब सूधा शरीर रक्खें। वीर्य का प्रक्षेप पुरुष करे जब वीर्य स्त्री के शरीर में प्राप्त हो उस समय अपना पायु मूलन्द्रिय और योनीन्द्रिय को ऊपर संकोच कर वीर्य को खेंचकर स्त्री गर्भाशय में स्थिर करे तत्पश्चात् थोड़ा ठहर के स्नान करे, यदि शीतकाल हो तो प्रथम केशर, कस्तूरी, जायफल, जावित्री, छोटी इलायची डाल गर्म कर रक्खे हुए शीतल दूध का यथेष्ट पान करके पश्चात् पृथक्कर शयन करे, यदि स्त्री-पुरुष को ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाय कि गर्भ स्थिर होगया तो उसके दूसरे दिन और जो गर्भ रहे का दृढ़ निश्चय न हो तो एक महीने के पश्चात् रजस्वला होने के समय स्त्री रजस्वला न हो तो निश्चित जानना कि गर्भ स्थिर हो गया है। अर्थात् दूसरे दिन वा दूसरे महीने के आरम्भ में निम्नलिखित मन्त्रों से आहुति देवे \* ॥

करें तो अन्युत्तम सन्तान हों, जैसे सब पदार्थों को उत्कृष्ट करने की विद्या है वैसे सन्तान को उत्कृष्ट करने की यही विद्या है इस पर मनुष्य लोग बहुत ध्यान देवे क्योंकि इसके न होने से कुल की हानि, नीचता और होने से कुल की वृद्धि और उत्तमता अवश्य होती है ॥

\* यदि दो ऋतुकाल व्यर्थ जाय अर्थात् दो बार दो महीनों में गर्भाधान क्रिया निष्फल होजाय, गर्भस्थिति न होवे, तो तिसरे महीने में ऋतुकाल समय जब आवे तब पुण्यनक्षत्रयुक्त ऋतुकाल दिवस में प्रथम प्रातः-



यथा वातः पुष्करिणीं समिद्ध्यति सर्वतः । एवा त्वे  
 गर्भे एजतु निरैतु दशमास्यः स्वाहा ॥ १ ॥ यथा वातो  
 यथा वनं यथा समुद्र एजति । एवा त्वं दशमास्य सहवैदि  
 जरायुणा स्वाहा ॥ २ ॥ दश मासाब्दशयानः कुमारो  
 अग्निं मातरिं । निरैतुं जीवो अर्क्षतो जीवो जीवन्त्या अग्नि  
 स्वाहा ॥ ३ ॥ अ० मं० ५ । सू० ७८ । मं० ७ । ८ । ६ ॥

एजतु दशमास्यो गर्भो जरायुणा सह । यथा यं वायु-  
 रेजति यथा समुद्र एजति । एवायं दशमास्यो अस्रज्जरा-  
 युणा सह स्वाहा ॥ १ ॥ यस्यै ते यज्ञियो गर्भो यस्यै  
 योनिर्हिरण्ययी । अद्गान्यन्हुता यस्य तं मात्रा समंजी-  
 गमथ स्वाहा ॥ २ ॥ यजु० अ० ८ । मं० २८ । २६ ॥

अब उक्तस्थित होवे तब प्रथम प्रसूता गन्ध का दही दो मासा और यह  
 के दाबों को सेक के पीस के दो मासा जेके इन दोनों को एकत्र करके  
 पत्नी के हाथ में देके उससे पति पूछे "किं पिबसि" इस प्रकार तीन बार  
 पूछे और स्त्री भी अपने पति को "पुसवनम्" इस वाक्य को तीनबार  
 बोल के उत्तर देवे और उसका प्राशन करे, इसी रीति से पुनः २ तीनबार  
 विधि करना तत्पश्चात् सञ्जाहूकी व भटकटाई भोपणि को जल में महीन  
 पीस के उस का रस कपड़े में ड्रान के पति पत्नी के दाहिने नाक के  
 छिद्र में सिंचन करे और पति—

ओ३म् यमोपधी प्रायमाणा सहमाना सरस्वती ।

अस्या अहं बृहत्याः पुत्रः पितुरिव नाम जप्रभम् ॥

इस मन्त्र से जगन्निवन्ता परमात्मा की प्रार्थना करके बगोड़ जपु-  
 क्त विधि करे, यह सुनकर का मन्त्र है ॥

पुमाथ्सौ मित्रावरुणौ पुमाथसावशिवनावुमौ ।  
 पुमानग्निश्च वायुश्च पुमान् गर्भस्तवोदरे स्वाहा ॥ १ ॥ पुमा-  
 नग्निः पुमानिन्द्रः पुमान्देवो बृहस्पतिः । पुमाथ्सं पुत्रं  
 विन्दस्व तं पुमाननु जायतां स्वाहा ॥ २ ॥ मन्त्र-  
 ब्राह्मण ब्रा० १ । ४ । ८—६ ॥

इन मन्त्रों से आहुति देकर व लिखित सामान्यप्रकरण  
 की शान्त्याहुति देके पुनः ३१ पृष्ठ में लिखे प्रमाणे पूर्वाहुति  
 देवे पुनः स्त्री के भोजन छादन का सुनियम करे। कोई मादक  
 अथ आदि, रेचक हरीतकी आदि, चार अतिलवणादि,  
 अस्यम्ल अर्थात् अधिक खटाई रूख चणे आदि, तीक्ष्ण अधिक  
 कालमिर्ची आदि स्त्री कभी न खावे किन्तु घृत, दुग्ध, मिष्ट,  
 क्षौमलता अर्थात् गुडूच्यादि ओषधि, चावल, मिष्ट, दधि, गेहूँ,  
 इर्द, मूंग, तूअर आदि अन्न और पुष्टिकारक शाक खावें उसमें  
 ऋतु २ के मसाले गर्मी में ठण्डे सफेद इलायची आदि और  
 शरदी में केशर कस्तूरी आदि डालकर खाया करें। युक्ताहार-  
 विहार सदा किया करें। दधि में शुंठी और ब्राह्मी ओषधि का  
 सेवन स्त्री विशेष किया करे। जिससे सन्तान अति बुद्धिमान  
 रोगरहित शुभ गुण कर्म स्वभाववाला होवे ॥

इति गर्भाधानविधिः समाप्तः ॥

### अथ पुंसवनम्

पुंसवन संस्कार का समय गर्भस्थिति ज्ञान हुए समय के  
 दूसरे वा तीसरे महीने में है उसी समय पुंसवन संस्कार करना  
 चाहिये जिससे पुरुषत्व अर्थात् वीर्य का लाभ होवे या

शालक के जन्म हुए पश्चात् दो महीने न बीत जायें तबतक पुरुष ब्रह्मचारी रहकर स्वप्न में भी वीर्य को नष्ट न होने देवे भोजन, छादन, शयन, जागरणादि व्यवहार उसी प्रकार से करे जिससे वीर्य स्थिर रहे और दूसरा सन्तान भी उत्तम होवे ॥

### अत्र प्रमाणानि

पुमाथंसौ मित्रावरुणौ पुमाथंसावधिनावुमौ ॥

पुमानग्निश्च वायुश्च पुमान् गर्भस्तवोदरे ॥ १ ॥

पुमानग्निः पुमानिन्द्रः पुमान् देवो बृहस्पतिः ॥

पुमाथंसं पुत्रं विन्दस्य तं पुमाननु जायताम् ॥ २ ॥

मं० ब्रा० १ । ४ । ८-६ ॥

शमीमश्वत्थ आरुहस्तत्र पुंसवनं कृतम् ।

तद्वै पुत्रस्य वेदनं तत्स्त्रीष्वामरादासि ॥ १ ॥

पुंसि वै रेतो मत्रति तत्स्त्रियामनु पिच्यते ।

तद्वै पुत्रस्य वेदनं तत्प्रजापतिरब्रवीत् ॥ २ ॥

प्रजापतिरनुमतिः सिनीवाल्यन्वीकलृपत् ।

सैषुमन्यत्र दधत्पुमांसमु दधद्विद्व ॥ ३ ॥

अथर्व० कां० ६ । अनु० २ । सू० ११ ॥

इन मन्त्रों का यही अभिप्राय है कि पुरुष को वीर्यवान् होने चाहिये इसमें आश्वलायन गृह्यसूत्र का प्रमाण—

अथास्यै मण्डलागारच्छायायां दक्षिणस्यां नासिष्य-  
कामपीतामोषधीं नस्तः करोति ॥ १ ॥

प्रजावज्जीवपुत्राभ्यां द्वेके ॥ २ ॥

गर्भ के दूसरे वा तीसरे महीने में वटवृक्ष की जटा वा उसकी पत्ती ले के स्त्री को दक्षिण नासापुट से सुंघावे और कुछ अन्य पुष्ट अर्थात् गुड़च जो गिलोय वा ब्राह्मी ओषधि खिलावे पेसा ही पारस्करगृह्यसूत्र का प्रमाण है ॥

अथ पुंश्वननं पुराभ्यन्दत इति मासे द्वितीये तृतीये वा ॥ १ ॥ पारस्कर कां० १ । कं० १४ ॥

इसके अनन्तर, पुंसनन उसको कहते हैं जो पूर्व ऋतुदान देकर गर्भस्थिति से दूसरे वा तीसरे महीने में पुंसवनसंस्कार किया जाता है इसी प्रकार गोभिलीय और शौनक गृह्यसूत्रों में लिखा है ॥

अथ क्रियारम्भः

पृष्ठ ५ से १६ वें पृष्ठ के शान्तिप्रकरण पर्यन्त कहे प्रमाणे ( विश्वानि देव० ) इत्यादि चारों वेदों के मन्त्रों से यजमान और पुरोहितोंदि ईश्वरोपासना करे और जितने पुरुष वहां उपस्थित हों वे भी परमेश्वरोपासना में चित्त लगावे और पृष्ठ ६ में कहे प्रमाणे स्वस्तिवाचन तथा पृष्ठ १३ वें लिखे प्रमाणे शान्तिप्रकरण करके पृष्ठ १६ में लिखे प्रमाणे यज्ञदेश, यज्ञशाला तथा पृष्ठ १७ वें में यज्ञकुण्ड, १८ में यज्ञसमिधा, होम के द्रव्य और पाकस्थाली आदि करके और पृष्ठ २५-२७ में लिखे प्रमाणे ( अयन्त इध्म० ) इत्यादि ( ओं अदिते० ) इत्यादि ४ ( चार ) मन्त्रोक्त कर्म और आधारावाज्यभागाहुति ४ ( चार ) तथा व्याहृति आहुति ३ ( चार ) और पृष्ठ २७ में ( ओं प्रजापतये स्वाहा ) ॥ १ ॥ पृष्ठ २८ में ( ओं यदस्य कर्मणो० ) ॥ २ ॥ लिखे प्रमाणे २ ( दो ) आहुति देकर नीचे लिखे हुए दोनों मंत्रों से दो आहुति-घृत की देवे ॥

ओं आ ते गर्भो योनिमेतु पुमान्वाण इवेपुधिम् । आ-  
वीरो जायतां पुत्रस्ते दशमास्यः स्वाहा ॥ ६ ॥ अथर्व०  
का० ३ । सू० २३ ॥ ओं अग्निरेतु प्रथमो देवतानां सो-  
ऽस्यै प्रजां मुञ्चतु मृत्युपाशात् । तदयं राजा वरुणोऽनु-  
मन्यतां यथेयं स्त्री पौत्रमघं न रोदात् स्वाहा ॥ २ ॥ मन्त्र  
ब्रा० १ । १ । १० ॥

इन दोनों मन्त्रों को बोल के दो आहुति किये पश्चात् एक-  
न्त में पत्नी के हृदय पर हाथ धर के यह निम्नलिखित मन्त्र  
पति बोलें !!

ओं यत्ते सुसीमे हृदये हितवन्तः प्रजापतौ । मन्येहं  
मां तद्विद्वांसमाह पौत्रमघान्नियाम् ॥ मं० ब्रा० १ । ५ । १० ॥

तत्पश्चात् पृष्ठ ३१-३२ में लिखे प्रमाणे सामवेद आर्चिक और  
महावामदेव्यगान.गा के जो २ पुरुष वा स्त्री संस्कार समय पर  
आये हों उनको विदा करदे पुनः वटवृक्ष के कोमल कूपल  
और गिलोय को महीन वांट कपड़े में छान, गर्भिणी स्त्री के  
शक्तिण नासापुट में सुंघावे । तत्पश्चात्—

द्विरण्यगर्भः समवर्तताग्ने भूतस्य जातः पतिरेक आ-  
सीत् । स दाधार पृथिवीं घामुतेमां कस्मै देवाय हविषा  
विधेम ॥ १ ॥ य० अ० १३ । मं० ४ ॥

अद्भ्यः संभृतः पृथिव्यै रसाच्च विश्वकर्मणः समवर्त-  
ताग्ने । तस्य त्वष्टा विदधद्गुपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्वमा-  
मानमग्ने ॥ २ ॥ य० अ० ३१ । मं० १७ ॥

इन दोनों मन्त्रों को बोल के पति अपनी गर्भिणी पत्नी के  
गर्भाशय पर हाथ धर के यह मन्त्र बोलें—

सुपर्णोऽसि गरुत्मास्त्रिवृत्ते शिरो गायत्रं चक्षुर्षुहृद्रयन्तरे  
 पद्मौ । स्तोमं आत्मा बन्दाथस्यङ्गानि यजूथषि नाम ।  
 क्षामं ते तनूर्वामदेव्यं यज्ञायज्ञियं पुच्छं धिष्ण्याः शफाः ।  
 सुपर्णोऽसि गरुत्मान्दिवं गच्छ स्वः पत ॥ १ ॥ य० अ०  
 १२ । म० ४ ॥

इसके पश्चात् स्त्री सुनियम युक्ताहारविहार करे विशेष कर  
 गिलोय ब्राह्मी ओषधि और शुंठी को दूध के साथ थोड़ी र  
 चाया करे और अधिक शयन और अधिक भाषण, अधिक  
 क्षारा, खट्टा, तीखा, कड़वा, रेचक हरहें आदि न खावे सूक्ष्म  
 आहार करे । क्रोध, द्वेष, लोभादि दोषों में न फँसे, चित्त को  
 सदा प्रसन्न रखे इत्यादि शुभाचरण करे ॥

इति पुंसवनसंस्कारविधिः समाप्तः ॥



### अथ सीमन्तोन्नयनम्

अब तीसरा संस्कार सीमन्तोन्नयन कहते हैं जिससे गर्भि  
 ष्ट्री का मन सन्तुष्ट आरोग्य गर्भ स्थिर उत्कृष्ट होवे और  
 प्रतिदिन बढ़ता जावे । इसमें आगे प्रमाण लिखते हैं ।

चतुर्थे गर्भमासे सीमन्तोन्नयनम् ॥ १ ॥ आपूर्यमाण-  
 पक्षे यदा पुंसा नक्षत्रेण चन्द्रमा युक्तः स्यात् ॥ २ ॥ अ-  
 थास्यै युग्मेन शलालुग्रप्सेन ज्येष्ठ्या च शलल्या त्रिमिश्र  
 कृशापिञ्जलैरूर्ध्वं सीमन्तं व्यूहति भूर्भुवः स्वरोमिति त्रिः ।  
 चतुर्वा ॥ यह आश्वलायनगृह्यसूत्र ॥

पुंश्वनवत्प्रथमे गर्भे मासे षष्ठेऽष्टमे वा ॥

यह पारस्करगृह्यसूत्र का प्रमाण—इस प्रकार गोभिलीय और शौनकगृह्यसूत्र में भी लिखा है ॥

गर्भमास से चौथे महीने में शुक्लपक्ष में जिस दिन मूख आदि पुरुष नक्षत्रों से युक्त चन्द्रमा हो उसी दिन सीमन्तोन्नयन संस्कार करे और पुंसवन संस्कार के तुल्य छठे आठवें महीने में पूर्वोक्त पक्ष नक्षत्रयुक्त चन्द्रमा के दिन सीमन्तोन्नयन संस्कार करे इसमें प्रथम ५-३३ पृष्ठ तक का विधि करके (अदितेऽनु-मन्यस्व) इत्यादि पृष्ठ २७ में लिखे प्रमाणे वेदी से पूर्वादि दिशाओं में जल सेचन करके—

ओं देव सवितः प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय ।  
दिव्यो गन्धर्वः केतपूः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदत्त  
स्वाहा ॥ १ ॥ य० अ० ११ । मं० ७ ॥

इस मन्त्र से कुरण्ड के चारों ओर जल सेचन करके आधा-रावाज्यभागाहुति ४ (चार) और व्याहृति आहुति ४ (चार) मिल के ८ (आठ) आहुति पृष्ठ २७-२८ में लिखे प्रमाणे करके—

ओं प्रजापतये त्वा जुष्टं निर्वपामि ॥

अर्थात् चावल, तिल, मूंग इन तीनों को समभाग लेके—

ओं प्रजापतये त्वा जुष्टं प्रोक्षामि ॥

अर्थात् धाके इनकी मिचड़ी बना, उसमें पुष्कल ग्री डाल के निम्नलिखित मन्त्रों से ८ (आठ) आहुति देवें ॥

ओं धाता ददातु दाशुषे प्राचीं जीवातु मुर्धितम् ।  
इयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवति स्वाहा ॥ इदं धात्रे-  
इदन्न मम ॥ १ ॥ अथर्व० कां० ७ । सू० १७ ॥ ॥ ॐ  
धाता प्रजानामृत रायर्द्धिं धात्रेदं विश्वं भुवनं जजान ।

धाता कृष्टीरनिमिषाभिचष्टे धात्रऽइद्व्यं घृतवज्जुहोत स्वाहा ॥

इदं धात्रे—इदन्न मम ॥ २ ॥ ओं राकासहं सुहवां सुष्टुती

हुवे शृणोतु नः सुभगा बोधत त्मना । सीव्यत्वषः सूच्या-

च्छिद्यमानया ददातु वीरं शतदायुश्चथ्यं स्वाहा ॥ इदं

राकायै—इदन्न मम ॥ ३ ॥ यास्ते राके सुसृतयः सुपेश-

सो याभिर्ददासि दाशुषे वसूनि । तामिर्नो अद्य सुमना

उपागहि सहस्रपोषं सुभगे रराणा स्वाहा ॥ इदं राकायै—

इदन्न मम ॥ ४ ॥ ऋ० मं० २ । सू० ३२ । मं० ४ ।

५ ॥ नेजमेष परापत सुपुत्रः पुत्रापत । अस्यै मे पुत्रका-

मायै गर्भमार्धेहि यः पुमान्स्वाहा ॥ ५ ॥ यथेयं पृथिवी

मह्युत्ताना गर्भमादधे । एवं तं गर्भमार्धेहि दशमे मासि सूतवे

स्वाहा ॥ ६ ॥ विष्णोः श्रेष्ठेन रूपेणास्यां नार्यां गवीन्याम् ।

पुमांसं पुत्रानार्धेहि दशमे मासि सूतवे स्वाहा ॥ ७ ॥

इन सात मन्त्रों से खिचड़ी की सात आहुति देके पुनः ( प्रजापते नत्व० ) पृष्ठ २६ में लिखित इससे एक, सब मिला के ऽ ( आठ ) आहुति देवे और पृष्ठ २८ में लिखे प्रमारो ( ओं प्रजापतये० ) मन्त्र से एक भात की और पृष्ठ २८ में लिखे प्रमारो ( ओं यदस्य कर्मणो० ) मन्त्र से एक खिचड़ी की आहुति देवे । तत्पश्चात् “ओं त्वन्नाश्रग्ने०” पृष्ठ २६-३० में लिखे प्रमारो ऽ ( आठ ) घृत की आहुति और “ओं भूरग्नये” पृष्ठ २८ में लिखे प्रमारो ४ ( चार ) व्याहृति मन्त्रों से चार आज्याहुति देकर पति और पत्नी एकान्त में जा के उत्तमासन पर बैठ पति पत्नी के पश्चात् पृष्ठ की ओर बैठ—



ओं सुमित्रिया न् आप् ओषधयः सन्तु । दुर्मित्रिया-  
स्तस्मै सन्तु योऽस्मान्देष्टि यं च ध्यं विष्मः ॥ १ ॥ यजु०  
अ० ६ । मं० २२ ॥

सूदानं दिवो अरतिं पृथिन्या वैश्वानरस्मृत आज्ञातम-  
ग्निम् । क्विथं सम्राजमतिथिं जनानामासन्ना पात्रं जन-  
यन्त देवाः ॥ २ ॥ य० अ० ७ । मं० २४ ॥ ओं अय-  
पूर्जावतो वृक्ष ऊर्जीव फालिनी भव । पर्णं वनस्पते तुत्वा  
तुत्वा म्रयताथं रयिः ॥ ३ ॥ ओं येनादितेः सीमानं नयति  
प्रजापतिर्महते सौमगाय । तेनाहमस्यै सीमानं नयामि  
प्रजामस्यै जरदष्टिं कृणोमि ॥ ४ ॥ मन्त्रब्राह्मण । ब्रा० १ ।  
५ । १-२ ॥ ओं गकामहं सुहवां सुष्टुती हुवे शृणोतु  
नः सुभगा बोधतु । उपागहि सहस्रप्रोपथं सुभगे रराणा  
॥ ५ ॥ ओं किंपत्तमना सीव्यत्वपः सूच्या द्विधमानया  
ददातु वीरं शतदायुमुख्यम् ॥ ६ ॥

ओं यास्ते राके सुमतयः सपेशसो याभिर्ददासि दाशुषे  
वसूनि । तामिनीं अद्य सुमनाशयसि प्रजां पशून्त्सोभाग्यं  
महं दीर्घायुष्यं पत्युः ॥ ७ ॥ ऋ० मं० २ । सू० ३२ ॥

इन मन्त्रों को पढ़के पति अपने हाथ से स्वपत्नी के केशों  
में सुगन्ध तैल डाल कंधे से सुधार हाथ में उदुम्बर अथवा  
अर्जुन वृक्ष की शलाका वा कुशा की मृदु छीपी वा शाही पशु  
के कांटे से अपनी पत्नी के केशों को स्वच्छ कर पट्टी निकाल  
और पीछे की ओर जुड़ा सुन्दर बांधकर यज्ञशाला में आवें-उस

समय वीणा आदि बाजे बजवावें, तत्पश्चात् पृष्ठ ३१-३२ में लिखे प्रमाणे सामवेद का गान करें, पश्चात्—

ओं सोमएव नो राजेमा मानुषीः प्रजाः । अविमुक्क  
चक्र आसीरंस्तीरे तुभ्यं असौ \* ॥ पारस्कर कां० १ ।  
कं० १५ ॥

आरम्भ में इस मन्त्र का गान करके पश्चात् अन्य मन्त्रों का गान करें तत्पश्चात् पूर्व आहुतियों के देने से बची हुई खिचड़ी में पुष्कल घृत डाल के गर्भिणी स्त्री अपना प्रतिविम्ब उस घी में देखे उस समय पति स्त्री से पूछे “किं पश्यसि” स्त्री उत्तर देवे “प्रजां पश्यामि” तत्पश्चात् एकान्त में वृद्ध कुलीन सौभाग्यवती पुत्रवती गर्भिणी अपने कुल की और ब्राह्मणों की स्त्रियां बैठे प्रसन्नवदन और प्रसन्नता की बातें करें और वह गर्भिणी स्त्री उस खिचड़ी को खावे और वे वृद्ध समीप बैठी हुई उत्तम स्त्री लोग ऐसा आशीर्वाद देवें ।

ओं वीरस्रस्त्वं भव, जीवस्रस्त्वं भव, जीवपत्नी त्वं भव ॥

ऐसे शुभ मांगलिक वचन बोलें तत्पश्चात् संस्कार में आये हुए मनुष्यों का यथायोग्य सत्कार करके स्त्री स्त्रियों और पुरुष पुरुषों को विदा करें ॥

इति सीमन्तोन्नयनसंस्कारविधिः समाप्तः

### अथ जातकर्मसंस्कारविधिः

इसका समय और प्रमाण और कर्मविधि इस प्रकार करें ।

सोप्यन्तीमद्भिरभ्युक्षति ॥ पा० कां० १ । कं० १६ ॥

\* यहां किसी नदी का नामोच्चारण करें ॥

लिखे प्रमाणे वामदेव्य गान करके ५—६ पृष्ठ में लिखे प्रमाणे ईश्वरोपासना करे तत्पश्चात् धी और मधु दोनों बराबर मिला के जो प्रथम सोने की शलाका कर रखी हो उससे बालक की जीभ पर—

“ओ३म्”

यह अक्षर लिख के उसके दक्षिण कान में “वेदोसीति” तेरा गुप्त नाम वेद है ऐसा सुना के पूर्व मिलाये हुए धी और मधु को उस सोने की शलाका से बालक को नीचे लिखे मन्त्र से थोड़ा २ बटावे:—

ओं प्र ते दधामि मधुनो घृतस्य वेद सवित्रा प्रसूतं  
मघोनाम् । आयुष्मान् गुप्तो देवताभिः शतं जीव शरदो  
लोकं अस्मिन् ॥ १ ॥ मेधां ते मित्रावरुणौ मेधामग्निर्दधातु  
ते । मेधां ते अश्विनौ देवावाधत्तां पुष्करस्त्रजौ ॥ २ ॥ मं०  
आ० १ । ५ । ६ ॥ ओं भूस्त्वयि दधामि ॥ ३ ॥ ओं भुव-  
स्त्वयि दधामि ॥ ४ ॥ ओं स्वस्त्वयि दधामि ॥ ५ ॥ ओं  
भूर्भुवः स्वस्सर्वं त्वयि दधामि ॥ ६ ॥ पार० कां० १ ।  
कं० १६ ॥ ओं सद्मस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम् ।  
सुनि मेधामयासिषधं स्वाहा ॥७॥ ऋ० मं० १ । सू० १८ ॥

इन प्रत्येक मन्त्रों से सात बार घृत मधु प्राशन कराके तत्पश्चात् चावल और जव को शुद्ध कर पानी से पीस कर के जून एक पात्र में रख के हाथ के अंगूठा और अनामिका से थोड़ासा लेंके:—

ओ३म् इहमाख्यमिदमन्नमिदमायुरिदममृतम् ।

इस मन्त्र को बाल के बालक के मुख में एक विन्दु छोड़ देवे यह एक गोभिलीय गृह्यसूत्र का मत है सब का नहीं। पश्चात् बालक का पिता बालक के दक्षिण कान में मुख लगा के निम्नलिखित मन्त्र बोले:—

ओं मेघान्ते देवः सविता मेघां देवी सरस्वती । मेघान्ते  
अश्विनौ देवावाधत्तां पुष्करस्रजौ ॥ १ ॥ ओं अग्निरायु-  
ष्मान् स वनस्पतिमिरायुष्माँस्तेन त्वायुषायुष्मन्तं करोमि  
॥ २ ॥ ओं सोमऽत्रायुष्मान् स ओषधीमिरायुष्माँस्तेन० \*  
॥ ३ ॥ ओं ब्रह्मऽत्रायुष्मत् तद्ब्राह्मणैरायुष्मत्तेन० ॥ ४ ॥  
ओं देवा आयुष्मन्तस्तेऽमृतेनायुष्मन्तस्तेन० ॥ ५ ॥ ओं  
ऋषय आयुष्मन्तस्ते व्रतैरायुष्मन्तस्तेन० ॥ ६ ॥ ओं पितर  
आयुष्मन्तस्ते स्वधामिरायुष्मन्तस्तेन० ॥ ७ ॥ ओं यज्ञ  
आयुष्मान् स दक्षिणामिरायुष्माँस्तेन० ॥ ८ ॥ ओं समुद्र  
आयुष्मान् स स्रवन्तीमिरायुष्माँस्तेन त्वायुषाऽऽयुष्मन्तं  
करोमि ॥ ९ ॥ पा० कां० १ । कं० १६ ॥

इन नव मन्त्रों का जप करे इसी प्रकार बायें कान पर मुख  
धर ये ही नव मन्त्र पुनः जपे इसके पीछे बालक के कन्धों पर  
कोमल स्पर्श से हाथ धर अर्थात् बालक के स्कन्धों पर हाथ  
का बोझ न पड़े धर के निम्नलिखित मन्त्र बोले:—

ओं इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्तिं दक्षस्य सुम-  
न्त्वमस्मे । पोषं रयीणामरिष्टिं तनूनां स्वादानं वाचः सुदि-  
न्त्वमहाम् ॥ १ ॥ ऋ० मं० २ । सू० २१ ॥ अस्मे प्र-

\* यहाँ पूर्व मन्त्र का शेष (त्वा०) इत्यादि उत्तर मन्त्रों के पश्चात् बोले ।

यन्धि मववन्तृजीपिन्निन्द्रं रायो विश्वाचारस्य भूरैः । अस्मे  
शतं शरदो जीवसे धा अस्मे वीराञ्छरवत इन्द्र शिप्रिन्  
॥ २ ॥ ऋ० मं० ३ । सू० ३६ ॥ ओं अश्मा भव परशु-  
र्भव हिरण्यमस्तृतं मव वेदो वै पुत्रनामासि स जीव शरदः  
शतम् ॥ ३ ॥ मं० ब्रा० १ । ५ । १८ ॥

इन तीन मन्त्रों को बोले तत्पश्चात्—

त्र्यायुषं जमदग्नेः कस्यपस्य त्र्यायुषम् । यद्वेषु त्र्यायुषं  
तन्नो अस्तु त्र्यायुषम् ॥ १ ॥ यजु० अ० ३ । मं० ६२ ॥

इस मन्त्र का तीन बार जप करे तत्पश्चात् बालक के  
स्कन्धा पर हाथ उठाले और जिस जगह पर बालक का  
जन्म हुआ हो वहाँ जाके—

ओं वेद ते भूमि हृदयं दिवि चन्द्रमसि श्रितम् । वे-  
दाहं तन्मां तद्विद्यात्पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः श-  
तं शृणुयाम शरदः शतम् ॥ १ ॥ पार० कां० ७ ।  
कं० १६ ॥

इस मन्त्र का जप करे तथा—

यत्ते सुसीमे हृदयं हितमन्तः प्रजापतौ । वेदाहं मन्ये  
तद्ब्रह्म माहं पौत्रमयं निगाम् ॥ २ ॥ यत्पृथिव्या अनामृतं  
दिवि चन्द्रमसि श्रितम् । वेदामृतस्येह नाममाहं पौत्रमयं  
रिपम् ॥ ३ ॥ इन्द्राग्नी शर्म यच्छतं प्रजापती यथायन्न  
प्रभीयते पुत्रो जनित्र्या अधि ॥ ४ ॥ यददश्चन्द्रमसि कृष्णं  
पृथिव्या हृदयं श्रितम् । तदहं विद्वांस्तत्पश्यन् माहं पौत्र-

षष्ठं रुद्रम् ॥ ५ ॥ मं० ब्रा० १ । ५ । १०-१३ ॥

इन मन्त्रों को पढ़ता हुआ सुगन्धित जल से प्रसूता के शरीर का मार्जन करे ॥

क्रौञ्चि कृतमोस्येषोस्यमृतोसि । आहस्पत्यं मासं प्रवि-  
शासौ ॥ ६ ॥ स त्वाह्वे परिददात्वहस्त्वा रात्र्यै परिद-  
दातु रात्रिस्त्वाहोरात्राभ्यां परिददात्वहोरात्रे त्वार्द्धमासेभ्यः  
परिदत्तामर्द्धमासास्त्वा मासेभ्यः परिददतु मासास्त्वर्तुभ्यः  
परिददत्वृतवस्त्वा संवत्सराय परिददतु संवत्सरस्त्वायुषे  
जरायै परिददात्वसौ ॥ ७ ॥ मं० ब्रा० १ । ५ । १४-१५ ॥

इन मन्त्रों को पढ़ के बालक को आशीर्वाद देवे । पुनः—

अङ्गादङ्गात्संश्रवसि हृदयादधिजायसे । प्राणन्ते प्रा-  
णोन् सन्दधामि जीव मे यावदायुषम् ॥ ८ ॥ अङ्गादङ्गात्सं-  
श्रवसि हृदयादधिजायसे । वेदो वै पुत्रनामासि स  
जीव शरदः शतम् ॥ ९ ॥ अश्मा भव परशुर्भव  
हिरण्यमस्तृतं भव । आस्मासि पुत्र मामृथाः स जीव श-  
रदः शतम् ॥ १० ॥ पशूनां त्वा हिंकारेणाभिजिघ्रांस्यसौ  
॥ ११ ॥ मं० ब्रा० १ । ५ । १६-१९ ॥

इन मन्त्रों को पढ़ के पुत्र के शिर का आघ्राण करे अर्थात्  
सूँचे इसी प्रकार जब परदेश से आवे वा जावे तब २ भी इस  
क्रिया को करे जिससे पुत्र और पिता माता में अति प्रेम बड़े ॥

ओं इडासि सैत्रावरुणी वीरे वीरमजीजनथाः । सा त्वं  
वीरवती भव यास्मान्वीरवतोऽकरत् ॥ १ ॥

पारस्कर० कां० १ । क० १६ ॥

इस मन्त्र से ईश्वर की प्रार्थना करके प्रसूता स्त्री को प्रसूत करके पश्चात् स्त्री के दोनों स्तन किञ्चित् उष्ण सुगन्धित दूध से प्रक्षालन कर पौछु के:—

ओं इमं स्तनमूर्जस्वन्तं धयापां प्रपीनमग्ने शरीरस्य  
मध्ये । उत्सं जुपस्व मधुमन्तमर्वन्त्समुद्रियं सदनमाविशस  
॥ १ ॥ यजु० अ० १७ । ८७ ॥

इस मन्त्र को पड़ के दक्षिण स्तन प्रथम बालक के मुख में देवे इसके पश्चात्:—

ओं यस्ते स्तनः शशयो यो मयोभूर्येन विश्वा पुष्यसि  
वीर्याणि । यो रत्नधा वसुविद्यः सुदत्रः सरस्वति तमि  
शातवे कः ॥ १ ॥ ऋ० १ । सू० १६४ । मं० ४६ ॥

इस मन्त्र को पड़ के वाम स्तन बालक के मुख में देवे  
पश्चात्:—

ओं आपो देवेषु जागृथ यथा देवेषु जागृथ । एवम  
स्वाथंभूतिकायां सपुत्रिकायां जागृथ ॥ १ ॥ पारस्कर०  
कां० १ । कं० १६ ॥

इस मन्त्र से प्रसूता स्त्री के शिर की ओर एक कलश जल  
के पूर्ण भर के दश रात्रि तक वहीं धर रखे तथा प्रसूता स्त्री  
प्रसूत स्थान में दश दिन तक रहे वहां नित्य सायं और प्रातः-  
काल सन्धियेला में निम्नलिखित दो मन्त्रों से भात और सरसों  
मिश्रण के दश दिन तक बराबर आहुतियां देवे ॥

ओं शण्डामर्काउपवीरः शौण्डिकेयऽउलूखलः । मलि-  
शुवो द्रोणासम्भवो नरयतादितः खाहा । इदं शण्डा-

मर्काउपवीराय, शौण्डिकेयायोलूखलाय, मलिन्नुचो द्रो-  
 षासश्वनो नश्यतादितेभ्यश्च-इदन्न मम ॥ १ ॥ ओं आ-  
 लिखन्ननिमिषः किं वदन्त उपश्रुतिः । हर्यक्षः कुम्माशत्रुः  
 पात्रपाणिर्नृमणिर्हन्त्रीमुखः सर्पपारुणश्वनो नश्यतादितः  
 स्वाहा ॥ इदमालिखन्ननिमिषाय किंवद्भ्य उपश्रुतहर्यक्षा  
 कुम्मीशत्रवे पात्रपाणये नृमणये हन्त्रीमुखाय सर्पपारुणा-  
 इदन्न मम ॥ २ ॥ पारस्कर० कां० १ । कं० १६ ॥

इन मन्त्रों से १० दिन तक होम करके पश्चात् अच्छे से  
 विद्वान् धार्मिक वैदिक मत वाले बाहर खड़े रहकर और बालक  
 का पिता भीतर रहकर आशीर्वादरूपी नीचे लिखे मन्त्रों का  
 पाठ आनन्दित हो के करें ॥

मा नो हासिषुर्ऋषयो दैव्या ये तनूपा ये नस्तन्वस्व-  
 नूजाः । अमर्त्या मर्त्या अभि नः सचध्वमायुर्धत्त प्रतरं  
 जीवसे नः ॥ अथर्व० कां० ६ । अनु० ४ । सू० ४१ ॥ इदं  
 जीवेभ्यः परिधिं दधामि मैषां नु गादपरो अर्थमेतम् ।  
 शतं जीवन्तः शरदः पुरुचीस्तिरो मृत्युं दधतां पर्वतेन ॥ २ ॥  
 अथर्व० कां० १२ । अ० २ । मं० २३ ॥ विवस्वानो  
 अभयं कृणोतु यः सुत्रामा जीरदानुः सुदानुः । इहेमे वीरा  
 बहवो भवन्तु गोमदश्ववन्मय्यस्तु पुष्टम् ॥ ३ ॥ अथर्व०  
 कां० १८ । अनु० ३ । मं० ६१ ॥

इति जातकर्मसंस्कारविधिः समाप्तः ।





अथ नामकरणसंस्कारविधिं वक्ष्यामः

अत्र प्रमाणम् । नाम चास्मै दद्युः ॥ १ ॥ घोषवदा-  
दन्तरन्तःस्थमभिनिष्ठानान्तं द्व्यक्षरम् ॥ २ ॥ चतुरक्षरं  
वा ॥ ३ ॥ द्व्यक्षरं प्रतिष्ठाकामश्चतुरक्षरं ब्रह्मवर्चसकामः  
॥ ४ ॥ युग्मानि त्वेव पुंसाम् ॥ ५ ॥ अयुजानि स्त्रीणाम्  
॥ ६ ॥ अभियादनीयं च सपीक्षितं तन्मातापितरौ विद-  
ध्या तामोपनयनात् ॥ ७ ॥ इत्याश्वलायनगृह्यसूत्रेषु ।

दशम्याहुत्याप्य पिता नाम करोति द्व्यक्षरं चतुरक्षरं  
वा घोषवदादन्तरन्तःस्थं दीर्घाभिनिष्ठानान्तं कृतं कुर्यान्न  
सद्विदितमयुजाक्षरमाकारान्तं स्त्रियै शर्म ब्राह्मणस्य वर्म क्षत्रि-  
यस्य गुप्तानि वैश्यस्य ॥

इसी प्रकार गोभिलीय और शौनक गृह्यसूत्र में भी लिखा है:-

नामकरण अर्थात् जन्म हुए बालक का तुन्दर नाम धरे ।  
नामकरण का काल जिस दिन जन्म हो उस दिन से लेके १०  
दिन छोड़ ११ में वा १०१ (एकसौ एक) में अथवा दूसरे वर्षके  
आरम्भ में जिस दिन जन्म हुआ हो नाम धरे जिस दिन नाम  
धरना हो उस दिन अति प्रसन्नता से इष्ट मित्र हितैषी लोगों  
को बुला यथावत् नतकार कर किया का आरम्भ यजमान वा-  
क का पिता और ऋत्विज करें । पुनः पृष्ठ १-३२ में लिखे प्र-  
माण सब मनुष्य ईश्वरवाचना, स्थितवाचन, शान्तिप्रकरण  
और सामान्यप्रकरणस्य संपूर्ण विधि करके आवावावाज्यभागा-  
इति ४ ( चार ) और व्याहृति आहुति ४ ( चार ) और पृष्ठ  
२: ३० में लिखे प्रमाण ( त्वन्नां अग्नेः ) इत्यादि आठ मन्त्रों से  
८ ( आठ ) आहुति अर्थात् सब मिला के १६ घृताहुति करें ।

तत्पश्चात् बालक को शुद्ध स्नान करा शुद्ध वस्त्र पहिनाके उसकी माता कुरड के समीप बालक के पिता के पीछे से आ दक्षिण भाग में होकर बालक का मस्तक उत्तर दिशा में रख के बालक के पिता के हाथ में देवे और स्त्री पुनः उसी प्रकार पति के पीछे होकर उत्तर भाग में पूर्वाभिमुख बैठे । तत्पश्चात् पिता उस बालक को उत्तर में शिर और दक्षिणमें पग करके अपनी पत्नी को देवे । पश्चात् जो उसी संस्कार के लिये कर्त्तव्य हो उस प्रथम प्रधान होम को करे । पूर्वोक्त प्रकार वृत्त आर सब साकल्य सिद्ध कर रखे उसमें से प्रथम धी का चमसा भर के—

ओं प्रजापतये स्वाहा ॥

इस मन्त्र से १ आहुति देकर पीछे जिस तिथि जिस नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ हो उस तिथि और उस नक्षत्र का नाम लेके, उस तिथि और उस नक्षत्र के देवता के नाम से ४ ( चार ) आहुति देनी अर्थात् एक तिथि दूसरी तिथि के देवता, तीसरी नक्षत्र और चौथी नक्षत्र के देवता के नाम से अर्थात् तिथि नक्षत्र और उनके देवताओं के नाम के अन्त में चतुर्थी विभक्ति का रूप और स्वाहान्त बाल के ४ ( चार ) धी की आहुति देवे, जैसे किसी का जन्म प्रतिपदा और अश्विनी नक्षत्र में हुआ हो तो:—

ओं प्रतिपदे स्वाहा । ओं ब्रह्मणे स्वाहा । ओं अश्वि-  
न्यै स्वाहा । ओं अश्विभ्यां स्वाहा \* ॥ गोभि० प० २ ।  
खं० ८ । सू० ६ । १२ ॥

\* तिथिदेवता:—१-ब्रह्मन् । २-त्वष्टृ । ३-विष्णु । ४-यम ।  
५-सोम । ६-कुमार । ७-मुनि । ८-वसु । ९-शिव । १०-धर्म ।

तत्पश्चात् पृष्ठ २८ में लिखी हुई सिष्टकृत मन्त्र से एक आहुति और पृष्ठ २८ में लिखे प्रमाणे ४ (चार) व्याहृति आहुति दोनों मिल के ५ आहुति देके तत्पश्चात् माता बालक को लेके शुभ आसन पर बैठे और पिता बालक के नासिका द्वार से बाहर निकलते हुए वायु का स्पर्श करके-

कोऽसि कतमोऽसि कस्यासि को नामासि । यस्य ते नामामन्माहि यं त्वा सोमेनातीतृषाम । भूर्भुवः स्वः सुप्रजाः प्रजाभिः स्यात्सुवीरो वीरैः सुपोषः पोषैः ॥ यजु० अ० ७ । मं० २६ ॥

आं कोऽसि कतमोऽस्येषोऽस्यमृतोऽसि । आहस्पत्यं मासं प्रविशासौ ॥ मं० ब्रा० १ । ५ । १४ ॥

जो यह "असौ" पद है इसके पीछे बालक का ठहराया हुआ नाम अर्थात् जो पुत्र हो तो नीचे लिखे प्रमाणे दो अक्षर का वा चार अक्षर का वापसंज्ञक और अन्तःस्थ वर्ण अर्थात् पाँचों वर्णों के दो २ अक्षर छोड़ के तीसरा, चौथा, पाँचवाँ और

११-रुद्र । १२-वायु । १३-काम । १४-अनन्त । १५-विश्वेदेव । १० पितर ।

नक्षत्रदेवताः—अश्विनी—अश्वी । भरणी—यम । कृत्तिका—अग्नि । रोहिणी—प्रजापति । मृगशीर्ष—सोम । आर्द्रा—रुद्र । पुनर्वसु—अदिति । पुष्य—वृहस्पति । अश्लेषा—सर्प । मघा पितृ । पूर्वाफाल्गुनी—भग । उत्तराफाल्गुनी—अयंमन् । हस्त—सवित्र । चित्रा—त्वष्टृ । स्वाति—वायु । विशाखा—चन्द्राग्नी । अनुराधा—मित्र । ज्येष्ठा—इन्द्र । मूल—निर्ऋति । पूर्वाषाढा—अप् । उत्तराषाढा—विश्वेदेव । अवघ्न—विष्णु । धनिष्ठा—वसु । शतभिषज्—वह्ण । पूर्वाभाद्रपदा—अजपाद । उत्तराभाद्रपदा—अहिर्बुध्न्य । रेवती—पुत्र ॥

ख, र, ल, व, ये चार वर्ण नाम में अवश्य आवें \* । जैसे देव अथवा जयदेव ब्राह्मण हो तो देवशर्मा, क्षत्रिय हो तो देववर्मा, वैश्य हो तो देवगुप्त और शूद्र हो तो देवदास इत्यादि और जो स्त्री हो तो एक तीन वा पांच अक्षर का नाम रखे श्री, ह्री, यशोदा, सुखदा, सौभाग्यप्रदा इत्यादि नामों को प्रसिद्ध बाल के पुनः "असौ" पद के स्थान में बालक का नाम धर के पुनः "ओं कोसि०" ऊपर लिखित मन्त्र बोलना ।

ओं स त्वाह्वे परिददात्वहस्त्वा रात्र्यै परिददातु  
रात्रिस्त्वाहोरात्राभ्यां परिददात्वहोरात्रौ त्वार्द्रमासेभ्यः परि-  
ददात्तमर्द्रमासास्त्वा मासेभ्यः परिददतु मासास्त्वर्तुभ्यः परि-  
ददत्वृतवस्त्वा संवत्सराय परिददतु संवत्सरस्त्वायुषे जरायु  
परिददातु, असौ ॥ मं० ब्रा० १। ५। १५ ॥

\* ग, घ, ङ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ण, द, ध, न, व, भ, म, ये स्वरों और य, र, ल, व, ये चार अन्तःस्थ और हरएक ऊष्मा, इतने अक्षर नाम में होने चाहिये और स्वरों में से कोई भी स्वर हो जैसे ( भद्रः, भद्रसेना, देवदत्तः, भवः, भवनाथः, नागदेवः, रुद्रदत्तः, हरिदेवः ) इत्यादि पुरुषों का समाक्षर नाम रखना चाहिये तथा स्त्रियों का विषमाक्षर नाम रखने अन्त्य में दीर्घस्वर और तद्धितान्त भी होवे; जैसे ( श्रीः, ह्रीः, यशोदा, सुखदा, गान्धारी, सौभाग्यवती, कल्याणक्रीडा ) इत्यादि परन्तु स्त्रियों के इस प्रकार के नाम कभी न रखें उसमें प्रमाण ( नर्चनृचनदीनाम्नीं शान्त्यपर्वतनामिकाम् । न पद्महिप्रेष्यनाम्नीं न च भीषखनामिकाम् ) ॥१॥ अनुस्मृतां । ( ऋच ) रोहिणी, रेवती इत्यादि, ( वृच ) चम्पा, तुलसी इत्यादि, ( नदी ) गंगा, यमुना, सरस्वती इत्यादि, ( अन्त्य ) चांडाकी इत्यादि, ( पर्वत ) विन्ध्याचला, हिमालया इत्यादि, ( पक्षी ) कोकिला, हंसा इत्यादि, ( अहि ) सर्पिणी, नागी इत्यादि, ( प्रेष्य ) दासी, किंकरी इत्यादि, ( भयंकर ) भीमा, भयंकरी, चण्डिका इत्यादि नाम निषिद्ध हैं ॥

इन मन्त्रों से बालक को जैसा जातकर्म में लिख आये हैं वैसे आशीर्वाद देवे, इस प्रमाणे बालक का नाम रखके संस्कार में आये हुए मनुष्यों को वह नाम सुना के पृष्ठ ३१-३२ में लिखे प्रमाणे महावामदेव्यगान करे तत्पश्चात् कार्यार्थ आये हुए मनुष्यों को आदर सत्कार करके विदा करे और सब लोग जाते समय पृष्ठ ५-६ में लिखे प्रमाणे परमेश्वर की स्तुति प्रार्थनोपासना करके बालक को आशीर्वाद देवे कि—

“हे बालक ! त्वमायुष्मान् वर्चस्वी तेजस्वी श्रीमान् भूयाः”

हे बालक ! तू आयुष्मान् विद्यावान् धर्मात्मा यशस्वी पुरुषार्थी प्रतापी परोपकारी श्रीमान् हो ॥

इति नामकरणसंस्कारविधिः समाप्तः ॥

—७१—

अथ निष्क्रमणसंस्कारविधिं वक्ष्यामः

निष्क्रमण संस्कार उसको कहते हैं कि जो बालक को घर के जहाँ का वायुस्थान शुद्ध हो प्रदोष भ्रमण कराना होता है उसका समय जब अच्छा देवे तभी बालक को बाहर सुभावे अथवा चौथे माल में तो अवश्य भ्रमण करावे इसमें प्रमाणः—

चतुर्थे मासि निष्क्रमणिका सूर्यमुदीक्ष्यति तच्चक्षुरिति ॥

यह आश्वलायनस्मृत्यादि का वचन है ॥

जननाद्यस्तृतीयो ज्योत्स्नस्तस्य तृतीयायाम् ॥

यह पाँचस्कृत्यगृह्यसूत्र में भी है ॥

अर्थः—निष्क्रमण संस्कार के काल के दो महीने एक बालक के जन्म के पश्चात् तीसरे शुक्लपक्ष की तृतीया और कृष्ण

चौथे महीने में जिस तिथि में बालक का जन्म हुआ हो उस तिथि में यह संस्कार करे।

उस संस्कार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात् बालक को शुद्ध जल से स्नान करा शुद्ध सुन्दर वस्त्र पहिनावे पश्चात् बालक को यक्षशाला में बालक की माता ले आके पति के दक्षिण पार्श्व में होकर पति के सामने आकर बालक का मस्तक उत्तर और छाती ऊपर अर्थात् चित्ता रख के पति के हाथ में देवे पुनः पति के पीछे की ओर घूम के बायें पार्श्व में पश्चिमाभिमुख खड़ी रहै।

ॐ यत्ते सुसीमे हृदयश्चित्तमन्तः प्रजापतौ । वेदाहं मन्ये तद्ब्रह्म माहं पौत्रमघं निगाम् ॥ १ ॥ ॐ यत्पृथिव्या अनामृतं दिवि चन्द्रमसि श्रितम् । वेदामृतस्याह नाममाहं पौत्रमघं रिषम् ॥ २ ॥ ॐ इन्द्राग्नी शर्म यच्छतं प्रजापती । यथा यन्न प्रसीयेत पुत्रो जनिव्या अधि ॥ ३ ॥ मंत्रा० १ । ५ । १०-१२ ॥

इन तीन मन्त्रों से परमेश्वर की आराधना करके पृष्ठ ५-३२ में लिखे प्रमाणे परमेश्वरोपासना, स्वस्तिवाचन, शान्तिप्रकरण आदि सामान्यप्रकरणोक्त समस्त विधि कर और पुत्र को देख के इन निम्नलिखित तीन मन्त्रों से पुत्र के शिर को स्पर्श करे:-

ॐ अङ्गादङ्गात्सम्मवसि हृदयादधिजायसे । आत्मा वै पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम् ॥ १ ॥ ॐ प्रजापतेष्वा हिंकारेणावजिघ्रामि सहस्रायुषाऽसौ जीव शरदः शतम् ॥ २ ॥ गवां त्वा हिंकारेणावजिघ्रामि । सहस्रायुषाऽ-

सा जीव शरदः शतम् ॥ ३ ॥ पार० कां० १ । कं० १८ ॥

तथा निम्नलिखित मन्त्र बालक के दक्षिण कान में जपे:-

अस्मे प्रयन्धि मधवन्नृजीपिन्निन्द्र रायो विश्ववारस्य  
भूरेः । अस्मे शतं शरदो जीवसे धा अस्मे वीराञ्छ्वत्  
इन्द्र शिप्रिन् ॥ १ ॥ ऋ० मं० ३ । सू० ३६ । मं० १० ॥

इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्स-  
मस्मे । पोषं रयीणामरिंष्टिं तनूनां स्वाद्भानं वाचः सुदिन-  
स्वमहाम् ॥ २ ॥ ऋ० मं० २ । सू० २१ । मं० ६ ॥

इस मन्त्र को वाम कान में जप के पत्नी की गोद में उत्तर दिशा में शिर और दक्षिण दिशा में पग करके बालक को देवे और मौन करके स्त्री के शिर का स्पर्श करे तत्पश्चात् आनन्दपूर्वक उठ के बालक को सूर्य का दर्शन करावे और निम्नलिखित मन्त्र वहाँ बोले:-

ओं तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुचरत् । पश्येम शरदः  
शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम  
शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः  
शतात् ॥ १ ॥ य० ३६ । मं० २४ ॥

इस मन्त्र को बोल के थोड़ासा शुद्ध वायु में धमण कराके बालशाला में ला सत्र लोग:-

त्वं जीव शरदः शतं वर्धमानः ।

इस वचन को बोल के आशीर्वाद देवे तत्पश्चात् बालक के माता और पिता संस्कार में आये हुए स्त्रियों और पुरुषों का यथायोग्य सत्कार करके विदा करें तत्पश्चात् जब रात्रि

में चन्द्रमा प्रकाशमान हो तब बालक की माता लड़के को शुद्ध वस्त्र पहिना दाहिनी ओर से आगे आके पिता के हाथ में बालक को उत्तर की ओर शिर और दक्षिण की ओर पग करके देवे और बालक की माता दाहिनी ओर से लौट कर बाई ओर आ अञ्जलि भर के चन्द्रमा के सन्मुख खड़ी रह के—

ओं यददश्चन्द्रमासि कृष्णां पृथिव्या हृदयं श्रितम् ।  
तदहं विद्वांस्तत्पश्यन्माहं पौत्रमघं रुदम् ॥ १ ॥ मं०  
ब्रा० १ । ५ । १३ ॥

इस मन्त्र से परमात्मा की स्तुति करके जल को पृथिवी पर छोड़ देवे तत्पश्चात् बालक की माता पुनः पति के पृष्ठ की ओर से पति के दाहिने पार्श्व से सन्मुख आके पति से पुत्र को लेके पुनः पति के पीछे होकर बाई ओर आ बालक का उत्तर की ओर शिर दक्षिण की ओर पग रख के खड़ी रहे और बालक का पिता जल की अञ्जलि भर (ओं यददश्च०) इसी मन्त्र से परमेश्वर की प्रार्थना करके जल को पृथिवी पर छोड़ के दोनों प्रसन्न होकर घर में आवें ॥

इति निष्क्रमणसंस्कारविधिः समाप्तः ॥

### अयान्नप्राशनविधिं वक्ष्यामः

अन्नप्राशन संस्कार तभी करे जब बालक की शक्ति अन्न पचाने योग्य होवे । इसमें आश्वलायनगृह्यसूत्र का प्रमाण—

षष्ठे मास्यन्नप्राशनम् ॥ १ ॥ घृतौदनं तेजस्कामः ॥ २ ॥  
इधिमधुघृतमिश्रितमन्नं प्राशयेत् ॥ ३ ॥

इसी प्रकार पारस्करगृह्यसूत्रादि में भी है ॥



इस मन्त्र को पढ़ के थोड़ा २ पूर्वोक्त भात बालक के मुख में देवे यथाशक्ति खिला बालक का मुख धो और अपने हाथ जो के पृष्ठ ३१-३२ में लि० महावामदेव्यगान करके जो बालक के माता पिता और अन्य वृद्ध स्त्री पुरुष आये हों वे परमात्मा की प्रार्थना करके—

त्वमन्नपतिरन्नादो वर्धमानो भूयाः ॥

इस वाक्य से बालक को आशीर्वाद देके पश्चात् संस्कार में आये हुए पुरुषों का सत्कार बालक का पिता और स्त्रियों का सत्कार बालक की माता करके सब को प्रसन्नतापूर्वक विदा करें ॥

इत्यन्नप्राशनसंस्कारविधिः समाप्तः ॥

अथ चूड़ाकर्मसंस्कारविधिं वक्ष्यामः

यह आठवां संस्कार चूड़ाकर्म है जिसको केशच्छेदन संस्कार भी कहते हैं इसमें आश्वलायन गृह्यसूत्र का मत ऐसा है—

तृतीये वर्षे चौराम् ॥ १ ॥ उत्तरतोऽग्नेर्नीहियवमाष-  
विज्ञानां शरावाणि निदधाति ॥ २ ॥

इसी प्रकार पारस्कर गृह्यसूत्रादि में भी है ॥

सांवत्सरिकस्य चूड़ाकरणम् ॥

इसी प्रकार गोमिलीय गृह्यसूत्र का भी मत है, यह चूड़ाकर्म अर्थात् मुण्डन बालक के जन्म से तीसरे वर्ष वा एक वर्ष में करना उत्तरायणकाल शुक्लपक्ष में जिस दिन आनन्द बहुरूप हो उस दिन यह संस्कार करे । विधिः—

आरम्भ में पृ० ५-३२ में लिखित विधि करके चार शराबे के एक में चावल, दूसरे में यव, तीसरे में उर्द और चौथे

शरावे में तिल भर के वेदी के उत्तर में धर देवे, धर के पृष्ठ २७ में लिखे प्रमाणे "ओं अदितेऽनुमन्यस्व०" इत्यादि तीन मन्त्रों से कुण्ड के तीन बाजू और पृष्ठ २७ में लिखे प्रमाणे "ओं देव सवितः प्रसुव०" इस मन्त्र से कुण्ड के चारों ओर जल छिटका के पूर्व पृष्ठ २५-२६ में लिखित अग्न्याधान समिदाधान कर अग्नि को प्रदीप्त करके जो समिधा प्रदीप्त हुई हो उस पर लक्ष्य देकर पृष्ठ २७-२८ में आधारावाज्यभागाहुति ४ (चार) और व्याहृति आहुति ४ (चार) और पृष्ठ २६-३० में लि० आठ आज्याहुति सब मिल के १६ (सोलह) आहुति देके पृष्ठ २६ में लिखे प्रमाणे "ओं भूर्भुवः स्वः । अग्नि आयेषि०" इत्यादि मन्त्रों से चार आज्याहुति प्रधान होम की देके पश्चात् पृष्ठ २८ में लिखे प्रमाणे व्याहृति आहुति ४ और स्विष्टकृदग्नि मन्त्र से एक आहुति मिल के पांच घृत की आहुति देवे, इतनी क्रिया करके कर्मकर्त्ता परमात्मा का ध्यान करके नाई की ओर प्रथम देख के—

ओं आयमगन्त्सविता नुरेणोष्णेन वाय उदकेनेहि ।  
आदित्या रुद्रा वसव उन्दन्तु सचेतसः सोमस्य राज्ञो वपत्  
प्रचेतसः ॥ १ ॥ अथर्व० कां० ६ । सू० ६८ ॥

इस मन्त्र का जप करके पिता बालक के पृष्ठभाग में बैठ के किञ्चित् उष्ण और किञ्चित् ठण्डा जल दोनों पात्रों में लेके "उष्णेन वाय उदकेनैत्रि । पार० कां० २ । कं० १ ।" इस मन्त्र को बोल के दोनों पात्रों का जल एक पात्र में मिला देवे पश्चात् थोड़ा जल, थोड़ा माखन अथवा दही की मलाई ले के—

ओं अदितिः शमश्रु वपत्वाप उन्दन्तु सचेतसः । चिकि-  
स्सतु प्रजापतिर्दीर्घायुत्वाय चक्षसे ॥ १ ॥ अथर्व० कां०  
६ । सू० ६८ ॥

ओं सवित्रा प्रसूता दैव्या आप उन्दन्तु । ते तनूं  
दीर्घायुन्वाय वर्चसे ॥ २ ॥ पारस्कर० कां० २।कं० १ ॥

इन मन्त्रों को बोल के बालक के शिर के बालों में तीन  
बार हाथ फेर के केशों को भिगोवे तत्पश्चात् कंधा लेके  
केशों को सुधार के इकट्ठा करे अर्थात् बिखरे न रहें तत्पश्चात्  
“ओं ओम्पथे त्रायस्व एनं॒ मैनं॒ हिं॒सीः ॥ य० अ० ४।मं० १”  
इस मन्त्र को बोल के तीन दर्भ लेके दाहिनी बाजू के केशों  
के समूह को हाथ से दवा के “ओं विष्णोर्दं॒ प्रोसि । मं० ब्रा०  
१।६।४ ॥” इस मन्त्र से छुरे की ओर देख के—

ओं शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्तेऽअस्तु  
सामा हिंसीः ॥ य० अ० ३। मं० ६३ ॥

इस मन्त्र को बोल के छुरे को दाहिने हाथ में लेवे तत्पश्चात्—  
ओं स्वधिते मैनं॒ हिं॒सीः ॥ य० अ० ४। मं० १ ॥

ओं निवर्त्तयास्यायुपेऽन्नाद्याय प्रजननाय रायस्पोपाय सु-  
प्रजास्वाय सुवीर्याय ॥ य० अ० ३। मं० ६३ ॥

इन दो मन्त्रों को बोल के उस छुरे और उन कुशाओं को  
केशों के समीप लेजाके—

ओं येनावपन्सविता क्षुरेण सोमंश्च राज्ञो वरुणस्य  
विद्वान् । तेन ब्रह्माणो वपत्तेदमस्य गोमानश्ववानयमस्तु  
प्रजावान् ॥ अथर्व० कां० ६। सू० ६८ ॥

इस मन्त्र को बोल के कुशासहित उन केशों को काटे \*

\* केशच्छेदन की रीति ऐसी है कि दर्भ और केश दोनों युक्ति से पकड़ कर अर्थात् दोनों ओर से पकड़ के बीच में से केशों को छुरे से काटे यदि छुरे के बल्ले केंची से काटे तो भी ठीक है ॥

और वे काटे हुए केश और दर्भ शमीवृक्ष के पत्र सहित अर्थात् यहां शमीवृक्ष के पत्र भी प्रथम से रखने चाहियें उन सब को लड़के का पिता और लड़के की मा एक शरावा में रखे और कोई केश छेदन करते समय उड़ा हो उसको गोवर से उठा के शरावा में अथवा उसके पास रखे तत्पश्चात् इसी प्रकार—

ओं येन धाता बृहस्पतेरग्नेरिन्द्रस्य आयुषेऽवपत् तेन  
त आयुषे वपामि सुश्लोक्याय स्वस्तये ॥

इस मन्त्र से दूसरी वार केश का समूह दूसरी ओर का काट के उसी प्रकार शरावा में रखे तत्पश्चात्—

ओ येन भूयश्च रात्र्यं ज्योक् च पश्याति सूर्यम् । तेन  
त आयुषे वपामि सुश्लोक्याय स्वस्तये ॥

इस मन्त्र से तीसरी वार उसी प्रकार केशसमूह को काट के उपरि उक्त तीन मन्त्रों अर्थात् “ओं येनावपत्०” “ओं येन धाता०” “ओं येन भूयश्च०” और—

ओं येन पूषा बृहस्पतेर्वायोरिन्द्रस्य चावपत् । तेन ते  
वपामि ब्रह्मणा जीवातवे जीवनाय दीर्घायुष्ट्वाय ॥

इस एक, इन चार मन्त्रों को बोल के चौथी वार इसी प्रकार केशों के समूहों को काटे अर्थात् प्रथम दक्षिण बाजू के केश काटने का विधि पूर्ण हुए पश्चात् बाईं ओर के केश काटने का विधि करे तत्पश्चात् उसके पीछे आगे के केश काटे परन्तु चौथी वार काटने में “येन पूषा०” इस मन्त्र के बदले—

ओं येन भूरिश्वरादिवं ज्योक् च पश्चाद्धि सूर्यम् ।  
तेन ते वपामि ब्रह्मणा जीवातवे जीवनाय सुश्लोक्याय

ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्ब-  
जत्राः । स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाꣳ सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं  
वदायुः ॥ ऋ० मं० १ । सू० ८६ ॥

इस मन्त्र को पढ़ के चरक, सुश्रुत वैद्यक ग्रन्थों के जानने-  
वाले सद्वैद्य के हाथ से कर्ण वा नासिका वेध करावें कि जो  
नाड़ी आदि को चचा के वेध कर सके पूर्वोक्त मन्त्र से दाक्षिण  
कान और—

वक्षन्तीवेदा गनीगन्ति कर्णं प्रियꣳ सखायं परिष-  
खजाना । योषेव शिङ्क्ते वितताधि धन्यञ्ज्या इयꣳ समने  
पारयन्ती ॥ ऋ० मं० ६ । सू० ७५ ॥

इस मन्त्र को पढ़ के दूसरे वामकर्ण का वेध करे तत्पश्चात्  
वही वैद्य उन छिद्रों में शलाका रखे कि जिससे छिद्र पूर न  
जावें और ऐसी श्रोत्रि उस पर लगावे जिससे कान पकें नहीं  
और शीघ्र अच्छे होजावें ॥

इति कर्णवेधसंस्कारविधिः समाप्तः ॥

—७५७—

अधोपनयन\*संस्कारविधिं चक्ष्यामः

अत्र प्रमाणानि—अष्टमे वर्षे ब्राह्मणमुपनयेत् ॥ १ ॥  
गर्भाष्टमे वा ॥ २ ॥ एकादशे क्षत्रियम् ॥ ३ ॥ द्वादशे  
वैश्यम् ॥ ४ ॥ आपोडशाद्ब्राह्मणस्थानतीतः कालः ॥ ५ ॥  
आद्वाविंशत्क्षत्रियस्य, आचतुर्विंशद्द्वैश्यस्य, अत ऊर्ध्वं  
वतितसावित्रीका भवन्ति ॥ ६ ॥

\* उप नाम समीप नयन अर्थात् प्राप्त करना व होना ।

यह आश्वलायन गृह्यसूत्र का प्रमाण है इसी प्रकार पारस्करादि गृह्यसूत्रों का भी प्रमाण है ॥

**अर्थ:—**जिस दिन जन्म हुआ हो अथवा जिस दिन गर्भ रहा हो उस से ८ (आठवें) वर्ष में ब्राह्मण के, जन्म वा गर्भ से ग्यारहवें वर्ष में क्षत्रिय के और जन्म वा गर्भ से बारहवें वर्ष में वैश्य के बालक का यज्ञोपवीत करें, तथा ब्राह्मण के १६ ( सोलह ) क्षत्रिय के २२ ( बाईस ) और वैश्य के बालक को २४ (चौबीस) से पूर्व २ यज्ञोपवीत चाहिये यदि पूर्वोक्त काल में इनका यज्ञोपवीत न हो तो वे पतित माने जावें ॥

**श्लोक:—**ब्रह्मवर्चसकामस्य कार्यं विप्रस्य पञ्चमे ।

राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे वैश्यस्येहार्थिनोऽष्टमे ॥१॥

यह मनुस्मृति का वचन है कि जिसको शीघ्र विद्या बल और व्यवहार करने की इच्छा हो और बालक भी पढ़ने में समर्थ हुए हों तो ब्राह्मण के लड़के का जन्म वा गर्भ से पांचवें क्षत्रिय के लड़के का जन्म वा गर्भ से छठे और वैश्य के लड़के का जन्म वा गर्भ से आठवें वर्ष में यज्ञोपवीत करें, परन्तु यह बात तब सम्भव है कि जब बालक की माता और पिता का विवाह पूर्ण ब्रह्मचर्य के पश्चात् हुआ होवे, उन्हीं के ऐसे उत्तम बालक श्रेष्ठबुद्धि और शीघ्र समर्थ बढ़नेवाले होते हैं जब बालक का शरीर और बुद्धि ऐसी हो कि अब यह पढ़ने के योग्य हुआ, तभी यज्ञोपवीत करा दें —

यज्ञोपवीत का समय—उत्तरायण सूर्य और—

वसन्ते ब्राह्मणमुपनयेत् । ग्रीष्मे राजन्यम् । शरदि वैश्यम् । सर्वकालमेके ॥ यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है ॥

अर्थः—ब्राह्मण का वसन्त, क्षत्रिय का ग्रीष्म और वैश्य का शरदृऋतु में यज्ञोपवीत करें अथवा सब ऋतुओं में उपनयन हो सकता है और इसका प्रातःकाल ही समय है ॥

पयोव्रतो ब्राह्मणो यवागूव्रतो राजन्य आमिहाव्रतो वैश्यः ॥ यह शतपथ ब्राह्मण का बचन है ॥

जिस दिन बालक का यज्ञोपवीत करना हो उससे तीन दिन अथवा एक दिन पूर्व तीन वा एक व्रत बालक को कराना चाहिये उन व्रतों में ब्राह्मण का लड़का एकवार वा अनेकवार दुग्धपान, क्षत्रिय का लड़का ( यवागू ) अर्थात् यव को मोटा मूल के गुड़ के साथ पतली जैसी कि कढ़ी होती है वैसी बना कर पिलावे और ( आमिहा ) अर्थात् जिसको श्रीखण्ड वा सिखण्ड कहते हैं वैसी जो दही चौगुना दूध एकगुना तथा पथायोग्य खांड केशर डाल के कपड़े में छानकर बनाया जाता है उसको वैश्य का लड़का पी के व्रत करे अर्थात् जब जब लड़कों को भूख लगे तब २ तीनों वर्षों के लड़के इन तीनों पदार्थों ही का सेवन करें अन्य पदार्थ कुछ न खावें पीयें ॥

विधिः—अब जिस दिन उपनयन करना हो उसके पूर्व दिन में सब सामग्री इकट्ठी कर याथातथ्य शोचन आदि कर लेवे और उस दिन पृष्ठ ५-३३ वें तक सब कुण्ड के समीप सामग्री घर प्रातःकाल बालक का चौर करा शुद्ध जल से स्नान करा के उत्तम वस्त्र पहिना यज्ञमण्डप में पिता वा आचार्य बालक को मिष्टानादि का भोजन कराके वेदी के पश्चिमभाग में सुन्दर आसन पर पूर्वाभिमुख बैठवे और बालक का पिता और पृष्ठ २३ में लि० ऋत्विज लोग भी पूर्वोक्त प्रकार अपने २ आसन पर बैठ यथावत् आचमनादि क्रिया करें ॥

पश्चात् कार्यकर्त्ता बालक के मुख से:—

ब्रह्मचर्यमागाम्, ब्रह्मचार्यसानि ॥ पार० कां० २ । कं० २ ॥

ये वचन बुलवा के \* आचार्य्यः—

ओं येनेन्द्राय बृहस्पतिर्वासः पर्यदधादमृतम् । तेन  
त्वा परिदधाम्यायुषे दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे ॥ १ ॥

पार० कां० १ । कं० २ ॥

इस मन्त्र को बोल के बालक को सुन्दर वस्त्र और उप-  
वस्त्र पहिनावे पश्चात् बालक आचार्य्य के सम्मुख बैठे और  
यज्ञोपवीत हाथ में लेके—

ओं यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् ।  
आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः

॥ १ ॥ यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनयामि

॥ २ ॥ पार० कां० २ ॥

इन मन्त्रों को बोल के आचार्य्य वायें स्कन्धे के ऊपर  
कण्ठ के पास से शिर बीच में निकाल दाहिने हाथ के नीचे  
बगल में निकाल कटि तक धारण करावे तत्पश्चात् बालक  
को अपने दाहिने ओर साथ बैठा के ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना-  
पासना, स्वस्तिवाचन और शान्तिप्रकरण का पाठ करके समि-  
दाधान, अग्न्याधान कर (ओं अदितेऽनुमन्यस्व०) इत्यादि

\* आचार्य्य उसको कहते हैं कि जो साङ्गोपाङ्ग वेदों के शब्द अर्थ  
सम्बन्धी और क्रिया का जाननेहारा छल कपट रहित, अतिप्रेम से सब  
को विद्या का दाता, परोपकारी, तन मन और धन से सब को मुक्त  
बदाने में जो तत्पर, महाशय, पक्षपात किसी का न करे और सत्योपदेश  
सबको हितैषी धर्मात्मा जितेन्द्रिय होवे ।



पूर्वोक्त चार मन्त्रों से पूर्वोक्त रीति से कुण्ड के चारों ओर जल छिड़का पश्चात् आज्याहुति करने का आरम्भ करना ॥

वेदी में प्रदीप्त हुई समिधा को लक्ष्य में धर चमसा में आज्यस्थाली से घी ले, आधारावाज्यभागाहुति ४ (चार) और स्वाहाहुति ४ (चार) तथा पृष्ठ २६-३० में आज्याहुति = चीनों मिल के १६ (सोलह) घृत की आहुति देके पश्चात् बालक के हाथ से प्रधान होम जो विशेष शाकल्य बनाया हो उस की आहुतियां निम्नलिखित मन्त्रों से दिलानी, (ओं भूर्भुवः स्वः । अग्ने आयूंषि०) पृष्ठ २६ में ४ (चार) आज्याहुति देवे । तत्पश्चात्—

ओं अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छ-  
केयम् । तेनर्ध्यासमिदमहमनृतात्सत्यमुपैमि स्वाहा ॥ इदं-  
मग्नये—इदन्न मम ॥ १ ॥ ओं वायो व्रतपते० \* स्वाहा ॥  
इदं वायवे—इदन्न मम ॥ २ ॥ ओं सूर्य व्रतपते० स्वाहा ॥  
इदं सूर्याय—इदन्न मम ॥ ३ ॥ ओं चन्द्र व्रतपते० स्वाहा ॥  
इदं चन्द्राय—इदन्न मम ॥ ४ ॥ ओं व्रतानां व्रतपते०  
स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय व्रतपतये—इदन्न मम ॥ ५ ॥ मं०  
ब्रा० १ । ६ । ६—१३ ॥

इन पांच मन्त्रों से पांच आज्याहुति दिलानी उसके पीछे पृष्ठ २८ में ज्याहुति आहुति ४ (चार) और स्वि-  
हकृत आहुति १ (एक) और प्राजापत्याहुति १ (एक) ये

\* इस के आगे 'व्रतं चरिष्यामि' इत्यादि सम्पूर्ण मन्त्र बोलना चाहिये ॥

सब मिल के छः घृत की आहुति देनी, सब मिल के १५ (पन्द्रह) आहुति बालक के हाथ से दिलानी उसके पश्चात् आचार्य्य यज्ञकुण्ड के उत्तर की ओर पूर्वाभिमुख बैठे और बालक आचार्य्य के सम्मुख पश्चिम में मुख करके बैठे तत्पश्चात् आचार्य्य बालक की ओर देख के:—

ओं आगन्त्रा समगन्महि प्रसुमर्त्य युयोतन । अरिष्टाः  
संशरेमहि स्वास्ति चरतादयम् ॥ १ ॥ मं० ब्रा० १।६।१४ ॥

इस मन्त्र का जप करे ॥

माणवकवाक्यम्—“ओं ब्रह्मचर्यमागासुपमानयस्व” ।  
मं० ब्रा० १।६।१६ ॥

आचार्य्योक्तिः “को \* नामासि” ॥

बालकोक्तिः “एतन्नामास्मि” † ॥ मं० ब्रा० १।६।  
१ ॥ तत्पश्चात्

ओं आपो हि ष्टा मयोभुवस्तान ऊर्जे दधातन । महे  
रक्षाय चक्षसे ॥ १ ॥ यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह  
नः । उशतीरिव मातरः ॥ २ ॥ तस्मा अरं गमाम वो यस्य  
क्षयाय जिन्वथ । आपो जनयथा च नः ॥ ३ ॥ ऋ०  
मं० १० । सू० ६ ॥

इन तीन मन्त्रों को पढ़ के बटुक की दक्षिण हस्ताञ्जलि शुद्धोदक से भरनी तत्पश्चात् आचार्य्य अपनी हस्ताञ्जलि भर के:—

\* तेस नाम क्या है ऐसा पूछना ॥

† मेरा यह नाम है ॥

ओं तत्सवितुर्वरेण्यो भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात् ॥ १ ॥ अ० मं० ५ । सू० ८२ ॥

इस मन्त्र को पढ़ के आचार्य अपनी अञ्जलि का जल बालक की अञ्जलि में छोड़ के बालक की हस्ताञ्जलि अङ्गु-  
लसहित पकड़ के:—

ओं देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्वाहुभ्यां पूष्णो  
हस्ताभ्यां हस्तं गृह्णाम्यसौ \* ॥ १ ॥ य० अ० ५ । मं० २६ ॥

इस मन्त्र को पढ़ के बालक की हस्ताञ्जलि का जल नीचे पात्र में छुड़ा देना इसी प्रकार दूसरी बार अर्थात् प्रथम आचार्य अपनी अञ्जलि भर बालक की अञ्जलि में अपनी अञ्जलि का जल भर के अङ्गुलसहित हाथ पकड़ के:—

ओं सविता ते हस्तमग्रमीत्, असौ ॥ १ ॥

इस मन्त्र से पात्र में छुड़ा दे पुनः इसी प्रकार तीसरी बार आचार्य अपने हाथ में जल भर पुनः बालक की अञ्जलि में भर अङ्गुलसहित हाथ पकड़:—

ओं अग्निराचार्यस्तव, असौ ॥ मं० ब्रा० १ । ६ । १५ ॥

तीसरी बार बालक की अञ्जलि का जल छुड़ा के बाहर निकल सूर्य के सामने खड़े रह देख के आचार्य:—

ओं देव सवितरेष ते ब्रह्मचारी ते गोपाय समामृत ॥ १ ॥

इस एक आंग पृष्ठ ७२ में लि० ( तच्चक्षुर्देवहितम् ) इस दूसरे मन्त्र को पढ़ के बालक को सूर्यावलोकन करा, बालक-

\* असौ इस पद के स्थान में बालक का सम्बोधनान्त नामोच्चारण अवश्य करना चाहिये ॥

सहित आचार्य सभामण्डप में आ यज्ञकुण्ड की उत्तर बाजू की ओर बैठ के:—

ओं युवा सुवासाः परिवीत आगात्स उ श्रेयान् मवति  
जायमानः । ओं सूर्यस्यात्रतमन्वावर्त्तस्व, \* असौ ॥ १ ॥  
ऋ० मं० ३ । सू० ८ ॥

इस मन्त्र को पढ़े और बालक आचार्य की प्रदक्षिणा करके आचार्य के सम्मुख बैठे पश्चात् आचार्य बालक के दक्षिण स्कन्धे पर अपने दक्षिण हाथ से स्पर्श और पश्चात् अपने हाथ को वस्त्र से आच्छादित करके—

ओं प्राणानां ग्रन्थिरसि मा विस्रसोऽन्तक इदं ते परि-  
ददामि, अमुम् ॥ १ ॥ मं० ब्रा० १ । ६ । २० ॥

इस मन्त्र को बोलने के पश्चात्—

ओं अहुर इदं ते परिददामि, अमुम् ॥ २ ॥

इस मन्त्र से उदर पर और:—

ओं कृशन इदं ते परिददामि, अमुम् ॥ ३ ॥

इस मन्त्र से हृदय—

ओं प्रजापतये त्वा परिददामि, असौ ॥ ४ ॥

इस मन्त्र को बोल के दक्षिण स्कन्ध और:—

ओं देवाय त्वा सवित्रे परिददामि, असौ ॥ ५ ॥  
मं० ब्रा० १ । ६ । २१-२४ ॥

इस मन्त्र को बोल के वाम हाथ से बाएं स्कन्धा पर स्पर्श करके बालक के हृदय पर हाथ धरके:—

\* असौ और अमुं इन दोनों पदों के स्थान में सर्वत्र बालक का नामोच्चारण करना चाहिये ॥

ओं तं धीरासः क्वय उभयान्ति स्वाध्योऽमनसा देव-  
यन्तः ॥ ६ ॥ ऋ० मं० ३ । सू० ८ ॥

इस मन्त्र को बोल के आचार्य सम्मुख रहकर बालक के दक्षिण हृदय पर अपना हाथ रखके:—

ओं मम व्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनुचितं ते  
अस्तु । मम वाचमेकमना जुषस्व बृहस्पतिष्वा नियुनक्तु  
ममम् ॥ १ ॥ पार० कां० २ । कं० २ ॥

आचार्य इस प्रतिज्ञामन्त्र को बोले अर्थात् हे शिष्य बालक !  
तेरे हृदय को मैं अपने आधीन करता हूँ तेरा चित्त मेरे चित्त  
के अनुकूल सदा रहै और तू मेरी वाणी को एकाग्रमन हो  
प्रीति से सुनकर उसके अर्थ का सेवन किया कर और आज  
से तेरी प्रतिज्ञा के अनुकूल बृहस्पति परमात्मा तुझ को सुझ  
से युक्त करे । यह प्रतिज्ञा करावे इसी प्रकार शिष्य भी आचार्य  
से प्रतिज्ञा करावे कि हे आचार्य ! आपक हृदय को मैं अपनी  
उत्तम शिक्षा और विद्या की उन्नति में धारण करता हूँ मेरे  
चित्त के अनुकूल आपका चित्त सदा रहै आप मेरी वाणी को  
एकाग्र होके सुनिये और परमात्मा मेरे लिये आप का सदा  
नियुक्त रखे इस प्रकार दोनों प्रतिज्ञा करके—

आचार्योक्तिः—

को नामाऽसि ॥ तेरा नाम क्या है ?

बालकोक्तिः—अहम्भोः ॥

मेरा अमुक नाम ऐसा उत्तर देवे । आचार्यः—

कस्य ब्रह्मचार्यसि ॥ तू किसका ब्रह्मचारी है । बालकः—

भवतः ॥ पार० कां० २ । कं० २ ॥ आपका ।

आचार्य बालक की रक्षा के लिये:—

इन्द्रस्य ब्रह्मचार्यस्यग्निराचार्यस्तवाहमाचार्यस्तव

\* असौ ॥ पार० कां० २ । कं० २ ॥

इस मन्त्र को बोले । तत्पश्चात्—

ओं कस्य ब्रह्मचार्यसि प्राणस्य ब्रह्मचार्यसि कस्त्वा  
कमुपनयते काय त्वा परिददामि ॥ १ ॥ ओं प्रजापतये  
त्वा परिददामि । देवाय त्वा सत्रित्रे परिददामि । अद्भ्य-  
स्त्वौषधीभ्यः परिददामि । द्यावापृथिवीभ्यां त्वा परिददा-  
मि । विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः परिददामि । सर्वेभ्यस्त्वा  
भूतेभ्यः परिददाम्यरिष्ट्यै ॥ पार० कां० २ । कं० २ ॥

इन मन्त्रों को बोल बालक को शिक्षा करे कि प्राण आदि  
की विद्या के लिये यत्नवान् हो ॥

यह उपनयन संस्कार पूरे हुए । पश्चात् यदि उसी दिन  
वेदारम्भ करने का विचार पिता और आचार्य का हो तो उसी  
दिन करना और जो दूसरे दिन का विचार हो तो पृष्ठ ३१-३२  
में लिखे महावामदेव्यगान करके संस्कार में आई हुई स्त्रियों  
का बालक की माता और पुरुषों का बालक का पिता संस्कार  
करके विदा करे और माता पिता आचार्य सखन्धी इष्ट मित्र  
सब मिलके:—

ओं त्वं जीव शरदः शतं वर्द्धमानः, आयुष्मान्  
तेजस्वी वर्चस्वी भूयाः ।

इस प्रकार आशीर्वाद देके अपने २ घर को सिधारे ॥

इत्युपनयनसंस्कारविधिः समाप्तः ॥

\* असौ इस पदके स्थान में सर्वत्र बालक का नामोच्चारण करना चाहिये ।

## अथ वेदारम्भसंस्कारविधिर्विधीयते

वेदारम्भ उसको कहते हैं जो गायत्री मन्त्र से लेके साङ्गोपाङ्ग \* चारों वेदों के अध्ययन करने के लिये नियम धारण करना ॥

समयः—जो दिन उपनयन संस्कार का है वही वेदारम्भ का है यदि उस दिवस में न होसके अथवा करने की इच्छा न हो तो दूसरे दिन करे यदि दूसरा दिन भी अनुकूल न हो तो एक वर्ष के भीतर किसी दिन करे ॥

विधिः—जो वेदारम्भ का दिन ठहराया हो उस दिन प्रातःकाल शुद्धोदक से स्नान कराके शुद्ध वस्त्र पहिना, पश्चात् कार्यकर्त्ता अर्थात् पिता यदि पिता न हो तो आचार्य बालक को लेके उत्तमासन पर वेदी के पश्चिम पूर्वाभिमुख बैठे । तत्पश्चात् पृष्ठ ५—१६ तक में ईश्वरस्तुति †, प्रार्थनोपासना, स्वस्तिवाचन, शान्तिप्रकरण करके पृष्ठ २५ में ( भूर्भुवः स्वः० ) इस मन्त्र से अग्न्याधान पृष्ठ २५—२६ में ( ओं अयन्त इध्म० ) इत्यादि ४ मन्त्रों से समिदाधान, पृष्ठ २७ में ( ओं अदितेनु-मन्यस्व० ) इत्यादि तीन मन्त्रों से कुरण्ड के तीनों ओर और

\* ( अङ्ग ) शिखा, कल्प, न्याकरण, निष्क, इन्द्र, ज्योतिष् ।  
( उपाङ्ग ) पूर्वमीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदान्त ।  
( उपवेद ) आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद और अथर्ववेद अर्थात् शिल्पशास्त्र ।  
( ब्राह्मण ) ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ । ( वेद ) ऋक्, यजुः, साम और अथर्व इन सब को क्रम से पढ़े ।

† जो उपनयन किये पश्चात् उसी दिन वेदारम्भ करे उसको पुनः वेदारम्भ के आदि में ईश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना और शान्तिप्रकरण करना आवश्यक नहीं ॥

( ओं देव सवितः० ) इस मन्त्र से कुण्ड के चारों ओर जल छिटका के पृष्ठ २५ में ( उद्वुध्यस्वाग्ने० ) इस मन्त्र से अग्नि को प्रदीप्त करके प्रदीप्त समिधा पर पृष्ठ २७-२८ में आघारावा-  
ज्यभागाहुति ४ ( चार ) व्याहृति आहुति ४ ( चार ) और पृष्ठ २९-३० में आज्याहुति आठ मिलके १६ ( सोलह ) आ-  
ज्याहुति देने के पश्चात् प्रधान \* होमाहुति दिला के पश्चात् पृष्ठ २८ में व्याहृति आहुति ४ ( चार ) और खिष्टकृत् आहुति १ ( एक ) प्राजापत्याहुति १ ( एक ) मिलकर छः आज्याहुति बालक के हाथ से दिलानी तत्पश्चात्-

ओं अग्नेसुश्रवः सुश्रवसं सा कुरु । ओं यथा त्वमग्ने  
सुश्रवः सुश्रवा असि । ओं एवं सां सुश्रवः सौश्रवसं कुरु ।  
ओं यथा त्वमग्ने देवानां यज्ञस्य निधिषा असि । ओं  
एवमहं मनुष्याणां वेदस्य निधिषो भूयासम् ॥ १ ॥ पार०  
कां० २ । कं० ४ ॥

इस मन्त्र से वेदी के अग्नि को इकट्ठा करना तत्पश्चात् बालक कुण्ड की प्रदक्षिणा करके पृष्ठ २७ में लि० प्र० "अदितेनुमन्यस्व" इत्यादि ४ ( चार ) मन्त्रों से कुण्ड के सब ओर जल सिञ्चन करके बालक कुण्ड के दक्षिण की ओर उत्तराभिमुख खड़ा रहकर घृत में भिजो के एक समिधा हाथ में ले -

ओं अग्नये समिधमार्हर्षि वृहते जातवेदसे । यथा  
त्वमग्ने समिधा समिध्यसऽएवमहमायुषा मेधया वर्चसा

\* प्रधान होम उसको कहते हैं जो संस्कार मुख्य करके किया जाता है ॥



प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन समिन्धे जीवपुत्रो ममाचार्यो  
मेधाव्यहमसान्यनिराकरिष्णुर्यशस्वी तेजस्वी ब्रह्मवर्चस्य-  
न्नादो भूयासः०स्वाहा ॥ १ ॥ पार० कां० २ । कं० ४ ॥

समिधा वेदिस्थ अग्नि के मध्य में छोड़ देना इसी प्रकार दूसरी और तीसरी समिधा छोड़े पुनः “ओं अग्ने सुश्रवः सुश्रवसं०” इस मन्त्र से वेदिस्थ अग्नि को इकट्ठा करके पृष्ठ २७ में लि० प्र० “ओं अदितेनुमन्यस्व०” इत्यादि चार मन्त्र से कुण्ड के संच और जल संचन करके बालक वेदी के पश्चिम में पूर्वाभिलुख बैठ के वेदी के अग्नि पर दोनों हाथों को थोड़ा-सा तपा के हाथ में जल लगा—

ओं तनूया अग्नेसि तन्वं मे पाहि ॥ १ ॥ ओं आयुर्दा  
अग्नेस्यायुर्मे देहि ॥ २ ॥ ओं वर्चोदा अग्नेसि वर्चो मे  
देहि ॥ ३ ॥ ओं अग्ने यन्मे तन्वा जनन्तन्म आपृण ॥ ४ ॥  
ओं मेधां मे देवः सविता आदधातु ॥ ५ ॥ ओं मेधां मे  
देवी सरस्वती आदधातु ॥ ६ ॥ ओं मेधां मे अथिनौ  
देवावाधत्तां पुष्करस्रजौ ॥ ७ ॥ पार० कां० २ । कं० ४ ॥

जल स्पर्श करके इन सात मन्त्रों से सात बार किञ्चित् हथेली उष्ण कर मुख स्पर्श करना तत्पश्चात् बालक—

ओं वाङ् म आप्यायताम् ॥ इस मन्त्र से मुख,  
ओं प्राणश्च म आप्यायताम् ॥ इस मन्त्र से नासिका द्वार,  
ओं चक्षुश्च म आप्यायताम् ॥ इस मन्त्र से दोनों नेत्र,  
ओं श्रोत्रश्च म आप्यायताम् ॥ इस मन्त्र से दोनों कान,  
ओं यशो बलञ्च म आप्यायताम् ॥

इस मन्त्र से दोनों बाहुओं को स्पर्श करे ॥

ओं मयि मेधां मयि प्रजां मय्यग्निस्तेजो दधातु ।  
मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु । मयि मेधां  
मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु । यत्ते अग्ने तेजस्ते-  
नाहं तेजस्वी भूयासम् । यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्वी  
भूयासम् । यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्वी भूयासम् ॥ आश्व०  
अ० १ । क० २१ । सू० ४ ॥

इन मन्त्रों से बालक परमेश्वर का उपस्थान करके कुण्ड  
की उत्तर बाजू की ओर जाके, जानू को भूमि में टेक के, पूर्वा-  
भिमुख बैठे और आचार्य बालक के सन्मुख पश्चिमा-  
भिमुख बैठे —

बालकोक्तिः—अधीहि भूः सावित्रीं भो अनुव्रूहि ॥

अर्थात् आचार्य से बालक कहे कि हे आचार्य ! प्रथम  
एक ओंकार पश्चात् तीन महाव्याहृति तत्पश्चात् सावित्री ये-  
त्रिक अर्थात् तीनों मिलके परमात्मा के वाचक मन्त्र को मुझे  
उपदेश कीजिये तत्पश्चात् आचार्य एक वस्त्र अपने और  
बालक के कन्धे पर रख के अपने हाथ से बालक के दोनों  
हाथ की अंगुलियों को पकड़ के नीचे लिखे प्रमाणे बालक को  
तीन वार करके गायत्री मन्त्रोपदेश करे ॥

प्रथम वार—

ओं भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यम् ।

इतना टुकड़ा एक २ पद का शुद्ध उच्चारण बालक के  
करा के दूसरी वार—

ओं भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि

एक २ पद से यथावत् धीरे २ उच्चारण करवा के,  
तीसरी बार—

ओं भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य  
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॥ १ ॥

धीरे २ इस मन्त्र को बुलवा के संक्षेप से इसका अर्थ भी  
नीचे लिखे प्रमाणे आचार्य सुनावे—

अर्थ—( ओम् ) यह मुख्य परमेश्वर का नाम है जिस  
नाम के साथ अन्य सब नाम लग जाते हैं ( भूः ) जो प्राण  
का भी प्राण ( भुवः ) सब दुःखों से छुड़ानेहारा ( स्वः ) स्वयं  
सुखस्वरूप और अपने उपासकों को सब सुख की प्राप्ति  
करानेहारा है उस ( सवितुः ) सब जगत् की उत्पत्ति करने  
वाले सूर्यादि प्रकाशकों के भी प्रकाशक समग्र ऐश्वर्य के दाता  
( देवस्य ) कामना करने योग्य सर्वत्र विजय कराने हारे पर-  
मात्मा का जो ( वरेण्यम् ) अतिश्रेष्ठ ग्रहण और ध्यान करने  
योग्य ( भर्गः ) सब क्लेशों को भस्म करनेहारा पवित्र शुद्ध-  
स्वरूप है ( तत् ) उसको हम लोग ( धीमहि ) धारण करें  
( यः ) यह जो परमात्मा ( नः ) हमारी ( धियोः ) बुद्धियों को  
उत्तम गुण कर्म सामर्थ्यों में ( प्रचोदयात् ) प्रेरणा करे इसी  
प्रयोजन के लिये इस जगदीश्वर की स्तुति प्रार्थनापासना करना  
और इससे भिन्न और किसी को उपास्य इष्टदेव उसके तुल्य  
वा उससे अधिक नहीं मानना चाहिये इस प्रकार अर्थ सुनाये,  
पश्चात्—

ओं सप्त प्रते ते हृदयं दधामि । भम चित्तमनुचितं  
ते अस्तु । सप्त वाचमेकमना जुपस्व वृहस्पतिष्वा नियु-  
नक्तु नक्षत्रम् ॥ १ ॥ पार० कां० २ । कं० २ ॥

इस मन्त्र से बालक और आचार्य पूर्ववत् दृढ़ प्रतिज्ञा करके-

ओं इयं दुरुक्लं परिबाधमाना वर्णं पवित्रं पुनती म आगात् ।  
प्राणापानाभ्यां बलसादधाना स्वसा देवी सुभगा मेखलेयम्  
॥ १ ॥ मं० ब्रा० १ । १ । २७ ॥ पार० कां० २ । कं० २ ॥

इस मन्त्र से आचार्य सुन्दर चिकनी प्रथम वना के रक्खी हुई मेखला \* को बालक के कटि में बांध के—

ओं युवा सुवासाः परिवीत आगात् स उ श्रेयान्  
भवति जायमानः । तं धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्या  
यनसा देवयन्तः ॥ १ ॥ ऋ० मं० ३ । सू० ८ । मंत्र ४ ॥

इस मन्त्र को बोल के दो शुद्ध कौपीन, दो अंगोछे और एक उत्तरीय और दो कटिवस्त्र ब्रह्मचारी को आचार्य देवे और उनमें से एक कौपीन, एक कटिवस्त्र और एक उपपत्र बालक को आचार्य धारण करावे तत्पश्चात् आचार्य दण्ड † हाथ में लेके सामने खड़ा रहे और बालक भी आचार्य के सामने हाथ जोड़—

\* ब्राह्मण को मुञ्ज वा दर्भ की, क्षत्रिय को धनुषसंज्ञक वृण वा बल्कल की और वैश्य को ऊन वा शण की मेखला होनी चाहिये ।

† ब्राह्मण के बालक को खड़ा रख के भूमि से ललाट के केशों तक पलाश वा विल्व वृक्ष का, क्षत्रिय को वट वा खदिर का ललाट ऊ तक, वैश्य को पीलू अथवा गूलर वृक्ष का नासिका के अग्रभाग तक दण्ड प्रमाण हे और वे दण्ड चिकने सूधे हों, अग्नि में जले, टेढ़े, कीड़ों के स्वाये हुए न हों और एक २ मृगाचर्म उनके बैठने के लिये एक २ जलपात्र, एक २ उपपान्न और एक २ आचमनीय सब ब्रह्मचारियों को देना चाहिये ।

ओं यो मे दंडः परापतद्वैहायसोऽधिभूम्याम् । तमहं  
 पुनरादद आयुषे ब्रह्मणे ब्रह्मवर्चसाय ॥ १ ॥ पार० कां०  
 २ । क० २ ॥

इस मन्त्र को बोल के बालक आचार्य के हाथ से दण्ड  
 लेवे, तत्पश्चात् पिता ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्याधम का साधा-  
 रण उपदेश करे—

ब्रह्मचार्यसि असौ \* ॥ १ ॥ अपोऽअशान ॥ २ ॥  
 कर्म कुरु ॥ ३ ॥ दिवा मा स्वाप्सीः ॥ ४ ॥ आचार्या-  
 धीनो वेदमधीष्व ॥ ५ ॥ द्वादश वर्षाणि प्रतिवेदं ब्रह्मचर्यं  
 गृहाण वा ब्रह्मचर्यं चर ॥ ६ ॥ आचार्याधीनो भवान्यत्रा-  
 धर्माचरणात् ॥ ७ ॥ क्रोधानृते वर्जय ॥ ८ ॥ मैथुनं  
 वर्जय ॥ ९ ॥ उपरि शय्यां वर्जय ॥ १० ॥ कौशीलवगन्याञ्ज-  
 नानि वर्जय ॥ ११ ॥ अत्यन्तं स्नानं भोजनं निद्रां जाग-  
 र्ण्यं निन्दां लोममोहभयशोकान् वर्जय ॥ १२ ॥ प्रतिदिनं  
 शत्रेः पश्चिमे यामे चोत्थायावश्यकं कृत्वा दन्तधावनस्नान-  
 सन्ध्योपासनेश्वरस्तुतिप्रार्थनोपासनायोगाभ्यासान्नित्यमाचर  
 ॥ १३ ॥ चुरकृत्यं वर्जय ॥ १४ ॥ मांसरूक्षाहारं मद्या-  
 दिपानं च वर्जय ॥ १५ ॥ गर्वाश्चहस्त्युग्रदियानं वर्जय  
 ॥ १६ ॥ अन्तर्ग्रामनिवासोपानच्छत्रधारणं वर्जय ॥ १७ ॥  
 अकामतः स्वयमिन्द्रियस्पर्शेन वीर्यस्वत्तनं विहाय वीर्यं  
 शरीरे संरज्योर्ध्वरेताः सततं भव ॥ १८ ॥ तैलाभ्यङ्गमर्द-

\* असौ इस पद के स्थान में ब्रह्मचारी का नाम सर्वत्र उच्चारण करे ।

नात्यम्लातितिक्रकषायक्षाररेचनद्रव्याणि मा सेवस्व ॥१६॥  
 नित्यं युक्ताहारविहारवान् विद्योपार्जने च यत्नवान् भव  
 ॥ २० ॥ सुशीलो मितभाषी सभ्यो भव ॥ २१ ॥ मेख-  
 लादण्डधारणमैद्य्यचर्यसामिदाधानोदकस्पर्शनाचार्यप्रियाच-  
 रणप्रातःसायमभिवादनविद्यासंचयजितेन्द्रियत्वादीन्येते ते  
 नित्यधर्माः ॥ २२ ॥

अर्थः—तू आज से ब्रह्मचारी है ॥ १ ॥ नित्य सन्ध्योपासन  
 भोजन के पूर्व शुद्ध जल का आचमन किया कर ॥ २ ॥ दुष्ट  
 कर्मों को छोड़ धर्म किया कर ॥ ३ ॥ दिन में शयन कभी मत  
 कर ॥ ४ ॥ आचार्य के आधीन रह के नित्य साङ्गोपाङ्ग वेद  
 पढ़ने में पुरुषार्थ किया कर ॥ ५ ॥ एक २ साङ्गोपाङ्ग वेद के  
 लिये बारह २ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य अर्थात् ४८ वर्ष तक वा  
 जबतक साङ्गोपाङ्ग चारों वेद पूरे हों तबतक अजरिडित  
 ब्रह्मचर्य कर ॥ ६ ॥ आचार्य के आधीन धर्माचरण में रहा  
 कर परन्तु यदि आचार्य अधर्माचरण वा अधर्म करने का उप-  
 देश करे उसको तू कभी मत मान और उसका आचरण मत  
 कर ॥ ७ ॥ क्रोध और मिथ्याभाषण करना छोड़ दे ॥ ८ ॥ आठ \*  
 प्रकार के मैथुन को छोड़ देना ॥ ९ ॥ भूमि में शयन करना  
 पलंग आदि पर कभी न सोना ॥ १० ॥ कौशिल्य अर्थात्  
 गाना, बजाना तथा नृत्य आदि निन्दित कर्म गन्ध और अंजन  
 का सेवन मत कर ॥ ११ ॥ अति स्नान, अति भोजन, अधिक

\* स्त्री का ध्यान, कथा, स्पर्श, क्रीड़ा, दर्शन, आलिङ्गन, एकान्तवास  
 और समागम, यह आठ प्रकार का मैथुन कहाता है जो इनको छोड़  
 देता है वही ब्रह्मचारी होता है ॥

निद्रा, अधिक जागरण, निन्दा, लोभ, मोह, भय, शोक का ग्रहण कभी मत कर ॥ १२ ॥ रात्रि के चौथे पहर में जाग आवश्यक शौचादि दन्तधावन, स्नान, सन्ध्योपासना, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना योगाभ्यास का आचरण नित्य किया कर ॥ १३ ॥ क्षौर बत करा ॥ १४ ॥ मांस, रूखा शुष्क अन्न मत खावे और मद्यदि मत पीवे ॥ १५ ॥ बैल घोड़ा हाथी ऊंट आदि की सवारी मत कर ॥ १६ ॥ गांव में निवास और जूता और छत्र का धारण मत कर ॥ १७ ॥ लघुशंका के बिना उपस्थ इन्द्रिय के स्पर्श से वीर्यस्खलन कभी न करके वीर्य को शरीर में रख क निरन्तर ऊर्ध्वरेता अर्थात् नीचे वीर्य को मत गिरने दे इस प्रकार यत्न से वर्त्ता कर ॥ १८ ॥ तैलादि से अंगमर्दन, उबटना अति खट्टा अमली आदि, अति तीखा लालमिर्चा आदि, कसेला हरहं आदि, चार अधिक लवण आदि और रेचक जमालगोटा आदि द्रव्यों का सेवन मत कर ॥ १९ ॥ नित्य युक्ति से आहार विहार करके विद्याग्रहण में यत्नशील हो ॥ २० ॥ सुशील, थोड़े बोलनेवाला, सभामें बैठने योग्य गुण ग्रहण कर ॥ २१ ॥ मंत्राला और दण्ड का धारण, भिक्षाचरण, अग्निहोत्र, स्नान, सन्ध्योपासन, आचार्य का प्रियाचरण, प्रातः सायं आचार्य को नमस्कार करना ये तरे नित्य करने के और जो निषेध किये वे नित्य न करने के कर्म हैं ॥ २२ ॥

जब यह उपदेश पिता कर चुके तब बालक पिता को नमस्कार कर हाथ जोड़ के कहे कि जैसा आपने उपदेश किया वैसा ही करूंगा तत्पश्चात् ब्रह्मचारी यक्षकुण्ड की प्रदक्षिणा करके कुण्ड के पश्चिम भाग में खड़ा रहके माता, पिता, बहिन, भाई, मामा, मौसी, चाची आदि से लेकर जो भिक्षा देने में तत्कार

करें उनसे भिक्षा \* मांगे और जितनी भिक्षा मिले वह प्राचार्य के आगे धर देनी तत्पश्चात् प्राचार्य उसमें से कुछ थोड़ासा अन्न लेके वह सब भिक्षा बालक को देदेवे और वह बालक उस भिक्षा को अपने भोजन के लिये रख छोड़े तत्पश्चात् बालक को शुभासन पर बैठाके पृष्ठ ३१-३२ में लिखे सामदेव्यगान को करना तत्पश्चात् बालक पूर्व रन्धी हुई भिक्षा का भोजन करे पश्चात् सायंकाल तक विश्राम और गृहाश्रम संस्कार में लिखा सन्ध्योपासना प्राचार्य बालक के हाथ से करावे और पश्चात् ब्रह्मचारी सहित प्राचार्य कुण्ड के पश्चिम भाग में आसन पर पूर्वाभिमुख बैठे और स्थालीपाक अर्थात् पृष्ठ १८ में लि० भात बना उसमें घी डाल पात्र में रख पृष्ठ २४-२५ में लि० समिदाधान कर पुनः समिधा प्रदीप्त कर आचारावा-न्यभागाहुति ४ (चार) और व्याहृति आहुति ४ (चार) दोनों मिल के ८ (आठ) आज्याहुति देनी तत्पश्चात् ब्रह्मचारी खड़ा हा के पृष्ठ ६३ में "ओ अग्ने सुश्रवः०" इस मन्त्र से तीन समिधा की आहुति देवे तत्पश्चात् बालक बैठ के पद्मकुण्ड की अग्नि से अपना हाथ तथा पृष्ठ २४ में पूर्व-वत् मुख का स्पर्श कर के अङ्गस्पर्श करना तत्पश्चात् पृष्ठ १८ में लि० प्र० बनाये हुए भात को बालक प्राचार्य को होम और भोजन के लिये देवे पुनः प्राचार्य उस भात में से आहुति के अनुमान भात को स्थाली में ले के उसमें घी मिला—

\* ब्राह्मण का बालक यदि पुरुष से भिक्षा मांगे तो "भवान् भिक्षां ददातु" और जो स्त्री से मांगे तो "भवती भिक्षां ददातु" और क्षत्रिय का बालक "भिक्षां भवान् ददातु" और स्त्री से "भिक्षां भवती ददातु" वैश्य का बालक "भिक्षां ददातु भवान्" और "भिक्षां ददातु भवती" ऐसा वाक्य बोले ॥



ओं सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम् । सनि  
 भेषामयाशिपथं स्वाहा ॥ इदं सदसस्पतये—इदन्न मम ॥१॥  
 ष० अ० ३२ । मं० १३ ॥

तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः  
 प्रचोदयात् ॥ इदं सवित्रे—इदन्न मम ॥२॥ यजु० अ० २२ ।  
 मं० ६ ॥ ओं ऋषिभ्यः स्वाहा ॥ इदं ऋषिभ्यः—इदन्न मम  
 ॥ ३ ॥ आथ० अ० १ । कं० २२ । सू० १४ ॥

इन तीन मन्त्रों से तीन और २८ में लि० ( ओं यदस्य  
 कर्मणो० ) इस मन्त्र से चौथी आहुति देवे तत्पश्चात्  
 पृष्ठ २८ में लि० व्याहृति आहुति ४ ( चार ) पृष्ठ २६-३०  
 में ( ओं त्वन्नो० ) इन ८ ( आठ ) मन्त्रों से आज्याहुति ८  
 ( आठ ) मिल के १२ ( बारह ) आज्याहुति देके ब्रह्मचारी  
 शुभासन पर पूर्वामुख बैठ के पृष्ठ ३१-३२ में लि० वामदेव्य  
 गान आचार्य के साथ करके:—

अमुकगोत्रोत्पन्नोऽहं भो भवन्तमभिवादये ॥

ऐसा वाक्य बोल के आचार्य का वन्दन करे और आचार्य—

आयुष्मान् विद्यावान् भव सौम्य ॥

ऐसा आशीर्वाद देके पश्चात् होम से बचे हुए हविष्य अन्न  
 और दूसरे भी सुन्दर मिष्ठान्न का भोजन आचार्य के साथ  
 अर्थात् पृथक् २ बैठ के करे तत्पश्चात् हस्त मुख प्रक्षालन  
 करके संस्कार में निमन्त्रण से जो आयें हों उनको यथायोग्य  
 भोजन करा तत्पश्चात् स्त्रियों को स्त्री और पुरुषों को पुरुष  
 प्रीतिपूर्वक विदा करे और सब जन बालक को निम्नलिखित:—

हे बालक ! त्वमीश्वरकृपया विद्वान् शरीरात्मबलयुक्तः  
कुशली वीर्यवानरोगः सर्वा विद्या अधीत्याऽस्मान् दिदृक्षुः  
सन्नागम्याः ॥

ऐसा आशीर्वाद दे के अपने २ घर को चले जायें तत्पश्चात्  
ब्रह्मचारी ३ (तीन) दिन तक भूमि में शयन प्रातःसायं पृ० ६३  
में लि० (ओमग्ने सुश्रव०) इस मन्त्र से समिधा होम और  
पृष्ठ २४ में लि० मुख आदि अङ्गस्पर्श आचार्य करावे तथा तीन  
दिन तक (सदसस्पति०) इत्यादि पृष्ठ १०२ में लि० ४ (चार)  
स्थालीपाक की आहुति पूर्वोक्त रीति से ब्रह्मचारी के हाथ से  
करवावे और ३ (तीन) दिन तक चार लवण रहित पदार्थ  
का भोजन ब्रह्मचारी किया करे तत्पश्चात् पाठशाला में जाके  
गुरु के समीप विद्याभ्यास करने के समय की प्रतिज्ञा करे तथा  
आचार्य भी करे ॥

आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः ।  
सं रात्रीस्तिस्र उदरे विमर्त्ति तं जातं द्रष्टुमभिसंयन्ति देवाः  
॥ १ ॥ इयं समित्पृथिवी द्यौर्द्वितीयोतान्तरिक्षं समिधा  
पृष्णाति । ब्रह्मचारी समिधा मेखत्तया श्रमेण लोकास्तपसा  
पिपर्ति ॥ २ ॥ ब्रह्मचार्येति समिधा समिद्धः कार्ण्यं  
वसानो दीक्षितो दीर्घशर्मश्रुः ॥ स सद्य एति पूर्वस्सदुत्तरं  
समुद्रं लोकान्संगृभ्य मुहुराचरिक्त ॥ ३ ॥ ब्रह्मचर्येण तपसा  
राजा राष्ट्रं वि रक्षति । आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमि-  
च्छते ॥ ४ ॥ ब्रह्मचर्येण कन्यायुवानं विन्दते पतिम् ॥ ५ ॥  
ब्रह्मचारी ब्रह्म आजद्विभर्ति तस्मिन्देवा अधि विश्वे ममोताः

श्राणापानौ जनयन्नाद् व्यानं वाचं मनो हृदयं ब्रह्म मेधाम्  
॥ ६ ॥ अथर्व० कां० ११ । सू० ५ ॥

संक्षेप से भाषार्थ—आचार्य ब्रह्मचारी को प्रतिष्ठापूर्वक  
क्षमीप रख के ३ (तीन) रात्रि पर्यन्त गृहाश्रम के प्रकरण में  
लिखे सन्ध्योपासनादि सत्पुरुषों के आचार की शिक्षा कर उसके  
आत्मा के भीतर गर्भरूप विद्या स्थापन करने के लिये उसको  
धारण कर और उसको पूर्ण विद्वान् कर देता और जब वह  
पूर्ण ब्रह्मचर्य और विद्या को पूर्ण करके घर को आता है तब  
उसको देखने के लिये सब विद्वान् लोग सम्मुख जाकर बड़ा  
मान्य करते हैं ॥ १ ॥

जो यह ब्रह्मचारी वेदारम्भ के समय तीन समिधा अग्नि  
में होमकर ब्रह्मचर्य के व्रत का नियमपूर्वक सेवन करके विद्या  
पूर्ण करने का दृढ़ोत्साही होता है वह जाना पृथिवी सूर्य और  
अन्तरिक्ष के सदृश सब का पालन करता है क्योंकि वह समि-  
धाधान मेखलादि चिह्नों का धारण और परिश्रम से विद्या पूर्ण  
करके इस ब्रह्मचर्यानुष्ठानरूप तप से सब लोगों को सदगुण  
और आनन्द से तृप्त कर देता है ॥ २ ॥

जब विद्या से प्रकाशित और मृगचर्मादि धारण कर दी-  
क्षित होके ( दीर्घिश्मश्रुः ) ५० ( चालीस ) वर्ष तक डाढ़ी मूँछ  
आदि पंचकेशों का धारण करनेवाला ब्रह्मचारी होता है वह  
पूर्ण समुद्ररूप ब्रह्मचर्यानुष्ठान को पूर्ण करके गुरुकुल से उत्तम  
समुद्र अर्थात् गृहाश्रम को शीघ्र प्राप्त होता है वह सब लोगों  
का संग्रह करके चारंबार पुरुषार्थ और जगत् को सत्योपदेश  
से आनन्दित कर देता है ॥ ३ ॥

वही राजा उत्तम होता है जो पूर्ण ब्रह्मचर्यरूप तपश्चरण्य

से पूर्ण विद्वान् सुशिक्षित सुशील जितेन्द्रिय होकर राज्य की विविध प्रकार से पालन करता है और वही विद्वान् ब्रह्मचारी की इच्छा करता और आचार्य हो सकता है जो यथावत् ब्रह्मचर्य से संपूर्ण विद्याओं को पढ़ता है ॥ ४ ॥

जैसे लड़के पूर्ण ब्रह्मचर्य और पूर्ण विद्या पढ़ पूर्ण ज्वान ही के अपने सदृश कन्या से विवाह करें वैसे कन्या भी अखण्ड ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्या पढ़ पूर्ण युवति हो अपने तुल्य पूर्ण युवावस्थावाले पति को प्राप्त होवे ॥ ५ ॥

जब ब्रह्मचारी ब्रह्म अर्थात् साङ्गोपाङ्ग चारों वेदों का शब्दार्थ और सम्बन्ध के ज्ञानपूर्वक धारण करता है तभी प्रकाशमान होता उसमें सम्पूर्ण दिव्यगुण निवास करते और सब विद्वान् उससे मित्रता करते हैं वह ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य ही से प्राण, दीर्घजीवन, दुःख क्लेशों का नाश, सम्पूर्ण विद्याओं से व्यापकता, उत्तम वाणी, पवित्र आत्मा, शुद्ध हृदय, परमात्मा और श्रेष्ठ प्रज्ञा को धारण करके सब मनुष्यों के हित के लिये सब विद्याओं का प्रकाश करता है ॥ ६ ॥

### ब्रह्मचर्यकालः ॥

इसमें छान्दोग्योपनिषद् के तृतीय प्रपाठक के सोलहवें खण्ड का प्रमाण ।

मातृमान् पितृमानाचार्यवान् पुरुषो वेद ॥ १ ॥  
 पुरुषो वाव यज्ञस्तास्य यानि चतुर्विंशतिर्वर्षाणि तत् प्रातः  
 सवनं चतुर्विंशत्यक्षरा गायत्री गायत्रं प्रातःसवनं तदस्य  
 वसवोऽन्वायत्ताः प्राणा वाव वसव एते हीदं सर्वं वासय-  
 न्ति ॥ २ ॥ तं चेदेतस्मिन् वयसि किञ्चिदुपतपेत् स

ब्रूयात् प्राणा वसव इदं मे प्रातःसवनं माध्यन्दिनं सवन-  
 मनुसन्तनुतेति माहं प्राणानां वसूनां मध्ये यज्ञो विलोप्सी-  
 येत्युद्धैव तत एत्यगदो ह भवति ॥ ३ ॥ अथ यानि चतु-  
 श्चत्वारिंशद्वर्षाणि तन्माध्यन्दिनं सवनं चतुश्चत्वारिंश-  
 शदक्षरा त्रिष्टुप् त्रैष्टुभं माध्यन्दिनं सवनं तदस्य रुद्रा  
 अन्यायत्ताः प्राणा वाव रुद्रा एते हीदं सर्वं रोदयन्ति  
 ॥ ४ ॥ तं चेदेतस्मिन् वयसि किञ्चिदुपतपेत् स ब्रूयात्  
 प्राणा रुद्रा इदं मे माध्यन्दिनं सवनं तृतीयसवनमनुसन्त-  
 नुतेति माहंप्राणानां रुद्राणां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्यु-  
 द्धैव तत एत्यगदो ह भवति ॥ ५ ॥ अथ यान्यष्टाचत्वारिंश-  
 शद्वर्षाणि तत् तृतीयसवनमष्टाचत्वारिंशदक्षरा जगती जा-  
 गतं तृतीयसवनं तदस्यादित्या अन्यायत्ताः प्राणा वाचा-  
 दित्या एते हीदं सर्वमाददते ॥ ६ ॥ तं चेदेतस्मिन्  
 वयसि किञ्चिदुपतपेत् स ब्रूयात् प्राणा आदित्या इदं मे  
 तृतीयसवनमायुगनुसन्तनुतेति माहं प्राणानामादित्यानां मध्ये  
 यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धैव तत एत्यगदो ह भवति ॥ ७ ॥

अर्थः—जो बालक को ५ ( पांच ) वर्ष की आयु तक माता  
 पांच से ८ ( आठ ) तक पिता ८ ( आठ ) से ४८ ( अड़तालीस )  
 ४४ ( चवालीस ) ४० ( चालीस ) ३६ ( छत्तीस ) ३० ( तीस ) तक  
 अथवा २५ ( पच्चीस ) वर्ष तक तथा कन्या को ८ ( आठ )  
 से २४ ( चौबीस ) २२ ( बाईस ) २० ( बीस ) १८ ( अठारह )  
 अथवा १६ ( सोलह ) वर्ष तक आचार्य की शिक्षा प्राप्त हो  
 सभी पुरुष वा स्त्री विद्यावान् होकर धर्मार्थ काम मोक्ष के

व्यवहारों में अतिचतुर होते हैं ॥ १ ॥ यह मनुष्य देह यह अर्थात् अच्छे प्रकार उसको आयु बल आदि से संपन्न करने के लिये छोटे से छोटा यह पक्ष है कि २४ (चौबीस) वर्षपर्यन्त ब्रह्मचर्य पुरुष और १६ (सोलह) वर्ष तक स्त्री ब्रह्मचर्याश्रम यथावत् पूर्ण जैसे २४ (चौबीस) अक्षर का गायत्री छन्द होता है वैसे करे वह प्रातःसवन कहाता है जिससे इस मनुष्य-देह के घट्य वसुरूप प्राण प्राप्त होते हैं जो बलवान् होकर सब शुभ गुणों को शरीर आत्मा और मन के बीच में वास कराते हैं ॥ २ ॥ जो कोई इस २५ (पच्चीस) वर्ष के आयु से पूर्व ब्रह्मचारी को विवाह वा विषयभोग करने का उपदेश करे उसको वह ब्रह्मचारी यह उत्तर देवे कि देख, यदि मेरे प्राण मन और इन्द्रिय २५ (पच्चीस) वर्ष तक ब्रह्मचर्य से बलवान् न हुए तो मध्यम सवन जो कि आगे ४४ (चवालीस) वर्ष तक का ब्रह्मचर्य कहा है उसको पूर्ण करने के लिये मुझ में सामर्थ्य न हो सकेगा किन्तु प्रथम कोटि का ब्रह्मचर्य मध्यम कोटि के ब्रह्मचर्य को सिद्ध करता है इसलिये क्या मैं तुम्हारे सदृश मूर्ख हूँ कि जो इस शरीर प्राण अन्तःकरण और आत्मा के संयोगरूप सब शुभ गुण, कर्म और स्वभाव के साधन करनेवाले इस संघात को शीघ्र नष्ट करके अपने मनुष्यदेह धारण के फल से विमुक्त रहूँ और सब आश्रमों के मूल सब उत्तम कर्मों में उत्तम कर्म और सब के मुख्य कारण ब्रह्मचर्य को खण्डित करके महादुःखसागर में कभी डूबूँ किन्तु जो प्रथम आयु में ब्रह्मचर्य करता है वह ब्रह्मचर्य के सेवन से विद्या को प्राप्त होके निश्चित योगरहित होता है इसलिये तुम मूर्ख लोगों के कहने से ब्रह्मचर्य का लोप मैं कभी न करूँगा ॥ ३ ॥ और जो ४४ (चवालीस) वर्ष तक अर्थात् जैसा ४४ (चवालीस) अक्षर का

त्रिष्टुप छन्द होता है तद्वत् जो मध्यम ब्रह्मचर्य करता है वह ब्रह्मचारी रुद्ररूप प्राणों को प्राप्त होता है कि जिसके आगे किसी दुष्ट की दुष्टता नहीं चलती और वह सब दुष्ट कर्म करनेवालों को सदा रुलाता रहता है ॥ ४ ॥ यदि मध्यम ब्रह्मचर्य के सेवन करने वाले से कोई कहे कि तू इस ब्रह्मचर्य को छोड़ विवाह करके आनन्द को प्राप्त हो उसको ब्रह्मचारी यह उत्तर देवे कि जो सुख अधिक ब्रह्मचर्याश्रम के सेवन से होता और विषयसम्बन्धी भी अधिक आनन्द होता है वह ब्रह्मचर्य को न करने से स्वप्न में भी नहीं प्राप्त होता क्योंकि सांसारिक व्यवहार विषय और परमार्थ सम्बन्धी पूर्ण सुख को ब्रह्मचारी ही प्राप्त होता है अन्य कोई नहीं इसलिये मैं इस सर्वोत्तम सुख प्राप्ति के साथन ब्रह्मचर्य का लोप न करके विद्वान् चलवान् आयुष्मान् भर्मात्मी हो के सम्पूर्ण आनन्द को प्राप्त होऊंगा । तुम्हारे निर्वृद्धियों के कहने से शीघ्र विवाह करके स्वयं और अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट कभी न करेगा ॥ ५ ॥ अब ४८ ( अइतालीस ) वर्ष पर्यन्त जैसा कि ४८ ( अइतालीस ) अक्षर का जगती छन्द होता है वैसे इस उत्तम ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्या, पूर्ण बल, पूर्ण प्रज्ञा, पूर्ण शुभ गुण, कर्म, स्वभावयुक्त सूर्यवत् प्रकाशमान होकर ब्रह्मचारी सब विद्याओं को ग्रहण करता है ॥ ६ ॥ यदि कोई इस सर्वोत्तम धर्म से गिराना चाहे उसको ब्रह्मचारी उत्तर देवे कि अरे ! छोकरो के छोकर मुझ से दूर रहे तुम्हारे दुर्गन्धरूप भ्रष्ट वचनों से मैं दूर रहता हूँ मैं इस उत्तम ब्रह्मचर्य का लोप कभी न करूंगा इसको पूर्ण करके सब रोगों से रहित सर्वविद्यादि शुभ गुण कर्म स्वभाव सहित होऊंगा इस मेरी शुभ प्रतिज्ञा को परमात्मा अपनी कृपा से पूर्ण करे जिससे मैं तुम निर्वृद्धियों को उपदेश और विद्या पढ़ा के

विशेष तुम्हारे बालकों को आनन्दयुक्त कर सकूँ ॥ ७ ॥

चतस्रोऽवस्थाः शरीरस्य वृद्धिर्यौवनं संपूर्णता किञ्चित्प-  
रिहाणिश्चेति । तत्राषोडशाद् वृद्धिः । आपञ्चविंशतेर्यौवनम् ।  
आचत्वारिंशतस्सम्पूर्णता । ततः किञ्चित्परिहाणिश्चेति ॥

पञ्चविंशे ततो वर्षे पुमान्बारी तु षोडशे ।

समत्वागतवीर्यौ तौ जानीयात् कुशलो भिषक् ॥ १ ॥

यह धन्वन्तरिजी कृत सुश्रुतग्रन्थ का प्रमाण है ।

अर्थ—इस मनुष्य देह की ४ अवस्था हैं—पहली वृद्धि, दूसरी यौवन, तीसरी संपूर्णता, चौथी किञ्चित्परिहाणि करने-हारी अवस्था है । इन में १६ ( सोलहवें ) वर्ष आरम्भ २५ ( पच्चीसवें ) वर्ष में पूर्तिवाली वृद्धि की अवस्था है । जो कोई इस वृद्धि की अवस्था में वीर्यादि धातुओं का नाश करेगा वह कुल्हाड़े से काटे वृक्ष वा डंडे से फूटे घड़े के समान अपने सर्वस्व का नाश कर के पश्चात्ताप करेगा, पुनः उसके हाथ में सुधार कुछ भी न रहेगा और दूसरी जो युवावस्था उसका आरम्भ २५ ( पच्चीसवें ) वर्ष से और पूर्ति ४० ( चालीसवें ) वर्ष में होती है जो कोई इसको यथावत् संरक्षित न कर रक्खेगा वह अपनी भाग्यशालिता को नष्ट कर देवेगा और तीसरी पूर्ण युवावस्था ४० ( चालीसवें ) वर्ष में होती है जो कोई ब्रह्मचारी होकर पुनः ऋतुगामी परस्त्रीत्यागी एकस्त्रीव्रत गर्भ रहे पश्चात् एक वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचारी न रहेगा वह भी बना बनाया धूल में मिल जायगा और चौथी ४० ( चालीसवें ) वर्ष से यथावत् निर्वार्य न हो तावत् किञ्चित् हानिरूप अवस्था है यदि किञ्चित् हानि के बढ़ने वीर्य की अधिक हानि



करेगा वह भी राजयक्ष्मा और भगन्दरादि रोगों से पीड़ित हो जायगा और जो इन चारों अवस्थाओं को यथोक्त सुरक्षित रखेगा वह सर्वदा आनन्दित होकर सब संसार को सुखी कर सकेगा ॥

अब इसमें इतना विशेष समझना चाहिये कि स्त्री और पुरुष के शरीर में पूर्वोक्त चारों अवस्थाओं का एकसा समय नहीं है किन्तु जितना सामर्थ्य २५ (पच्चीसवें) वर्ष में पुरुष के शरीर में होता है उतना सामर्थ्य स्त्री के शरीर में १६ (सोलहवें) वर्ष में होजाता है यदि बहुत शीघ्र विवाह करना चाहें तो २५ (पच्चीस) वर्ष का पुरुष और १६ (सोलह) वर्ष की स्त्री दोनों तुल्य सामर्थ्य वाले होते हैं इस कारण इस अवस्था में जो विवाह करना वह अधम विवाह है और जो १७ (सत्रहवें) वर्ष की स्त्री और ३० (तीस) वर्ष का पुरुष १८ (अठारह) वर्ष की स्त्री और छत्तीस वर्ष का पुरुष १९ (उन्नीस) वर्ष की स्त्री ३८ (अड़तीस) वर्ष का पुरुष विवाह करे तो इसको मध्यम समय जानो और जो २० (बीस) २१ (इक्कीस) २२ (बाईस) वा २४ (चौबीस) वर्ष की स्त्री ४० (चालीस) ४२ (बयालीस) ४६ (छयालीस) और ४८ (अड़तालीस) वर्ष का पुरुष होकर विवाह करे वह सर्वोत्तम है। हे ब्रह्मचारिन् ! इन वाक्यों को तू ध्यान में रख जो कि तुझको आगे के आश्रमों में काम आवेंगे जो मनुष्य अपने सन्तान कुलसम्बन्धी और देश की उन्नति करना चाहें वे इन पूर्वोक्त और आगे कही हुई बातों का यथावत् आचरण करें ॥

श्रोत्रं त्वक् चक्षुषी जिह्वा नासिका चैव पञ्चमी ।

पायूपस्थं हस्तपादं वाक् चैव दशमी स्मृता ॥ १ ॥

बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चैषां भोत्रादीन्यनुपूर्वशः ।  
 कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैषां पाख्यादीनि प्रचक्षते ॥ २ ॥  
 एकादशं मनो ज्ञेयं स्वगुणेनोभयात्मकम् ।  
 यस्मिन् जिते जितावेतौ भवतः पञ्चकौ गणौ ॥ ३ ॥  
 इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु ।  
 संयमे यत्नमातिष्ठेद्विद्वान् यन्तेव वाजिनाम् ॥ ४ ॥  
 इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमृच्छत्यसंशयम् ।  
 संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति ॥ ५ ॥  
 वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च ।  
 न विप्रभावदुष्टस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित् ॥ ६ ॥  
 वशे कृत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा ।  
 सर्वान् संसाधयेदर्थानाक्षिण्वन्योगतस्तनुम् ॥ ७ ॥  
 यमान् सेवेत सततं न नियमान् केवलान् बुधः ।  
 यमान् पतत्यकुर्वाणो नियमान् केवलान् भजन् ॥ ८ ॥  
 अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः ।  
 चत्वारि तस्य वर्द्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम् ॥ ९ ॥  
 अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मन्त्रदः ।  
 अज्ञं हि बालमित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम् ॥ १० ॥  
 न हायनैर्न पलितैर्न वित्तेन न बन्धुभिः ।  
 ऋषयश्चक्रिरे धर्मं योऽनुचानः स नो महान् ॥ ११ ॥  
 न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः ।  
 यो वै युवाप्यधीयानस्त्वं देवा स्थविरं विदुः ॥ १२ ॥

यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृगः ।  
 यथ विप्रोऽनधीयानस्त्रयस्ते नाम विभ्रति ॥ १३ ॥  
 संमानाद् ब्राह्मणो नित्यमुद्विजेत विपादिव ।  
 अमृतस्येव चाकाङ्क्षेदवमानस्य सर्वदा ॥ १४ ॥  
 वेदमेव सदाभ्यस्येत्तपस्तपस्यन् द्विजोत्तमः ।  
 वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते ॥ १५ ॥  
 योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम् ।  
 स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ १६ ॥  
 यथा खनन् खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति ।  
 तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुरधिगच्छति ॥ १७ ॥  
 भद्रधानः शुभां विद्यामाददीतावरादपि ।  
 अन्त्यादपि परं धर्मं स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि ॥ १८ ॥  
 विपादप्यमृतं ग्राह्यं बालादपि सुभाषितम् ।  
 विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः ॥ १९ ॥ मनु० ॥

अर्थः—कान, त्वचा, नेत्र, जीभ, नासिका, गुदा, उपस्थ  
 (मूत्र का मार्ग), हाथ, पग, वाणी ये दश (१०) इन्द्रिय इस  
 शरीर में हैं ॥ १ ॥ इसमें कर्ण आदि पांच ज्ञानेन्द्रिय और  
 गुदा आदि पांच कर्मेन्द्रिय कहाने हैं ॥ २ ॥ ग्यारहवां इन्द्रिय  
 मन है वह अपने स्मृति आदि गुणों से दोनों प्रकार के इन्द्रियों  
 से सम्बन्ध करता है कि जिस मन क जीतने में ज्ञानेन्द्रिय  
 तथा कर्मेन्द्रिय दोनों जीत लिये जाने हैं ॥ ३ ॥ जैसे सारथि  
 घोड़े को कुपथ में नहीं जाने देता वैसे विद्वान् ब्रह्मचारी आक-  
 र्षण करने वाले विषयों में जाते हुए इन्द्रियों के रोकने में सदा

अथ ल किया करे ॥ ४ ॥ ब्रह्मचारी इन्द्रियों के साथ मन लगाने से निःसन्देह दोषी होजाता है और उन पूर्वोक्त दश इन्द्रियों को वश में करके ही पश्चात् सिद्धि को प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ जिस का ब्राह्मणपन ( सम्मान नहीं चाहना वा इन्द्रियों को वश में रखना आदि ) विगड़ा वा जिसका विशेष प्रभाव ( वर्णाश्रम के गुण कर्म ) विगड़े हैं उस पुरुष के वेद पढ़ना, त्याग अर्थात् संन्यास लेना, यज्ञ ( अग्निहोत्रादि ) करना, नियम ( ब्रह्म-ध्याश्रम आदि ) करना, तप ( निन्दा, स्तुति और हानि, लाभ आदि द्वन्द्व का सहन ) करना आदि कर्म कदापि सिद्ध नहीं हो सकते इसलिये ब्रह्मचारी को चाहिये कि अपने नियम धर्मों को यथावत् पालन करके सिद्धि को प्राप्त होवे ॥ ६ ॥ ब्रह्मचारी पुरुष सब इन्द्रियों को वश में करे और आत्मा के साथ मन को संयुक्त करके योगाभ्यास से शरीर को किञ्चित् र पीड़ा देता हुआ अपने सब प्रयोजनों को सिद्ध करे ॥ ७ ॥ बुद्धिमान् ब्रह्मचारी को चाहिये कि यमों का सेवन नित्य करे केवल नियमों का नहीं क्योंकि यमों \* को न करता हुआ और केवल नियमों † का सेवन करता हुआ भी अपने कर्त्तव्य से पतित होजाता है इसलिये यमसेवनपूर्वक नियम-सेवन नित्य किया करे । अभिवादन करने का जिसका स्वभाव और विद्या वा

\* अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ॥

निर्वैरता, सत्य बोलना, चोरीत्याग, वीर्यरक्षण और विषयभोग में बृथा ये ५ यम हैं ॥

† शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥

शौच, सन्तोष, तप ( हानि लाभ आदि द्वन्द्व का सहना ), स्वाध्याय ( वेद का पढ़ना ), ईश्वरप्रणिधान ( सर्वस्व ईश्वरार्पण ) ये पांच नियम कहाते हैं ।

अवस्था में वृद्ध पुरुषों का जो नित्य सेवन करता है उसकी अवस्था, विद्या, कीर्ति और बल इन चारों की नित्य उन्नति हुआ करती है इसलिये ब्रह्मचारी को चाहिये कि आचार्य, माता, पिता, अतिथि, महात्मा आदि अपने बड़ों को नित्य नमस्कार और सेवन किया करे ॥ ६ ॥ अज्ञ अर्थात् जो कुछ नहीं पढ़ा, वह निश्चय करके बालक होता और जो मन्त्रज्ञ अर्थात् दूसरे को विचार देनेवाला विद्या पढ़ा विद्या विचार में निपुण है वह पितास्थानीय होता है क्योंकि जिस कारण सत्पुरुषों ने अज्ञ जन को बालक कहा और मन्त्रज्ञ को पिता ही कहा है इससे प्रथम ब्रह्मचर्याश्रम संपन्न होकर ज्ञानवान् विद्यावान् अवश्य होना चाहिये ॥ १० ॥ धर्मवेत्ता ऋषिजनों ने न वर्षों, न पके केशों वा भूलते हुए अङ्गों, न धन और न वन्धु-मनों से वदङ्गन माना किन्तु यही धर्म निश्चय किया कि जो हम लोगों में वादविवाद में उत्तर देनेवाला अर्थात् बह्ना हो वह बड़ा है इससे ब्रह्मचर्याश्रम संपन्न होकर विद्यावान् होना चाहिये जिससे कि संसार में वदङ्गन प्रतिष्ठा पावें और दूसरों को उत्तर देने में अति निपुण हों ॥ ११ ॥ उस कारण से वृद्ध नहीं होता कि जिससे इसका शिर भूल जाय, केश पक जावें किन्तु जो ज्वान भी पढ़ा हुआ विद्वान् है उसको विद्वानों ने वृद्ध जाना और माना है इससे ब्रह्मचर्याश्रम संपन्न होकर विद्या पढ़नी चाहिये ॥ १२ ॥ जैसे काठ का कठपुतला हाथी वा जैसे घमड़े का बनाया हुआ मृग हो वैसे विना पढ़ा हुआ विप्र अर्थात् ब्राह्मण वा बुद्धिमान् जन होता है उक्त वे हाथी मृग और विप्र तीनों नाममात्र धारण करते हैं इस कारण ब्रह्मचर्याश्रम संपन्न होकर विद्या पढ़नी चाहिये ॥ १३ ॥ ब्राह्मण विप्र के समान उत्तम मान से नित्य उदासीनता रखे और अमृत

के समान अपमान की आकांक्षा सर्वदा करे अर्थात् ब्रह्मचर्यादि आश्रमों के लिये भिक्षामात्र मांगते भी कभी मान की इच्छा न करे ॥ १४ ॥ द्विजोत्तम अर्थात् ब्राह्मणादिकों में उत्तम सज्जन पुरुष सर्वकाल तपश्चर्या करता हुआ वेद ही का अभ्यास करे जिस कारण ब्राह्मण वा बुद्धिमान् जन को वेदाभ्यास करना इस संसार में परमतप कहा है इससे ब्रह्मचर्याश्रम-संपन्न होकर अवश्य वेदविद्याध्ययन करे ॥ १५ ॥ जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वेद को न पढ़कर अन्य शास्त्र में श्रम करता है वह जीवता ही अपने वंश के सहित शूद्रपन को प्राप्त हो जाता है इससे ब्रह्मचर्याश्रम-संपन्न होकर वेदविद्या अवश्य पढ़े ॥ १६ ॥ जैसे फावड़ा से खोदता हुआ मनुष्य जल को प्राप्त होता है वैसे गुरु की सेवा करनेवाला पुरुष गुरुजनों ने जो पाई हुई विद्या है उसको प्राप्त होता है इस कारण ब्रह्मचर्याश्रम-संपन्न होकर गुरुजन की सेवा कर उनसे सुने और वेद पढ़े ॥ १७ ॥ उत्तम विद्या की श्रद्धा करता हुआ पुरुष अपने से न्यून से भी विद्या पावे तो ग्रहण करे। नीच जाति से भी उत्तम धर्म का ग्रहण करे और निन्द्य कुल से भी स्त्रियों में उत्तम स्त्रीजन का ग्रहण करे, यह नीति है, इससे गृहस्थाश्रम से पूर्व २ ब्रह्मचर्याश्रम-संपन्न होकर कहीं से न कहीं से उत्तम विद्या पढ़े, उत्तम धर्म सीखे और ब्रह्मचर्य के अनन्तर गृहाश्रम में उत्तम स्त्री से विवाह करे क्योंकि ॥ १८ ॥ विष से भी अमृत का ग्रहण करना, बालक से भी उत्तम वचन को लेना और नाना प्रकार के शिल्प काम सब से अच्छे प्रकार ग्रहण करने चाहियें इस कारण ब्रह्मचर्याश्रम-संपन्न होकर देश २ पर्यटन कर उत्तम गुण सीखे ॥ १९ ॥

यान्यनवद्यानि कर्माणि । तानि सेवितव्यानि । नो  
इतराणि । यान्यस्माकथं सुचरितानि । तानि त्वयोपा-

स्यानि । नो इतराणि । एके चास्मच्छ्रेयाऽसौ ब्राह्मणाः ।  
 तेषां त्वयाऽऽसनेन प्रथसितव्यम् ॥ तैत्तिरीयारण्य० प्रपा०  
 ७ । अनु० ११ ॥

श्रुतं तपः सत्यं तपः श्रुतं तपः शान्तं तपो दमस्तप-  
 रशमस्तपो दानं तपो यज्ञस्तपो ब्रह्मभूर्भुवः सुवर्ब्रह्मैतदुपा-  
 खैतत्तपः ॥ २ ॥ तैत्तिरीयारण्य० प्रपा० १० । अनु० ८ ॥

अर्थः—हे शिष्य ! जो अनिन्दित पापरहित अर्थात् अन्याय  
 अधर्माचरण रहित न्यायधर्माचरण सहित कर्म हैं उन्हीं का  
 लेवन तू किया करना इनसे विरुद्ध अधर्माचरण कभी मत  
 करना । हे शिष्य ! जो तेरे माता पिता आचार्य आदि हम लोगों  
 के अन्धे धर्मयुक्त उत्तम कर्म हैं उन्हीं का आचरण तू कर  
 और जो हमारे दुष्ट कर्म हों उनका आचरण कभी मत कर ।  
 हे ब्रह्मचारिन् ! जो हमारे मध्य में धर्मात्मा श्रेष्ठ ब्रह्मवित् वि-  
 द्वान् हैं उन्हीं के समीप बैठना संग करना और उन्हीं का  
 विश्वास किया कर ॥ १ ॥ हे शिष्य ! यथार्थ का ग्रहण, सत्य  
 मानना, सत्य बोलना, वेदादि सत्य शास्त्रों का सुनना, अपने  
 मन को अधर्माचरण में न जाने देना, श्रोत्रादि इन्द्रियों को  
 दुष्टाचार से रोक श्रेष्ठाचार में लगाना, क्रोधादि के त्याग से  
 शान्त रहना, विद्या आदि शुभ गुणों का दान करना, अग्नि-  
 होत्रादि और विद्वानों का सङ्ग करना जितने भूमि अन्तरिक्ष  
 और सूर्यादि लोकों में पदार्थ हैं उनका यथाशक्ति ज्ञान करना  
 और योगाभ्यास, प्राणायाम, एक ब्रह्म परमात्मा की उपासना  
 करना, ये सब कर्म करना ही तप कहाता है ॥ २ ॥

श्रुतञ्च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यञ्च स्वाध्यायप्रव-  
 चने च । तपश्च स्वाध्या० । दमश्च स्वाध्या० । शमश्च

स्वाध्या० । अग्नयश्च स्वाध्या० । अग्निहोत्रं च स्वाध्या० ।

सत्यमिति सत्यवचा राथीतरः । तप इति तपोनित्यः

पौरुशिष्टिः । स्वाध्यायप्रवचने एवेति नाकोमौद्गल्यः ।

षड्दि तपस्तद्धि तपः ॥ ३ ॥ तैत्तिरी० प्रपा० ७ । अनु० ६ ॥

अर्थ - हे ब्रह्मचारिन् ! तू सत्य धारण कर, पढ़ और पढ़ाया कर । सत्योपदेश करना कभी मत छोड़, सदा सत्य पौल, पढ़ और पढ़ाया कर । हर्ष शोकादि छोड़, प्राणायाम योगाभ्यास कर तथा पढ़ और पढ़ाया भी कर । अपनी इन्द्रियों को बुरे कामों से हटा, अच्छे कामों में चला, विद्या को ग्रहण कर और कराया कर । अपने अन्तःकरण और आत्मा को अन्यायाचरण से हटा, न्यायाचरण में प्रवृत्त कर और कराया कर, तथा पढ़ और सदा पढ़ाया कर । अग्निविद्या के सेवन-पूर्वक विद्या को पढ़ और पढ़ाया कर । अग्निहोत्र करता हुआ पढ़ और पढ़ाया कर, सत्यवादी होना तप (है) (यह) सत्यवचा, राथीतर आचार्य (का), न्यायाचरण में कष्ट सहना तप (है) (यह) तपोनित्य, पौरुशिष्टि आचार्य (का), और धर्म में चल के पढ़ना पढ़ाना और सत्योपदेश करना ही तप है यह नाकोमौद्गल्य आचार्य का मत है और सब आचार्यों के मत में यही पूर्वोक्त तप [यही पूर्वोक्त तप] है ऐसा तू जान ॥ ३ ॥ इत्यादि उपदेश तीन दिन के भीतर आचार्य वा बालक का पिता करे ।

तत्पश्चात् घर को छोड़ गुरुकुल में जावें । यदि पुत्र हो तो पुरुषों की पाठशाला और कन्या हो तो स्त्रियों की पाठशाला में भेजें यदि घर में वर्णोच्चारण की शिक्षा यथावत् न हुई हो तो आचार्य बालकों को और कन्याओं को स्त्री, पाणिनिमुनि-कृत वर्णोच्चारणशिक्षा १ ( एक ) महीने के भीतर पढ़ा दें ।



पुनः पाणिनिमुनिकृत अष्टाध्यायी का पाठ पदच्छेद अर्थसहित ८ ( आठ ) महीने में अथवा १ ( एक ) वर्ष में पढ़ाकर, धातु-पाठ और दश लकारों के रूप सवधाना तथा दश प्रक्रिया भी सवधानी पुनः पाणिनिमुनिकृत लिङ्गानुशासन और उणादि, गणपाठ तथा अष्टाध्यायीस्थ एबुल् और टच् प्रत्ययाद्यन्त सुबन्तरूप ६ ( छः ) महीने के भीतर सवधा देवें । पुनः दूसरी बार अष्टाध्यायी पदार्थोक्ति, समास, शंकासमाधान, उत्सर्ग, अपवाद \* अन्वयपूर्वक पढ़ावें और संस्कृतभाषण का भी अभ्यास कराते जायें, ८ महीने के भीतर इतना पढ़ना पढ़ाना चाहिये ॥

तत्पश्चात् पतंजलिमुनिकृत महाभाष्य, जिस में चर्णोच्चारण-शिक्षा, अष्टाध्यायी, धातुपाठ, गणपाठ, उणादिगण, लिङ्गानुशासन, इन ६ ( छः ) ग्रन्थों की व्याख्या यथावत् लिखी है डेढ़ वर्ष में अर्थात् १८ ( अठारह ) महीने में इसको पढ़ना पढ़ाना । इस प्रकार शिक्षा और व्याकरण शास्त्र को ३ ( तीन ) वर्ष ५ ( पांच ) महीने वां नौ महीने अथवा ४ ( चार ) वर्ष के भीतर पूरा कर सब संस्कृतविद्या के मर्मस्थलों को समझने के योग्य होवे । तत्पश्चात् यास्कमुनिकृत निघण्टु, निरुक्त तथा कात्यायनादि मुनिकृत कोश १॥ ( डेढ़ ) वर्ष के भीतर पढ़ के, अब्ययार्थ, आप्तमुनिकृत वाच्यवाचकसम्बन्धरूप † यौगिक योगरूढि और रूढि तीन प्रकार के शब्दों के अर्थ यथावत् जानें । तत्पश्चात् पिंगलाचार्यकृत पिंगलसूत्र छन्दोग्रन्थ भाष्यसहित ३

\* जिस सूत्र का अधिक विषय हो वह उत्सर्ग और जो किसी सूत्र के बड़े विषय में से थोड़े विषय में प्रवृत्त हो वह अपवाद कहाता है ॥

† यौगिक-जो क्रिया के साथ सम्बन्ध रखे, जैसे-पाचक याजकादि । योगरूढि, जैसे-पङ्कजादि । रूढि, जैसे-धन, वन इत्यादि ॥

(तीन) महीने में पढ़ और ३ (तीन) महीने में श्लोकादिर-  
चनविद्या को सीखे । पुनः यास्कमुनिकृत काव्यालंकारसूत्र  
वात्स्यायनमुनिकृत भाष्यसहित, आकाङ्क्षा, योग्यता, आसत्ति  
और तात्पर्यार्थ, अन्वयसहित पढ़ के इसी के साथ मनुस्मृति,  
विदुरनीति और किसी प्रकरण में के १० सर्ग वाल्मीकीय  
रामायण के ये सब १ (एक) वर्ष के भीतर पढ़ें और पढ़ावें ।  
तथा १ (एक) वर्ष में सूर्यसिद्धान्तादि में से कोई १ (एक)  
सिद्धान्त से गणितविद्या जिसमें बीजगणित, रेखागणित और  
पाटीगणित जिसको अङ्कगणित भी कहते हैं पढ़ें और पढ़ावें ।  
निघण्टु से ले के ज्योतिष पर्यन्त वेदांगों को चार वर्ष के भीतर  
पढ़ें । तत्पश्चात् जैमिनिमुनिकृत सूत्र पूर्वमीमांसा को व्यासमु-  
निकृत व्याख्यासहित, कणादमुनिकृत वैशेषिकसूत्ररूप शास्त्र  
को गोतममुनिकृत प्रशस्तपादभाष्यसहित, वात्स्यायनमुनिकृत  
भाष्यसहित गोतममुनिकृत सूत्ररूप न्यायशास्त्र, व्यासमुनिकृत  
भाष्यसहित पतञ्जलिमुनिकृत योगसूत्र योगशास्त्र, भागुरिमुनि-  
कृत भाष्ययुक्त कपिलाचार्यकृत सूत्रस्वरूप सांख्यशास्त्र, जैमिनि  
षा बौद्धायन आदि मुनिकृत व्याख्यासहित व्यासमुनिकृत शा-  
रीरिकसूत्र तथा ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐ-  
तरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य और बृहदारण्यक १० (दश) उप-  
निषद् [ व्यासादिमुनिकृत व्याख्यासहित वेदान्तशास्त्र ] इन ६  
(छः) शास्त्रों को २ (दो) वर्ष के भीतर पढ़ लेवें । तत्पश्चात्  
बह्वृच, ऐतरेय, ऋग्वेद का ब्राह्मण, आश्वलायनकृत श्रौत  
तथा गृह्यसूत्र \* और कल्पसूत्र पदक्रम और व्याकरणादि के  
सहाय से छन्दः, स्वर, पदार्थ, अन्वय, भावार्थ सहित ऋग्वेद  
का पठन ३ वर्ष के भीतर करे, इसी प्रकार यजुर्वेद को शत

\* जो ब्राह्मण वा सूत्र वेदविरुद्ध हिंसापरक हो उसका प्रमाण न करना ।।

पथब्राह्मण और पदादि के सहित २ (दो) वर्ष, तथा सामब्राह्मण और पदादि तथा गानसहित सामवेद को २ (दो) वर्ष, तथा गोपथब्राह्मण और पदादि के सहित अथर्ववेद २ (दो) वर्ष के भीतर पढ़ें और पढ़ावें। सब मिल के ६ (नौ) वर्षों के भीतर ४ (चारों) वेदों को पढ़ना और पढ़ाना चाहिये। पुनः ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद जिसको वैद्यकशास्त्र कहते हैं, जिस में धन्वन्तरिजीकृत सुश्रुत और निघण्टु तथा पतञ्जलि ऋषिभूत चरक आदि आर्षग्रन्थ हैं, इनको ३ (तीन) वर्ष के भीतर पढ़ें। जैसे सुश्रुत में शस्त्र लिखे हैं बनाकर शरीर के सब अवयवों को चीर के देखें, तथा जो उसमें शारीरिकादि विद्या लिखी हैं साक्षात् करें।

तत्पश्चात् यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद जिसको शस्त्रास्त्र विद्या कहते हैं जिसमें अक्षिरा आदि ऋषिकृत ग्रन्थ हैं, जो इस समय बहुधा नहीं मिलते ३ (तीन) वर्ष में पढ़ें और पढ़ावें। पुनः सामवेद का उपवेद गान्यर्वेद, जिसमें नारदसंहितादि ग्रन्थ हैं, उनको पढ़ के स्वर, राग, रागिणी, समय, वादित्र, म्राम, ताल, सूच्छेदना आदि का अभ्यास यथावत् ३ (तीन) वर्ष के भीतर करें।

तत्पश्चात् अथर्ववेद का उपवेद अथर्ववेद जिसको शिल्पशास्त्र कहते हैं, जिसमें विश्वकर्मा त्वष्टा और मयकृत संहिता ग्रन्थ हैं, उनको ६ (छः) वर्ष के भीतर पढ़ के विमान, तार, भृगुर्मादि विद्याओं को साक्षात् करें। ये शिक्षा से ले के आयुर्वेद तक १४ (चौदह) विद्याओं को ३१ (इकतीस) वर्षों में पढ़ के महाविद्वान् होकर अपने और सब जगत् के कल्याण और उन्नति करने में सदा प्रयत्न किया करें ॥

इति वेदारम्भसंस्कारविधिः समाप्तः ॥

अथ समावर्त्तनसंस्कारविधिं वक्ष्यामः ॥

समावर्त्तनसंस्कार उसको कहते हैं कि जो ब्रह्मचर्यव्रत, साङ्गोपाङ्ग वेदविद्या, उत्तमशिक्षा और पदार्थविज्ञान को पूर्ण रीति से प्राप्त होके विवाहविधानपूर्वक गृहाश्रम को ग्रहण करने के लिये विद्यालय छोड़ के घर की ओर आना । इसमें प्रमाणः—

वेदसमाप्तिं वाचयीत \* । कल्याणैः सह सम्प्रयोगः † ।

स्नातकायोपस्थिताय । राज्ञे च । आचार्यश्वशुरापितृव्यमातु-  
लानां च दधानि मध्वानीय । सर्पिर्वा मध्वलाभे । विष्टरः  
पाद्यमर्घ्यमाचमनीयं मधुपर्कः ‡ ॥ यह आश्वलायनगृह्यसूत्र ।

तथा पारस्करगृह्यसूत्रः—

वेदश्च समाप्य स्नायाद् । ब्रह्मचर्यं वाष्टचत्वारिंशश्चकम् ॥

त्रय एव स्नातका भवन्ति । विद्यास्नातको व्रतस्नातको विद्या-  
व्रतस्नातकश्चेति § ॥

जब वेदों की समाप्ति हो तब समावर्त्तनसंस्कार करे । सदा  
पुरयात्मा पुरुषों के सब व्यवहारों में साभा रक्खे । राजा आ-  
चार्य श्वशुर चाचा और मामा आदि का अपूर्वागमन जब हो  
और स्नातक अर्थात् जब विद्या और ब्रह्मचर्य पूर्ण करके  
ब्रह्मचारी घर को आवे तब प्रथम ( पाद्यम् ) पग धोने का  
जल ( अर्घ्यम् ) मुखप्रक्षालन के लिये जल और आचमन के

\* अ० १ । कण्डि० २२ । सू० १६ ॥

† अ० १ । कण्डि० २३ । सू० २० ॥

‡ अ० १ । कण्डि० २४ । सू० २-७ ॥

§ कां० २ । कण्डि० ६ । सू० १, २ ॥

§ कां० २ । कण्डि० ५ । सू० ३२ ॥

लिये जल देके शुभासन पर बैठा दही में मधु अथवा सहत न मिले तो घी मिलाके एक अच्छे पात्र में धर इनको मधुपर्क देना होता है और विद्यास्नातक, व्रतस्नातक तथा विद्याव्रत-स्नातक ये तीन \* प्रकार के स्नातक होते हैं इस कारण वेद की समाप्ति और ४८ ( अड़तालीस ) वर्ष का ब्रह्मचर्य समाप्त करके ब्रह्मचारी विद्याव्रतस्नान करे ॥

तानि कल्पद् ब्रह्मचारी सल्लिलस्य पृष्ठे तपोऽतिष्ठस्य-  
मानः समुद्रे । स स्नातो बभ्रुः पिङ्गलः पृथिव्यां बहु रोचते ॥  
अथर्व० कां० ११ । प्रपां० २४ । व० १६ । मं० २६ ॥

अर्थः—जो ब्रह्मचारी समुद्र के समान गम्भीर बड़े उत्तम व्रत ब्रह्मचर्य में निवास कर महातप को करता हुआ वेदपठन धीर्यनिग्रह आचार्य के प्रियाचरणादि कर्मों को पूरा कर पश्चात् पृ० १२४-१२५ में लिखे अनुसार स्नानविधि करके पूर्ण विद्याओं को धरता सुन्दर वर्णयुक्त होके पृथिवी में अनेक शुभ गुण, कर्म और स्वभाव से प्रकाशमान होता है वही धन्यवाद के योग्य है ॥

इसका समय—पृ० १०५-११० तक में लिखे प्रमाणे जानना । परन्तु जब विद्या, हस्तक्रिया, ब्रह्मचर्य व्रत भी पूरा होवे तभी गृहाश्रम की इच्छा ली और पुरुष करें । विवाह के स्थान दो हैं एक आचार्य का घर, दूसरा अपना घर । दोनों ठिकानों में

\* जो केवल विद्या को समाप्त तथा ब्रह्मचर्य व्रत को न समाप्त करके स्नान करता है वह विद्यास्नातक, जो ब्रह्मचर्य व्रत को समाप्त तथा विद्या को न समाप्त करके स्नान करता है वह व्रतस्नातक और जो विद्या तथा ब्रह्मचर्य व्रत दोनों को समाप्त करके स्नान करता है वह विद्याव्रत-स्नातक कहाता है ॥

से किसी एक ठिकाने आगे विवाह में लिखे प्रमाणे सब विधि करे। इस संस्कार का विधि पूरा करके पश्चात् विवाह करे।

विधि:—जो शुभ दिन समावर्तन का नियत करे उस दिन आचार्य के घर में पृ० १७-१८ में लिखे यज्ञकुरण्ड आदि बना के सब शाकल्य और सामग्री संस्कार दिन से पूर्व दिन में जोड़ रखे और स्थालीपाक \* बना के तथा घृतादि और पात्रादि षडशाला में वेदी के समीप रखे पुनः पृ० २३ में लिखे० यथा-  
 षत् ४ ( चारों ) दिशाओं में आसन विछा बैठ पृ० ५ ( पांच ) से पृ० १६ तक में ईश्वरोपासना, स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण करे और जितने वहां पुरुष आये हों वे भी एकाग्रचित्त होके ईश्वर के ध्यान में मग्न होवें तत्पश्चात् पृ० २५ में अग्न्य-  
 धान समिदाधान करके पृ० २७ में वेदी के चारों ओर उदक-  
 स्नेचन करके आसन पर पूर्वाभिमुख आचार्य बैठ के पृ० २७ में आधारावाज्यभागाहुति ४ ( चार ) और पृ० २८ में व्याहृति आहुति ४ ( चार ) और पृ० २९-३० में अष्टाज्याहुति ८ ( आठ ) और पृ० २८ में० स्विष्टकृत् आहुति १ ( एक ) और प्राजापत्याहुति १ ( एक ) ये सब मिलके ( अठारह ) अज्या-  
 हुति देनी तत्पश्चात् ब्रह्मचारी पृ० ६३ में० ( ओं अग्ने सुभ्रवः० ) इस मन्त्र से कुरण्ड का अग्निकुरण्ड के मध्य में इकट्ठा करे तत्पश्चात् पृ० ६३-६४ में० ( ओं अग्नये समिध० ) इस मन्त्र से कुरण्ड में ३ ( तीन ) समिधा होम कर पृ० ६४ में० ( ओं० तनूपा० ) इत्यादि ७ ( सात ) मन्त्रों से दक्षिण हस्ताब्जलि आगी पर थोड़ीसी तपा उस जल से मुखस्पर्श और तत्पश्चात् पृ० २४ में० ( ओं वाडम० ) इत्यादि मन्त्रों से उक्त प्रमाणे अङ्गस्पर्श कर पुनः सुगन्धादि औषधयुक्त जल से भरे हुए

\* जो कि पूर्व पृ० १६ में लिखे प्रमाणे भात आदि बनाकर रक्खा—

८ ( आठ ) घड़े वेदी के उत्तरभाग में जो पूर्व से रखे हुए हों उनमें से:—

ओं ये अप्स्वन्तरग्नयः प्रविष्टा गोह्य उपगोह्यो मयूषो  
मनोहास्वलो विरुजस्तनूदपुरिन्द्रियहा तान् विजहामि यो  
रोचनस्तामिह गृह्णामि ॥ पार० कां० २ । कं० ६ । सू० १० ॥

इस मन्त्र को पढ़, एक घड़े को ग्रहण करके उस घड़े में से जल ले के:—

ओं तेन मामभिसिञ्चामि श्रियै यशसे ब्रह्मणे ब्रह्मव-  
र्षसाय ॥ पार० कां० २ । कं० ६ । सू० ११ ॥

इस मन्त्र को बोल के स्नान करना तत्पश्चात् उपरिकथित ( ओं ये अप्स्वन्तर० ) इस मन्त्र को बोल के दूसरे घड़े को ले उसमें से लोटे में जल ले के:—

ओं येन श्रियमकृणुतां येनावृशताः सुरान् । येना-  
द्यावभ्यपिञ्चतां यद्वा तदधिना यशः ॥ पार० कां० २ ।  
कं० ६ । सू० १२ ॥

इस मन्त्र को बोल के स्नान करना तत्पश्चात् पूर्ववत् ऊपर के ( ओं ये अप्स्वन्तर० ) इसी मन्त्र का पाठ बोल के वेदी के उत्तर में रखे घड़ों में से ३ ( तीन ) घड़ों को ले के पृ० ८७ में लिखे हुए ( आपो हि घ्रा० ) इन ३ ( तीन ) मन्त्रों को बोल के उन घड़ों के जल से स्नान करना, तत्पश्चात् ८ ( आठ ) घड़ों में से रहे हुए ३ ( तीन ) घड़ों को ले के ( ओं आपो हि घ्रा० ) इन्हीं ३ ( तीन ) मन्त्रों को मन में बोल के स्नान करे पुनः—

ओं उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाध्रमं विमध्यमथं अ-

वाय । अथा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम ॥

ऋ० मं० १ । सू० २४ ॥

इस मन्त्र को बोल के ब्रह्मचारी अपनी मेखला और दण्ड को छोड़े तत्पश्चात् वह स्नातक ब्रह्मचारी सूर्य के सम्मुख खड़ा रह कर:—

ओं उद्यन् आजभृष्णुरिन्द्रो मरुद्भिरस्थात् प्रातर्याव-  
भिरस्थाद्दशसनिरसि दशसनिं मा कुर्वाविदन् मा गमय ।  
उद्यन् आजभृष्णुरिन्द्रो मरुद्भिरस्थाद्दिवायावभिरस्थाच्छत-  
सनिरसि शतसनिं मा कुर्वाविदन् मा गमय । उद्यन् आज-  
भृष्णुरिन्द्रो मरुद्भिरस्थात् सायंयावभिरस्थात् सहस्रसनिरसि  
सहस्रसनिं मा कुर्वाविदन् मा गमय ॥ पार० कां० २ । कं० ६ ॥

इस मन्त्र से परमात्मा का उपस्थान स्तुति करके तत्प-  
श्चात् दही वां तिल प्राशन करके जेठ्रा लोम और नख चपन  
अर्थात् छेदन करा के:—

ओं अन्नाद्याय व्यूहध्वं सोमो राजाऽयमागमत् । स मे  
मुखं प्रमार्च्यते यशसा च भगनं च ॥ पार० कां० २ । कं० ६ ॥

इस मन्त्र को बोल के ब्रह्मचारी उदुस्वर की लकड़ी से  
दन्तधावन करे । तत्पश्चात् सुगन्धित द्रव्य शरीर पर मल के  
शुद्ध जल से स्नान कर शरीर को पोंछे अथोवस्त्र अर्थात् धोती  
वा पीताम्बर धारण करके सुगन्धयुक्त चन्दनादि का अनु-  
लेपन करे तत्पश्चात् चक्षु मुख नासिका के छिद्रों का:—

ओं प्राणापानौ मे तर्पय चक्षुर्मे तर्पय श्रोत्रं मे तर्पय ।  
पार० कां० २ । कं० ६ ॥



इस मन्त्र से स्पर्श करके हाथ में जल ले, अपसव्य और दक्षिणमुख होके ।

ओं पितरः शुन्धध्वम् ॥ पार० कां० २ । कं० ६ ॥

इस मन्त्र से जल भूमि पर छोड़ के सव्य होके:—

ओं सुचक्षा अहमक्षीभ्यां भूयासथ सुवर्चा मुखेन ।  
सुश्रुत्कर्णाभ्यां भूयासम् ॥ पार० कां० २ । कं० ६ ॥

इस मन्त्र का जप करके:—

ओं परिधास्यै यशोधास्यै दीर्घायुत्वाय जरदष्टिरस्मि ।  
शतं च जीवामि शरदः पुरुची रायस्पोषमभिसंव्ययिष्ये ॥  
पा० कां० २ । कं० ६ ॥

इस मन्त्र से सुन्दर अतिश्रेष्ठ वस्त्र धारण करके:—

ओं यशसा मा द्यावापृथिवी यशसेन्द्रावृहस्पती । यशो  
मगश्च माविन्दद्यशो मा प्रतिपद्यताम् ॥ पार० कां० २ ।  
कं० ६ ॥

इस मन्त्र से उत्तम उपवस्त्र धारण करके:—

ओं या आहरज्जमदग्निः श्रद्धायै मेघायै कामावे-  
न्द्रियाय । ता अहं प्रतिगृह्णामि यशसा च भगेन च ॥  
पार० कां० २ । कं० ६ ॥

इस मन्त्र से सुगन्धित पुष्पों की माला लेके:—

ओं यद्यशोऽप्सरसामिन्द्रश्चकार विपुलं पृथु । तेन स-  
प्रयिताः सुमनस आवध्नामि यशो मायि ॥ पार० कां० २ ।  
कं० ६ ॥

इस मन्त्र से धारण करनी, पुनः शिरोवेष्टन अर्थात् पगड़ी  
 डुपट्टा और टोपी आदि अथवा मुकुट हाथ में लेके पृष्ठ ८६ में  
 लि० (युवा सुवासाः०) इस मन्त्र से धारण करे उसके पश्चात्  
 अलङ्कार ले के:—

ओं अलङ्करणमसि भूयोऽलङ्करणं भूयात् ॥ पार०  
 कां० २ । कं० ६ ॥

इस मन्त्र से धारण करे और:—

ओं वृत्रस्यासि कनीनकश्चक्षुर्दा असि चक्षुर्मै देहि ॥  
 यजु० अ० ४ । मं० ३ ॥

इस मन्त्र से आंख में अंजन करना । तत्पश्चात्:—

ओं रोचिष्णुरसि ॥ पार० कां० २ । कं० ६ ॥

इस मन्त्र से दर्पण में मुख अवलोकन करे । तत्पश्चात्—

ओं बृहस्पतेश्छदिरसि पाप्मनो मामन्तर्धेहि तेजसो  
 यशसो मामन्तर्धेहि ॥ पार० कां० २ । कं० ६ ॥

इस मन्त्र से छत्र धारण करे पुनः—

ओं प्रतिष्ठे स्थो विश्वतो मा पातम् ॥ पार० कां० २ ।  
 कं० ६ ॥

इस मन्त्र से उपानह् पादवेष्टन पगरखा और जिसको जोड़ा  
 भी कहते हैं धारण करे, तत्पश्चात्:—

ओं विश्वाभ्यो मा नाष्ट्राभ्यस्परिपाहि सर्वतः ॥ पार०  
 कां० २ । कं० ६ ॥

इस मन्त्र से वांस आदि की एक सुन्दर लकड़ी हाथ में धारण करनी, तत्पश्चात् ब्रह्मचारी के माता पिता आदि जब वह आचार्यकुल से अपना पुत्र घर को आवे उसको बड़े मान प्रतिष्ठा उत्सव उत्साह से अपने घर पर ले आवें, घर पर जाके उनके पिता माता सम्बन्धी बन्धु आदि ब्रह्मचारी का सत्कार पृष्ठ १२१-१२२ में लिखे प्र० करें पुनः संस्कार में आये हुए आचार्य आदि को उत्तम अन्नपानादि से सत्कारपूर्वक भोजन कराके और वह ब्रह्मचारी और उसके माता पितादि आचार्य को उत्तम आसन पर बैठा पूर्वोक्त प्रकार मधुपर्क कर सुन्दर पुष्पमाला वस्त्र गोदान धन आदि की दक्षिणा यथाशक्ति देके सब के सामने आचार्य के जो कि उत्तम गुण हों उनकी प्रशंसा कर और विद्यादान की कृतज्ञता सब को सुनावे।

मुनो भद्रंजनों! इन् महाशय आचार्य ने मेरे पर बड़ा उपकार किया है जिसने मुझको पशुता से छुड़ा उत्तम विद्वान् बनाया है उसका प्रत्युपकार मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसके बदले में अपने आचार्य को अनेक धन्यवाद दे नमस्कार कर प्रार्थना करता हूँ कि जैसे आपने मुझ को उत्तम शिक्षा और विद्यादान दे के कृतकृत्य किया उसी प्रकार अन्य विद्यार्थियों को भी कृतकृत्य करेंगे और (जैसे आपने मुझको) विद्या दे के आनन्दित किया है वैसे मैं भी अन्य विद्यार्थियों को कृतकृत्य और आनन्दित करता रहूँगा और आप के किये उपकार को कभी न भूलूँगा सर्वशक्तिमान् जगदीश्वर आप मुझ और सब पढ़ने पढ़ानेहारें तथा सब संसार पर अपनी कृपादृष्टि से सब को सम्य, विद्वान्, शरीर और आत्मा के बल से युक्त और परोपकारादि शुभ कर्मों की सिद्धि करने कराने में चिरायु स्वस्थ पुरुषार्थी उत्साही करे कि जिससे इस परमात्मा की सृष्टि

में उसके गुण, कर्म, स्वभाव के अनुकूल अपने गुण, कर्म, स्वभावों को करके धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि कर करके सदा आनन्द में रहें ॥

इति समावर्चनसंस्कारविधिः समाप्तः ॥



### अथ विवाहसंस्कारविधिं वक्ष्यामः

विवाह उसको कहते हैं कि जो पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत विद्या बल को प्राप्त तथा सब प्रकार से शुभ गुण, कर्म, स्वभावों में तुल्य परस्पर प्रीतियुक्त हो के निम्नलिखित प्रमाणे सन्तानोत्पत्ति और अपने २ वर्णाश्रम के अनुकूल उत्तम कर्म करने के लिये स्त्री और पुरुष का सम्बन्ध होता है। इसमें प्रमाणः—

उद्गयन आपूर्यमाणपक्षे पुण्ये नक्षत्रे \* चौलकर्मो  
पनयनगोदानविवाहाः ॥ १ ॥ सार्वकालमेके विवाहम् ॥ २ ॥

यह आश्वलायन गृह्यसूत्र और—

आवसथ्याधानं दारकाले ॥ ३ ॥

इत्यादि पारस्कर और—

पुण्ये नक्षत्रे दारान् कुर्वीत ॥ ४ ॥ लक्षणप्रशस्तान्

कुसलेन ॥ ५ ॥

इत्यादि गौभिलीय गृह्यसूत्र और इसी प्रकार शौनकगृह्यसूत्र में भी है ॥

अर्थः—उत्तरायण शुक्लपक्ष अच्छे दिन अर्थात् जिस दिन प्रसन्नता हो उस दिन विवाह करना चाहिये ॥ १ ॥ और कितने ही आचार्यों का ऐसा मत है कि सब काल में विवाह करना

\* यह नक्षत्रादि का विचार कल्पनायुक्त है इससे प्रमाण नहीं।

चाहिये ॥ २ ॥ जिस अग्नि का स्थापन विवाह में होता है उसका आवश्यक नाम है ॥ ३ ॥ प्रसन्नता के दिन स्त्री का पाणिग्रहण, जो कि स्त्री सर्वथा शुभ मुखादि से उत्तम हो, करना चाहिये ॥ ४।५ ॥

इस का समय:—पृष्ठ ६७-१०२ तक में जानना चाहिये वर और वर की आयु, कुल, वास्तव्यस्थान, शरीर और स्वभाव की परीक्षा अवश्य करें, अर्थात् दोनों सज्ञान और विवाह की रज्जा करनेवाले हों। स्त्री की आयु से वर की आयु न्यून से न्यून छोड़ी और अधिक से अधिक दूनी होवे। परस्पर कुल की परीक्षा भी करनी चाहिये। इस में प्रमाण:—

वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम् ।

अविष्णुतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममाविशेत् ॥ १ ॥

गुरुणानुमतः स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि ।

उद्धहेत द्विजो भार्या सवर्णा लक्षणांविताम् ॥ २ ॥

असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः ।

सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने ॥ ३ ॥

महान्त्यपि समृद्धानि गोऽजाविधनधान्यतः ।

स्त्रीसम्बन्धे दर्शतानि कुलानि परिवर्जयेत् ॥ ४ ॥

हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्छन्दो रोमशार्शसम् ।

क्षय्यामय्याव्यपस्मारिश्चित्रिकुष्ठिकुलानि च ॥ ५ ॥

नोद्धहेत् कपिलां कन्यां नाधिकार्द्धीं न रोगिणीम् ।

नालोमिकां नाविलोमां न वाचाटां न पिङ्गलाम् ॥ ६ ॥

नर्षवृक्षनदीनाम्नीं नान्त्यपर्वतनामिकाम् ।

न पद्मदिग्प्रैष्यनाम्नीं न च मीषणनामिकाम् ॥ ७ ॥

अव्यङ्गाङ्गीं सौम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम् ।

तनुलोमकेशदशनां मृदङ्गीमुद्बहेत् स्त्रियम् ॥ ८ ॥

ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः ।

गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥ ९ ॥

आच्छाद्य चार्चयित्वा च श्रुतिशीलवते स्वयम् ।

आहूय दानं कन्याया ब्राह्मो धर्मः प्रकीर्तितः ॥ १० ॥

यज्ञे तु वितते सम्यगृत्विजे कर्म कुर्वते ।

अलङ्कृत्य सुतादानं दैवं धर्मं प्रचक्षते ॥ ११ ॥

एकं गोमिथुनं द्वे वा वरादादाय धर्मतः ।

कन्याप्रदानं विधिवदार्षो धर्मः स उच्यते ॥ १२ ॥

सह नौ चरतां धर्ममिति वाचानुभाष्य च ।

कन्याप्रदानमभ्यर्च्य प्राजापत्यो विधिः स्मृतः ॥ १३ ॥

ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्त्वा कन्यायै चैव शक्तिः ।

कन्याप्रदानं विधिवदासुरो धर्म उच्यते ॥ १४ ॥

इच्छयाऽन्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च ।

गान्धर्वः स तु विज्ञेयो मैथुन्यः कामसम्भवः ॥ १५ ॥

हत्वा छित्त्वा च मित्त्वा च क्रोशन्तीं रुदतीं गृहात् ।

प्रसह्य कन्याहरणं राक्षसो विधिरुच्यते ॥ १६ ॥

सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति ।

स पापिष्ठो विवाहानां पैशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥ १७ ॥

ब्राह्मादिषु विवाहेषु चतुर्ष्वेवानुपूर्वशः ।

ब्रह्मवर्चस्विनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसंमताः ॥ १८ ॥

रूपसत्त्वगुणोपेता धनवन्तो यशस्विनः ।

पर्याप्तभोगा धर्मिष्ठा जीवन्ति च शतं समाः ॥ १६ ॥

इतरेषु तु शिष्टेषु नृशंसानृतवादिनः ।

जायन्ते दुर्निवाहेषु ब्रह्मधर्मद्विषः सुताः ॥ २० ॥

अनिन्दितैः स्त्रीविवाहैरनिन्द्या भवति प्रजा ।

निन्दितैर्निन्दिता नृणां तस्मान्निन्द्यान् विवर्जयेत् ॥ २१ ॥

मनु० ॥

अर्थ—ब्रह्मचर्य से ४ ( चार ), ३ ( तीन ), २ ( दो ) अथवा १ ( एक ) वेद को यथावत् पढ़, अखण्डित ब्रह्मचर्य का पालन करके गृहाश्रम को धारण करे ॥ १ ॥ यथावत् उत्तम रीति से ब्रह्मचर्य और विद्या को ग्रहण कर गुरु की आज्ञा से स्नान करके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपने वर्ण की उत्तम लक्षणयुक्त स्त्री से विवाह करे ॥ २ ॥ जो स्त्री माता की छः पीढ़ी और पिता के गोत्र की न हो वही द्विजों के लिये विवाह करने में उत्तम है ॥ ३ ॥ विवाह में नीचे लिखे हुए दश कुल, चाहे वे गाय आदि पशु धन और धान्य से कितने ही बड़े हों उन कुलों की कन्या के साथ विवाह न करे ॥ ४ ॥ वे दश कुल ये हैं—१ एक—जिस कुल में उत्तम क्रिया न हो । २ दूसरा—जिस कुल में कोई भी उत्तम पुरुष न हो । ३ तिसरा—जिस कुल में कोई विद्वान् न हो । ४ चौथा—जिस कुल में शरीर के ऊपर बड़े २ लोम हों । ५ पांचवां—जिस कुल में बवासीर हो । ६ छठा—जिस कुल में क्षयी ( राजयक्ष्मा ) रोग हो । ७ सातवां—जिस कुल में अग्निमन्दता से आमोशय रोग हो । ८ आठवां—जिस कुल में सृगी रोग हो । ९ नववां—जिस कुल में श्वेतकुष्ठ और १० दशवां—जिस कुल में गलित कुष्ठ आदि रोग हों ।

उन कुलों की कन्या अथवा उन कुलों के पुरुषों से विवाह कभी न करे ॥ ५ ॥ पीले वर्णवाली, अधिक अंगवाली जैसी कुंगुली आदि, रोगवती, जिसके शरीर पर कुछ भी लोम न हों और जिसके शरीर पर बड़े २ लोम हों, व्यर्थ अधिक बोलने-हारी और जिस के पीले विल्ली के सदृश नेत्र हों ॥ ६ ॥ तथा जिस कन्या का ( ऋक्ष ) नक्षत्र पर नाम अर्थात् रेवती रोहिणी इत्यादि, ( नदी ) जिसका गंगा, यमुना इत्यादि, ( पर्वत ) जिसका विन्ध्याचला इत्यादि, ( पत्नी ) पत्नी पर अर्थात् कोकिला, हंसा इत्यादि, ( अहि ) अर्थात् उरगा भोगिनी इत्यादि, ( प्रेष्य ) दासी इत्यादि और जिस कन्या का ( भीषण ) कालिका, चण्डिका इत्यादि नाम हो उससे विवाह न करे ॥ ७ ॥ किन्तु जिस के सुन्दर अंग, उत्तम नाम, हंस और हस्तिनी के सदृश चालवाली, जिसके सूक्ष्म लोम सूक्ष्म केश और सूक्ष्म दाँत हों जिसके सब अङ्ग कोमल हों उस स्त्री से विवाह करे ॥ ८ ॥ ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व, राजस्य और पैशाच ये विवाह आठ प्रकार के होते हैं ॥ ९ ॥ ब्राह्म कन्या के योग्य सुशील विद्वान् पुरुष का सत्कार कर के कन्या को वस्त्रादि से अलंकृत करके उत्तम पुरुष को बुला अर्थात् जिसको कन्या ने प्रसन्न भी किया हो उसका कन्या देना वह ब्राह्म विवाह कहाता है ॥ १० ॥ विस्तृत यज्ञ में बड़े २ विद्वानों का वरण कर उसमें कर्म करनेवाले विद्वान् को वस्त्र आभूषण आदि से कन्या को सुशोभित करके देना वह दैव विवाह ॥ ११ ॥ ३ ( तीसरा ) १ ( एक ) गाय बैल का जोड़ा अथवा २ ( दो ) जोड़े \* वर से लेके धर्मपूर्वक कन्यादान करना वह

\* यह बात मिथ्या है क्योंकि आगे मनुस्मृति में निषेध किया है और युक्तिविरुद्ध भी है इसलिये कुछ भी न ले देकर दोनों को प्रसन्नता से पाणिग्रहण होना आर्षविवाह है ॥



आर्ष विवाह ॥ १२ ॥ और ४ ( चौथा ) कन्या और वर को  
 पद्मशाला में विधि करके सब के सामने तुम दोनों मिल के  
 गृहाश्रम के कर्मों को यथावत् करो ऐसा कहकर दोनों की  
 प्रसन्नतापूर्वक पाणिग्रहण होना वह प्राजापत्य विवाह कहाता  
 है । ये ४ ( चार ) विवाह उत्तम हैं ॥ १३ ॥ और ५ ( पांचवां )  
 वर की जातिवालों और कन्या को यथाशक्ति धन देके होम  
 आदि विधि कर कन्या देना आसुर विवाह कहाता है ॥ १४ ॥  
 ६ ( छठा ) वर और कन्या की इच्छा से दोनों का संयोग होना  
 और अपने मन में मान लेना कि हम दोनों स्त्रीपुरुष हैं यह  
 काम से हुआ गान्धर्व विवाह कहाता है ॥ १५ ॥ और ७  
 ( सातवां ) हनन छेदन अर्थात् कन्या के रोकने वालों का  
 विदारण कर क्रोशती, रोती, कंपती और भयभीत हुई कन्या  
 को बलात्कार हरण करके विवाह करना वह राक्षस विवाह  
 ॥ १६ ॥ और जो सोती, पागल हुई वा नशा पीकर उन्मत्त हुई  
 कन्या को एकान्त पाकर दूषित कर देना, यह सब विवाहों  
 में नीच से नीच महानीच दुष्ट अतिदुष्ट पैशाच विवाह है ॥ १७ ॥  
 ब्राह्म, दैव, आर्ष और प्राजापत्य इन ४ ( चार ) विवाहों में  
 पाणिग्रहण किये हुए स्त्रीपुरुषों से जो सन्तान उत्पन्न होते हैं  
 वे वेदादिविद्या से तेजस्वी, आत्त पुरुषों के समत, अत्युत्तम होते  
 हैं ॥ १८ ॥ वे पुत्र वा कन्या सुन्दररूप, बल, पराक्रम, शुद्ध-  
 बुद्ध्यादि उत्तम गुणयुक्त, बहुधनयुक्त, पुण्यकीर्त्तिमान् और  
 पूर्ण भाग के भोक्ता, अतिशय धर्मात्मा होकर १०० ( सौ )  
 वर्ष तक जीते हैं ॥ १९ ॥ इन चार विवाहों से जो बाकी रहे  
 [ ४ ( चार ) ] आसुर, गान्धर्व, राक्षस और पैशाच, इन चार  
 दुष्ट विवाहों से उत्पन्न हुए सन्तान निन्दितकर्मकर्त्ता, मिथ्या-  
 वादी, वेदधर्म के द्वेषी, बड़े नीच स्वभाववाले होते हैं ॥ २० ॥  
 इसलिये मनुष्यों को योग्य है कि जिन निन्दित विवाहों से नीच

प्रजा होती है उनका त्याग और जिन उसम विवाहों से उद्यम प्रजा होती है उनका वर्त्ताव किया करें ॥ २१ ॥

उत्कृष्टायामिरूपाय वराय सदृशाय च ।

अप्राप्तमपि तां तस्मै कन्यां दद्याद्विचक्षणः ॥ १ ॥

काममामरणात्तिष्ठेद् गृहे कन्यर्त्तुमत्यपि ।

न चैवैनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कर्हिचित् ॥ २ ॥

त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमार्यृतुमती सती ।

ऊर्ध्वन्तु कालादेतस्माद्विन्देत सदृशं पतिम् ॥ ३ ॥

यदि माता पिता कन्या का विवाह करना चाहें तो अति उत्कृष्ट शुभगुण कर्म स्वभाववाले, कन्या के सदृश रूपलाव-  
रयादि गुणयुक्त, वर ही को चाहें। वह कन्या ( वर ) माता  
की छः पीढ़ी के भीतर भी हो तथापि उसी को कन्या देना अन्य  
को कभी न देना कि जिससे दोनों अतिप्रसन्न होकर गृहाश्रम  
की उन्नति और उत्तम सन्तानों की उत्पत्ति करें ॥ १ ॥ चाहे  
मरण पर्यन्त कन्या पिता के घर में विना विवाह के बैठी भी  
रहे परन्तु गुणहीन, असदृश, दुष्टपुरुष के साथ कन्या का  
विवाह कभी न करे और वर कन्या भी अपने आप स्वसदृश  
के साथ ही विवाह करें ॥ २ ॥ जब कन्या विवाह करने की  
इच्छा करे तब रजस्वला होने के दिन से ३ ( तीन ) वर्ष को  
छोड़ के चौथे वर्ष में विवाह करे ॥ ३ ॥

( प्रश्न ) “ अष्टवर्षा भवेद् गौरी नववर्षा च रोहिणी ” इ-  
त्यादि श्लोकों की क्या गति होगी ? ( उत्तर ) इन श्लोकों  
और इनके माननेवालों की दुर्गति । अर्थात् जो इन श्लोकों  
की रीति से बाल्यावस्था में अपने सन्तानों का विवाह कर

करा उनको नष्ट अष्ट रोगी अल्पायु करते हैं वे अपने कुल का जानों सत्यानाश कर रहे हैं। इसलिये यदि शीघ्र विवाह करें तो वेदारम्भ में लिखे हुए १६ ( सोलह ) वर्ष से न्यून कन्या और २५ ( पच्चीस ) वर्ष से न्यून पुरुष का विवाह कभी न करें करावें। इसके आगे जितना अधिक ब्रह्मचर्य रक्खेंगे उतना ही उनको आनन्द अधिक होगा ॥

( प्रश्न ) विवाह निकटवासियों से अथवा दूरवासियों से करना चाहिये ? ( उत्तर )—

दुहिता दुर्हिता दूरे हिता भवतीति ॥

यह निरुक्त का प्रमाण है कि जितना दूर देश में विवाह होगा उतना ही उनको अधिक लाभ होगा ( प्रश्न ) अपने गोत्र या भाई बहिनों का परस्पर विवाह क्यों नहीं होता ? ( उत्तर ) एक दोष यह है कि इनके विवाह होने में प्रीति कभी नहीं होती क्योंकि जितनी प्रीति परोक्ष पदार्य में होती है उतनी प्रत्यक्ष में नहीं। और बाल्यावस्था के गुण दोष भी विदित रहते हैं। तथा भयादि भी अधिक नहीं रहते। दूसरा जबतक दूरस्थ एक दूसरे कुल के साथ सम्बन्ध नहीं होता तबतक शरीर आदि की पुष्टि भी पूर्ण नहीं होती। तीसरा दूर सम्बन्ध होने से परस्पर प्रीति उन्नति पेश्वर्य बढ़ता है निकट से नहीं। सुवावस्था ही में विवाह का प्रमाण —

तमस्मैरा युवतयो युवानं मर्मृज्यमानाः परिं यन्त्यापः ।  
स शुक्रेभिः शिकमी रेवदस्मे दीदायान्निध्मो घृतनिर्णिग-  
शु ॥ १ ॥ अस्मै तिस्रो अच्यध्याय नारीदेवाय देवीर्दिधिष-  
स्त्यन्नम् । कृता इवोप हि प्रससे अप्सु स पीयूषं धयति पूर्व-  
नाम् ॥ २ ॥ अश्वस्मान् जनिमास्य च स्वर्द्रुहो रिषः

सुस्पृचः पाहि सूरिन् । आमासु पुरुषे पुरो अग्रमुष्यं नारातयो  
वि नशन्नानृतानि ॥ ३ ॥ ऋ० मं० २ । सू० ३५ । मं०  
४—६ ॥ वधूरियं पतिमिच्छन्त्येति य ईं वहाते महिषी  
मिषिराम् । आस्य श्रवस्याद्रथ आ च घोषात्पुरु सहस्रा  
परि वर्त्तयाते ॥ ४ ॥ ऋ० मं० ५ । सू० ३७ । मं० ३ ॥

उप व एषे वन्द्येभिः शूषैः प्र यही दिवश्चितयद्भिरकैः ।  
उषासानक्रा विदुषीव विश्वमा हा वहतो मर्त्याय यज्ञम् ॥५॥  
ऋ० मं० ५ । सू० ४१ । मं० ७ ॥

अर्थः—जो ( मर्मज्यमानाः ) उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत और स-  
द्विद्याओं से अत्यन्त ( युवतयः ) २० ( बीसवें ) वर्ष से २४  
( चौबीसवें ) वर्ष वाली हैं वे कन्या लोग जैसे ( आपः ) जल  
वा नदी समुद्र को प्राप्त होती हैं वैसे ( अस्मेराः ) हमको प्राप्त  
होनेवाली अपने २ प्रसन्न अपने २ से ब्योढ़े वा दूने आयुवाले  
( तम् ) उस ब्रह्मचर्य और विद्या से परिपूर्ण शुभलक्षणयुक्त  
( युवानम् ) जवान पति को ( परियन्ति ) अच्छे प्रकार प्राप्त  
होती हैं ( सः ) वह ब्रह्मचारी ( शुक्रेभिः ) शुद्ध गुण और  
( शिक्रभिः ) वीर्यादि से युक्त हो के ( अस्मे ) हमारे मध्य में  
( रेवत् ) अत्यन्त श्रीयुक्त कर्म को और ( दीदाय ) अपने तुल्य  
युवति स्त्री को प्राप्त होवे जैसे ( अप्सु ) अन्तर्हित वा समुद्र  
में ( घृतनिर्णिक ) जल को शोधन करने हारा ( अनिधमः )  
आप प्रकाशित विद्युत् अग्नि है इसी प्रकार स्त्री और पुरुष  
के हृदय में प्रेम बाहर अप्रकाशमान भीतर सुप्रकाशित रहकर  
उत्तम सन्तान और अत्यन्त आनन्द को गृहाश्रम में दोनों  
स्त्री पुरुष प्राप्त होवें ॥ १ ॥ हे स्त्री पुरुषो ! जैसे ( तिन्नः )

उत्तम मन्व्यम तथा निकृष्ट स्वभावयुक्त ( देवीः, नारीः ) विद्वान्  
 नरों की विदुषी स्त्रियां ( अस्मै ) इस ( अव्यथ्याय ) पीडा से  
 रहित ( देवाय ) काम के लिये ( अन्नम् ) अन्नादि उत्तम प-  
 दाथों को ( दिधिपन्ति ) धारण करती हैं ( कृता इव ) की हुई  
 शिक्षायुक्त के समान ( अप्सु ) प्राणवत् प्रीति आदि व्यवहारों  
 में प्रवृत्त होने के लिये स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री ( उप,  
 प्रसन्नै ) सम्बन्ध को प्राप्त होती है ( स, हि ) वही पुरुष और  
 स्त्री आनन्द को प्राप्त होती है जैसे जलों में ( पीयूषम् ) अमृ-  
 तरूप रस को ( पूर्वसूनाम् ) प्रथम प्रसूत हुई स्त्रियों का बा-  
 शफ ( धयति ) दुग्ध पी के बढ़ता है वैसे इन ब्रह्मचारी और  
 ब्रह्मचारिणी स्त्री के सन्तान यथावत् बढ़ते हैं ॥ २ ॥ जैसे रा-  
 ज्ञादि सब लोग ( पूर्ण ) अपने नगरों और ( आमाम् ) अपने  
 घर में उत्पन्न हुए पुत्र और कन्यारूप प्रजाओं में उत्तम शिक्षा-  
 ष्यों को ( परः ) उत्तम विद्वान् ( अप्रमृष्यम् ) शत्रुओं को सहने  
 अयोग्य ब्रह्मचर्य से प्राप्त हुए शरीरात्मवलयुक्त देह को ( अ-  
 रातयः ) शत्रु लोग ( न ) नहीं ( विनशन् ) विनाश कर सकते  
 और ( अनृतानि ) मिथ्याभाषणादि दुष्ट दुर्व्यसनों को प्राप्त  
 ( न ) नहीं होते वैसे उत्तम स्त्री पुरुषों को ( द्रुहः ) द्रोह आदि  
 दुर्गुण और ( रिपः ) हिंसा आदि पाप ( न, सम्पृचः ) सम्ब-  
 ंध नहीं करते किन्तु जो युवावस्था में विवाह कर प्रसन्नतापूर्-  
 षक विधि से सन्तानोत्पत्ति करते हैं इनके ( अस्य ) इस  
 ( अश्वस्य ) महान् गृहाश्रम के मध्य में उत्तम बालकों का  
 ( जनिम ) जन्म होता है इसलिये हे स्त्रि व पुरुष ! तू ( सु-  
 तीन् ) विद्वानों की ( पाहि ) रक्षा कर ( च ) और ऐसे गृह-  
 ष्यों को ( अत्र ) इस गृहाश्रम में सदैव ( स्वः ) सुख बढ़ता  
 रहता है ॥ ३ ॥ हे मनुष्यो ! ( यः ) जो पूर्वोक्त लक्षणयुक्त पूर्व  
 ज्ञान ( ईम ) सब प्रकार की परीक्षा करके ( महिषीम् )

उत्तम कुल में उत्पन्न हुई विद्या शुभगुण रूप सुशीलतादि युक्त ( इषिराम् ) वर की इच्छा करनेहारी हृदय को प्रिय स्त्री को ( पति ) प्राप्त होता है और जो ( पतिम् ) विवाह से अपने स्वामी की ( इच्छन्ती ) इच्छा करती हुई ( इयम् ) यह ( वधुः ) स्त्री अपने सदृश, हृदय को प्रिय पति को ( पति ) प्राप्त होती है वह पुरुष वा स्त्री ( अस्य ) इस गृहाश्रम के मध्य ( आश्र-  
यस्यात् ) अत्यन्त विद्या धन धान्ययुक्त सब और से होवे और वे दोनों ( रथः ) रथ के समान ( आघोषात् ) परस्पर प्रिय वचन बोलें ( च ) और सब गृहाश्रम के भार को ( वहते ) उठा सकते हैं तथा वे दोनों ( पुरु ) बहुत ( सहस्रा ) असं-  
ख्य उत्तम कार्यों को ( परिवर्तयाते ) सब और से सिद्ध कर सकते हैं ॥ ४ ॥ हे मनुष्यो ! यदि तुम पूर्ण ब्रह्मचर्य से सुशिक्षित विद्यायुक्त अपने सन्तानों को कराके स्वयंवर विवाह कराओ तो वे ( वन्देभिः ) कामना के योग्य ( चितयद्भिः ) सब सत्य विद्याओं को जाननेहारे ( अर्कैः ) सत्कार के योग्य ( श्लेषैः ) शरीरात्मबलों से युक्त हो के ( वः ) तुम्हारे लिये ( पथे ) सब सुख प्राप्त कराने को समर्थ हों और वे ( उपा-  
सानक्ता ) जैसे दिन और रात तथा जैसे ( विदुषीव ) विदुषी स्त्री और विद्वान् पुरुष ( विश्वम् ) गृहाश्रम के सम्पूर्ण व्यवहार को ( आवहतः ) सब और से प्राप्त होते हैं ( ह ) वैसे ही इस ( यज्ञम् ) संगतरूप गृहाश्रम के व्यवहार को वे स्त्री पुरुष पूर्ण कर सकते हैं और ( मर्त्याय ) मनुष्यों के लिये यही पूर्वोक्त विवाह पूर्ण सुखदायक है और ( यद्दी ) बड़े ही शुभ शुभ कर्म स्वभाववाले स्त्री पुरुष दोनों ( दिवः ) कामनाओं को ( उप, प्र, वहतः ) अच्छे प्रकार प्राप्त हो सकते हैं अन्य नहीं ॥ ५ ॥

जैसे ब्रह्मचर्य में कन्या का ब्रह्मचर्य वेदोक्त है वैसे ही सब बुरूपों को ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़ पूर्ण जवान हो परस्पर परीक्षा करके जिससे जिसकी विवाह करने में पूर्ण प्रीति हो उसी से इसका विवाह होना अत्युत्तम है। जो कोई युवावस्था में विवाह न करा के बाल्यावस्था में अनिच्छित अयोग्य वर कन्या का विवाह करावेंगे वे वेदोक्त ईश्वराज्ञा के विरोधी होकर महा-दुःखसागर में क्योंकर न डूवेंगे और जो पूर्वोक्त विधि से विवाह करते कराते हैं वे ईश्वराज्ञा के अनुकूल होने से पूर्ण सुख को प्राप्त होते हैं ( प्रश्न ) विवाह अपने २ वर्ण में होना चाहिये वा अन्य वर्ण में भी ( उत्तर ) अपने २ वर्ण में। परन्तु वर्णव्यवस्था गुण कर्मों के अनुसार होनी चाहिये जन्ममात्र से नहीं। जो पूर्ण विद्वान् धर्मात्मा परोपकारी जितेन्द्रिय मिथ्याभाषणादिदोषरहित विद्या और धर्मप्रचार में तत्पर रहे इत्यादि उत्तम गुण जिसमें हों वह ब्राह्मण ब्राह्मणी। विद्या बल शौर्य न्यायकारित्वादि गुण जिसमें हों वह क्षत्रिय क्षत्रिया। और विद्वान् हो के कृषि पशुपालन व्यापार देशभाषाओं में चतुरत्वादि गुण जिसमें हों वह वैश्य वैश्या। और जो विद्याहीन मूर्ख हो वह शूद्र शूद्रा कहावे। इसी क्रम से विवाह होना चाहिये अर्थात् ब्राह्मण का ब्राह्मणी, क्षत्रिय का क्षत्रिया, वैश्य का वैश्या और शूद्र का शूद्रा के साथ ही विवाह होने में आनन्द होता है अन्यथा नहीं ॥ इस वर्णव्यवस्था में प्रमाणः—

धर्मचर्यया जघन्यो वर्णाः पूर्वं पूर्वं वर्णमापद्यते जाति-  
परिवृत्तौ ॥ १ ॥ अधर्मचर्यया पूर्वो वर्णो जघन्यं जघन्यं  
वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तौ ॥ २ ॥ आपस्तम्बे ॥

शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम् ।

क्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्याद्वैश्यात्तथैव च ॥ ३ ॥  
मनुस्मृतौ ॥

अर्थ:—धर्माचरण से नीच वर्ण उत्तम २ वर्ण को प्राप्त होता है और उस वर्ण में जो २ कर्तव्य अधिकार रूप कर्म हैं वे सब गुण कर्म उस पुरुष और स्त्री को प्राप्त हों ॥ १ ॥  
वैसे ही अधर्माचरण से उत्तम २ वर्ण नीचे २ के वर्ण को प्राप्त होवे और वे ही उस २ वर्ण के अधिकार और कर्मों के कर्त्ता हों ॥ २ ॥ उत्तम गुण कर्म स्वभाव से जो शूद्र है वह वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण और वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण तथा क्षत्रिय, ब्राह्मण वर्ण के अधिकार और कर्मों को प्राप्त होता है वैसे ही नीच कर्म और गुणों से जो ब्राह्मण है वह क्षत्रिय वैश्य शूद्र; और क्षत्रिय वैश्य शूद्र; तथा वैश्य, शूद्र वर्ण के अधिकार और कर्मों को प्राप्त होता है ॥

इसी प्रकार वर्णव्यवस्था होने से पक्षपात न होकर सब वर्ण उत्तम बने रहते और उत्तम बनने में प्रयत्न करते; और उत्तम वर्ण, भय से कि मैं नीच वर्ण न हो जाऊं इसलिये बुरे कर्म छोड़ उत्तम कर्मों ही को किया करते हैं इस से संसार की बड़ी उन्नति है। आर्यावर्त्त देश में जबतक ऐसी वर्णव्यवस्था (अर्थात्) पूर्वोक्त ब्रह्मचर्य विद्याग्रहण उत्तमता से स्वयंवर विवाह होता था तभी देश की उन्नति थी, अब भी ऐसा ही होना चाहिये जिससे आर्यावर्त्त देश अपनी पूर्ववस्था को प्राप्त होकर आनन्दित होवे ॥

अब बधू वर एक दूसरे के गुण कर्म और स्वभाव की परीक्षा इस प्रकार करें:—दोनों का तुल्य शील, समान बुद्धि, समान आचार, समान रूपादि गुण, अहिंसकता, सत्य मधुर-भाषण, कृतज्ञता, दयालुता, अहंकार, मत्सर, ईर्ष्या, काम, क्रोध,



निर्लोभता, देश का सुधार, विद्याग्रहण, सत्योपदेश करने में निर्भयता, उत्साह, कपट द्यूत चोरी मद्य मांसादि दोषों का त्याग गृहकार्यों में अति चतुरता हो जब २ प्रातः सायं वा परदेश से आकर मिलें तब २ नमस्ते इस वाक्य से परस्पर नमस्कार कर स्त्री पति के चरणस्पर्श पादप्रक्षालन आसनदान करे तथा दोनों परस्पर प्रेम बढ़ानेहारे वचनादि व्यवहारों से वर्त्तकर आनन्द भोगों वर के शरीर से स्त्री का शरीर पतला और पुरुष के स्कन्ध तुल्य स्त्री का शिर होना चाहिये तत्पश्चात् भीतर की परीक्षा स्त्री पुरुष वचनादि व्यवहारों से करें ॥

ओं ऋतमग्ने प्रथमं जज्ञ ऋते सत्यं प्रतिष्ठितम् ।  
यदियं कुमार्याभिजाता तदियमिह प्रतिपद्यताम् । यत्सत्यं  
तद्दृश्यताम् ॥

अर्थ:—जब विवाह करने का समय निश्चय होचुके तब कन्या चतुर पुरुषों से वर की और वर चतुर स्त्रियों से कन्या की परीक्षा में परीक्षा करावे पश्चात् उत्तम विद्वान् स्त्री पुरुषों की सभा करके दोनों परस्पर संवाद करें कि हे स्त्री वा हे पुरुष ! इस जगत् के पूर्व ऋत यथार्थस्वरूप महत्तत्त्व उत्पन्न हुआ था और उस महत्तत्त्व में सत्य त्रिगुणात्मक नाशरहित प्रकृति प्रतिष्ठित है जैसे पुरुष और प्रकृति के योग से सब विश्व उत्पन्न हुआ है वैसे मैं कुमारी और मैं कुमार पुरुष इस समय दोनों में विवाह करने की सत्य प्रतिज्ञा करती वा करता हूँ उसको यह कन्या और मैं वर प्राप्त होवें और अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिये दृढ़ोत्साही रहें ॥

विधि:—जब कन्या रजस्वला होकर पृष्ठ ३६-३७ में लिखे प्रमाणे शुद्ध हो जाय तब जिस दिन गर्भाधान की रात्रि निश्चित

की हो उस में विवाह करने के लिये प्रथम ही सब सामग्री जोड़ रखनी चाहिये और १६-२१ पृष्ठ में लि० यज्ञशाला, वेदी, ऋत्विक्, यज्ञपात्र, शाकल्य आदि सब सामग्री शुद्ध करके रखनी उचित है पश्चात् एक \* घंटेमात्र रात्रि जाने पर:—

ओं काम वेद ते नाम मदो नामासि समानयासुं सुरा  
 वे अमवत् । परमत्र जन्माग्रे तपसो निर्मितोऽसि स्वाहा ॥ १ ॥  
 ओं इमं ते उपस्थं मधुना सथ्सृजामि प्रजापतेर्मुखमेतद्  
 द्वितीयम् । तेन पुथ्सोभिभवासि सर्वानवशान्वशिन्यसि  
 राज्ञी स्वाहा ॥ २ ॥ ओं अग्नि ऋव्यादमकृएवन् गुहानाः  
 ह्रीणामुपस्थमृषयः पुराणाः । तेनाज्यमकृएवथ्स्रैशृङ्गं त्वाष्ट्रं  
 त्वयि तदधातु स्वाहा ॥ ३ ॥ मन्त्र ब्रा० १ । १ । १-३ ॥

इन मन्त्रों से सुगन्धित शुद्ध जल से पूर्ण कलशों को लेके वधू वर स्नान कर पश्चात् वधू उत्तम वख्तालङ्कारधारण करके उत्तम आसन पर पूर्वाभिमुख बैठे तत्पश्चात् पृष्ठ ५ से १६ तक लि० प्र० ईश्वरस्तुति, प्रार्थनोपासना, स्वस्तिवाचन, शान्ति-  
 अकरण करें तत्पश्चात् पृष्ठ २५-२६ में लिखे प्रमाणे अन्याधान समिदाधान पृष्ठ १८ में लि० स्थालीपाक आदि यथोक्त कर वेदी के समीप रखके वैसे ही वर भी एकान्त अपने घर में जाके उत्तम वख्तालङ्कार करके यज्ञशाला में आ उत्तमासन पर पूर्वाभिमुख बैठ के पृष्ठ ५-६ में लि० प्र० ईश्वरस्तुति † प्रार्थ-

\* यदि आधी रात तक विधि पूरा न हो सके तो मध्याह्नोत्तर आ-  
 रम्भ कर देवे कि जिससे मध्यरात्रि तक विवाहविधि पूरा हो जावे ॥

† विवाह में आए हुए भी स्त्री पुरुष एकाम्रचित्त ध्यानावस्थित होके  
 इन तीन कर्मों के अनुसार ईश्वर का चिन्तन किया करें ॥

नोपासना कर वधू के घर को जाने का ढंग करे तत्पश्चात् कन्या के और वर पक्ष के पुरुष बड़े सामान (सम्मान?) से वर को घर से जावें जिस समय वर वधू के घर प्रवेश करे उसी समय वधू और कार्यकर्त्ता मधुपर्क आदि से वर का निम्नलिखित प्रकार आदर सत्कार करें उसकी रीति यह है कि वर वधू के घर में प्रवेश करके पूर्वाभिमुख खड़ा रहे और वधू तथा कार्यकर्त्ता वर के समीप उत्तराभिमुख खड़े रहे के वधू और कार्यकर्त्ता—

साधु भवानास्तामर्चयिष्यामो भवन्तम् ॥ पार० कां० १।  
कं० ३। सू० ४ ॥

इस वाक्य को बोले उस पर वर—

ओं अर्चय ॥ पार० कां० १। कं० ३। सू० ४ ॥

ऐसा प्रत्युत्तर देवे पुनः जो वधू और कार्यकर्त्ता ने वर के लिये उत्तम आसन सिद्ध कर रक्खा हो उसको वधू हाथ में ले वर के आगे खड़ी रहे ॥

ओं विष्टरो विष्टरो विष्टरः प्रतिगृह्यताम् ॥ पार० कां०  
१। कं० ३ ॥

यह उत्तम आसन आप ग्रहण कीजिये, वर—

ओं प्रतिगृह्णामि ॥ पार० कां० १। कं० ३ ॥

इस वाक्य को बोले के वधू के हाथ से आसन ले विष्टा उस पर लभामंडप में पूर्वाभिमुख बैठ के वर—

ओं वर्ष्मोऽस्मि समानानामुद्यतामिव सूर्यः । इमन्तममि-  
तिष्ठामि यो मा कश्चामिधासति ॥ पार० कां० १। कं० ३ ॥

इस मन्त्र को बोले तत्पश्चात् कार्यकर्त्ता एक सुन्दर पात्र में पूर्ण जल भर के कन्या के हाथ में देवे और कन्या—

ओं पाद्यं पाद्यं पाद्यं प्रतिगृह्यताम् ॥ पार० कां० १। कं० ३ ॥

इस वाक्य को बोल के वर के आगे धरे पुनः वर—

ओं प्रतिगृह्णामि ॥ पार० कां० १ । कं० ३ ॥

इस वाक्य को बोल के कन्या के हाथ से उदक ले पग \*  
प्रक्षालन करे और उस समय—

ओं विराजो दोहोऽसि विराजो दोहमशीय मयि  
पाद्यायै विराजो दोहः ॥ पार० कां० १ । कं० ३ ॥

इस मन्त्र को बोले । तत्पश्चात् फिर भी कार्यकर्ता दूसरा  
शुद्ध लोटा पवित्र जल से भर कन्या के हाथ में देवे । पुनः  
कन्या—

ओं अर्घोऽर्घोऽर्घः प्रतिगृह्यताम् ॥ पार० कां० १ ।  
कं० ३ ॥

इस वाक्य को बोल के वर के हाथ में देवे, और वर—

ओं प्रतिगृह्णामि ॥ पार० कां० १ । कं० ३ ॥

इस वाक्य को बोल के कन्या के हाथ से जलपात्र ले के  
उससे मुखप्रक्षालन करे और उसी समय वर मुख धोके—

ओं आपस्थ युष्मामिः सर्वान्कामानवाप्नुवामि । ओं  
समुद्रं वः प्रहिणोमि स्वां योनिमभिगच्छत । अरिष्टास्माकं  
वीरा मा परासेचि मत्पयः ॥ पार० कां० १ । कं० ३ ॥

इन मन्त्रों को बोले । तत्पश्चात् वेदी के पश्चिम विछाये हुए

\* यदि घर का प्रवेशक द्वार पूर्वाभिमुख हो तो वर उत्तराभिमुख  
और वधू तथा कार्यकर्ता पूर्वाभिमुख खड़े रहके यदि ब्राह्मण वर्ण हो तो  
प्रथम दक्षिण पग पश्चात् बायां और अन्य क्षत्रियादि वर्ण हों तो प्रथम  
बायां पग धोवे पश्चात् दहिना ॥

वसी शुभासन पर पूर्वाभिमुख बैठे । तत्पश्चात् कार्यकर्त्ता एक सुन्दर उपपात्र जल से पूर्ण भर उसमें आचमनी रख कन्या के हाथ में देवे और उस समय कन्या—

ओं आचमनीयमाचमनीयमाचमनीयम्प्रतिगृह्यताम् ॥

इस वाक्य को बोल के सामने करे और वर—

ओं प्रतिगृह्णामि ॥ पार० कां० १ । कं० ३ ॥

इस वाक्य को बोल के कन्या के हाथ में से जलपात्र को ले सामने धर उसमें से दहिने हाथ में जल जितना अंगुलियों के मूल तक पहुंचे उतना ले के वर—

ओं आमागन् यशसा संश्रंसृज वर्चसा । तं मा कुरु प्रियं प्रजानामधिपतिं पशूनामरिष्टिं तनूनाम् ॥ पार०-कां० १ । कं० ३ ॥

इस मन्त्र से एक आचमन इसी प्रकार दूसरी और तीसरी वार इसी मन्त्र को पढ़ के दूसरा और तीसरा आचमन करे । तत्पश्चात् कार्यकर्त्ता मधुपर्क \* का पात्र कन्या के हाथ में देवे और कन्या—

ओं मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्कः प्रतिगृह्यताम् ॥

ऐसी विनती वर से करे और वर—

ओं प्रतिगृह्णामि ॥ पार० कां० १ । कं० ३ ॥

इस वाक्य को बोल के कन्या के हाथ से ले और उस समय—

\* मधुपर्क उसको कहते हैं जो दही में घी वा सहत मिलाया जाता है उसका परिमाण १२ ( बारह ) तोले दही में ४ ( चार ) तोले सहज अथवा ४ ( चार ) तोले घी मिलाना चाहिये और यह मधुपर्क कांसे के पात्र में होना उचित है ॥

ओं मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीचे ॥ पार० कां० १ ।

कं० ३ ॥

इस मन्त्रस्थ वाक्य को बोल के मधुपर्क को अपनी दृष्टि से देखे और—

ओं देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो  
इस्ताभ्यां प्रतिगृह्णामि ॥ य० अ० १ । मं० १० ॥

इस मन्त्र को बोल के मधुपर्क के पात्र को वाम हाथ में लेवे और—

ओं भूर्भुवः स्वः । मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति  
सिन्धवः । माध्वीर्नस्सन्त्वोपधीः ॥ १ ॥ ओं भूर्भुवः स्वः ।  
मधु नक्तमुतोपसो मधुमत्पार्थिवं रजः । मधु धौरस्तु नः  
पिता ॥ २ ॥ ओं भूर्भुवः स्वः । मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ  
अस्तु सूर्यः । माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥३॥ य० अ० १३ ।  
मं० २७-२६ ॥

इन तीन मन्त्रों से मधुपर्क की ओर अवलोकन करे—

ओं नमः श्यावास्यायान्नशने यत्त आविद्धं तत्ते  
निष्कृन्तामि ॥ पार० कां० १ । कं० ३ । सू० ६ ॥

इस मन्त्र को पढ़, दहिने हाथ की अनामिका और अङ्गुष्ठ से मधुपर्क को तीन बार बिलौवे और उस मधुपर्क में से वर—

ओं वसत्रस्त्वा गायत्रेण छन्दसा भक्षयन्तु ॥

इस मन्त्र से पूर्व दिशा ।

ओं रुद्रास्त्वा त्रैष्टुमेनच्छन्दसा भक्षयन्तु ॥

इस मन्त्र से दक्षिण दिशा ।

ओं आदित्यास्त्वा जागतेनच्छन्दसा भक्षयन्तु ॥

इस मन्त्र से पश्चिम दिशा और—

ओं विश्वे त्वा देवा आनुष्टुभेन छन्दसा भक्षयन्तु ॥

इस मन्त्र से उत्तर दिशा में थोड़ा २ छंड़े अर्थात् छंटे देवे ।

ओं भूतेभ्यस्त्वा परिगृह्णामि ॥ आश्वला० गृ० अ०

१ । क० २४ । सू० १५ ॥

इस मन्त्रस्य वाक्य को बोल के पात्र के मध्य भाग में से लेके उत्तर की ओर तीन बार फेंकना । तत्पश्चात् उस मधुपर्क के तीन भाग करके तीन कसे के पात्रों में धर भूमि में अपने सम्मुख तीनों पात्र रखे, रख के—

ओं यन्मधुनो मध्वव्यं परमं रूपसन्नाद्यम् । तेनाहं  
मधुनो मध्वव्येन परमेण रूपेणान्नाद्येन परमो मध्वव्योऽ-  
न्नादोऽस्मानि ॥ पार० कां० १ । कं० ३ ॥

इस मन्त्र को एक २ बार बोल के एक २ भाग में से वर थोड़ा २ प्राशन करे वा सब प्राशन करे, जो उन पात्रों में शेष उच्छिष्ट मधुपर्क रहा हो वह किसी अपने सेवक को देवे वा जल में डाल देवे । तत्पश्चात्—

ओं अमृतापिधानमसि स्वाहा ॥ आश्वला० गृ० अ०

१ । क० २४ । सू० २१ ॥

ओं सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा ॥ आश्व-

ला० गृ० अ० १ । कं० २४ । सू० २२ ॥

इन दो मन्त्रों से दो आचमन अर्थात् एक से एक और दूसरे से दूसरा वर करे। तत्पश्चात् वर पृष्ठ २४ में लि० प्र० खलुरादि इन्द्रियों का जल से स्पर्श करे। पश्चात् कन्या—

ओं गौर्गौर्गौः प्रतिगृह्यताम् ॥

इस वाक्य से वर की विनती करके अपनी शक्ति के योग्य घर को गोदानादि द्रव्य, जो कि वर के योग्य हो, अर्पण करे और वर—

ओं प्रतिगृह्णामि ॥ पार० कां० १ । कं० ३ ॥

इस वाक्य से उसको ग्रहण करे इस प्रकार मधुपर्कविधि यथावत् करके वधू और कार्यकर्ता वर को सभामण्डपस्थान\* से घर में ले जा के शुभ आसन पर पूर्वाभिमुख बैठे के वर के सामने पश्चिमाभिमुख वधू को बैठावे और कार्यकर्ता उत्त-  
राभिमुख बैठे के—

ओं अमुक † गोत्रोत्पन्नमिमाममुकनाम्नी ‡ मलङ्कृतां

कन्यां प्रतिगृह्णातु भवान् ॥

इस प्रकार वर के वर का हाथ चत्ता अर्थात् हथेली ऊपर रखके उसके हाथ में वधू का दक्षिण हाथ चत्ता ही रखना और वह—

ओं प्रतिगृह्णामि ॥

\* यदि सभामण्डप स्थापन न किया हो तो जिस घर में मधुपर्क हुआ हो उससे दूसरे घर में वर को लेजावे ॥

† अमुक इस पद के स्थान में जिस गोत्र और कुल में वधू उत्पन्न हुई हो उसका उच्चारण अर्थात् उसका नाम लेना ॥

‡ “अमुकनाम्नीम्” इस स्थान पर वधू का नाम द्वितीया विभक्ति के एकवचन से बोलना ॥



पेसा बोलके—

ओं जरां गच्छ परिधत्स्व वासो भवा कृष्टीनाममिश-  
स्ति पावा । शतं च जीव शरदः सुवर्चा रयिं च पुत्राननुमंव्यय-  
स्वायुष्मतीदं परिधत्स्व वासः ॥ पार० कां० १ । कं० ४ ॥

इस मन्त्र को बोल के बधू को उत्तम वस्त्र देवे। तत्पश्चात्—

ओं या अकृतन्नवयन् या अतन्वत याश्च देवीस्तन्तू-  
नमितो ततन्थ । तास्त्वा देवीर्जरसे संव्ययस्वायुष्मतीदं  
परिधत्स्व वासः ॥ पार० गृ० कां० १ । कं० ४ ॥

इस मन्त्र को बोल के बधू को वर उपवस्त्र देवे, वह उपवस्त्र  
को यशोव्रीतवत् धारण करे ।

ओं परिधास्यै यशोधास्यै दीर्घायुत्वाय जरदाष्टिरमि ।  
शतं च जीवामि शरदः पुरुची रायस्पोपममिसंव्यायव्ये ॥  
पार० कां० २ । कं० ६ ॥

इस मन्त्र को पढ़ के वर आप अशोवस्त्र धारण करे और—

ओं यशसा मा द्यावापृथिवी यशसेन्द्रावृहस्पती ।  
यशो भगश्च मा विन्दद्यशो मा प्रतिपद्यताम् ॥ पार०  
कां० २ । कं० ६ ॥

इस मन्त्र को पढ़ के द्विपट्टा धारण करे। इस प्रकार बधू  
वस्त्र परिधान करके जबतक समूहले तबतक कार्यकर्ता अथवा  
इसरा कोई यज्ञमण्डप में जा कुण्ड के समीपस्थ हो पृष्ठ २४-२५  
में लि० इन्धन और कर्पूर वा घृत से कुण्ड के अग्नि को  
प्रदीत करे, और आहुति के लिये मुगन्ध डाला हुआ घी बढ-  
कोई में करके कुण्ड के अग्नि पर गरम कर कांसे के पात्र में

रक्खे, और झुवादि होम के पात्र तथा शुद्ध जलपात्र इत्यादि सामग्री यज्ञकुण्ड के समीप जोड़ कर रक्खे, और वरपक्ष का एक पुरुष शुद्ध वस्त्र धारण कर शुद्ध जल से पूर्ण एक कलश को ले के यज्ञकुण्ड की परिक्रमा कर कुण्ड के दक्षिणभाग में उत्तराभिमुख हो कलशस्थापन अर्थात् भूमि पर अच्छे प्रकार अपने आगे धर के जबतक विवाह का कृत्य पूर्ण न हो जाय तबतक उत्तराभिमुख बैठा रहे, और उसी प्रकार वर के पक्ष का दूसरा पुरुष हाथ में दण्ड ले के कुण्ड के दक्षिणभाग में कार्यसमाप्तिपर्यन्त उत्तराभिमुख बैठा रहे, और इसी प्रकार सहोदर वधू का भाई, अथवा सहोदर न हो तो चंचरा भाई, मामा का पुत्र, अथवा मौसी का लड़का हो वह चावल या जुवार की धाणी और शमी वृक्ष के सूखे पत्ते इन दोनों को मिलाकर शमीपत्रयुक्त धाणी की ४ (चार) अञ्जलि एक शुद्ध सूप में रख के धाणी सहित सूप लेके यज्ञकुण्ड के पश्चिमभाग में पूर्वाभिमुख बैठा रहे। तत्पश्चात् कार्यकर्ता एक सपाटशिला जो कि सुन्दर चिकनी हो उस को तथा वधू और वर को कुण्ड के समीप बैठाने के लिये दो कुशासन वा यज्ञीय तृणासन अथवा यज्ञीय वृक्ष की छाल के जो कि प्रथम से सिद्ध कर रक्खे हों उन आसनों को रखवावे। तत्पश्चात् वस्त्र धारण की हुई कन्या को कार्यकर्ता वर के सम्मुख लावे और उस समय वर और कन्या—

ओं समञ्जन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानि नौ ॥

सं मातरिश्वा सं धाता समुदेष्टी दधातु नौ \* ॥ १ ॥

श्रु० मं० १० । सू० ८५ । मं० ४७ ॥

\* वर और कन्या बोलें कि हे ( विश्वे, देवाः ) इस यज्ञशांता में बैठे

इस मन्त्र को बोलें । तत्पश्चात् वर दक्षिण हाथ से वधू का दक्षिण हाथ पकड़ के:—

ओं यदैपि मनसा दूरं दिशोऽनुपवमानो वा । हिरण्य-  
पणों वैकर्णः स त्वा मन्मनसां करोतु \* असौ ॥ २ ॥  
पार० कां० १ । कं० ४ ॥

इस मन्त्र को बोल के उसको लेके घर के बाहर मण्डप-

हुए विद्वान् लोगो ! आप हम दोनों को ( समञ्जन्तु ) निश्चय करके जानें कि अपनी प्रसन्नतापूर्वक गृहाश्रम में एकत्र रहने के लिये एक दूसरे का स्वीकार करते हैं कि ( नौ ) हमारे दोनों के ( हृदयानि ) हृदय ( आप ; ) जल के समान ( सम् ) शान्त और मिले हुए रहेंगे जैसे ( मातरिश्वा ) प्राणवायु हमको प्रिय है वैसे ( सम् ) हम दोनों एक दूसरे से सदा प्रसन्न रहेंगे जैसे ( धाता ) धारण करनेहारा परमात्मा सब में ( सम् ) मिला हुआ सब जगत् को धारण करता है वैसे हम दोनों एक दूसरे का धारण करेंगे जैसे ( समुदेष्टी ) उपदेश करनेहारा श्रोताओं से प्रीति करता है वैसे ( नौ ) हमारे दोनों का आत्मा एक दूसरे के साथ दृढ़ प्रेम को ( दानु ) धारण करे ॥

\* ( असौ ) इस पद के स्थान में कन्या का नाम उच्चारण करना, हे वरानने वा हे वरानन ( यत् ) जो तू ( मनसा ) अपनी इच्छा से मुझको जैसे ( पवमानः ) पवित्र वायु ( वा ) जैसे ( हिरण्यपणों, वैकर्णः ) तंजोमय जल आदि को किरणों से ग्रहण करने वाला सूर्य ( दूरम् ) दूरस्थ पदार्थों और ( दिशानु ) दिशाओं को प्राप्त होता वैसे तू प्रेमपूर्वक अपनी इच्छा से मुझ को प्राप्त होती वा होता है उस ( त्वा ) तुझ को ( सः ) वह परमेश्वर ( मन्मनसाम् ) मेरे मन के अनुकूल ( करोतु ) करे, और हे ( वार ) जो आप मन से मुझ को ( णेपि ) प्राप्त होते हो इस आपको जगदीश्वर मेरे मन के अनुकूल सदा रखे ॥

स्थान में कुंड के समीप हाथ पकड़े हुए दोनों वे और वधू तथा वर—

ओं भूर्भुवः स्वः । अघोरचक्षुरपतिघ्न्योधि शिवा पशु-  
भ्यः सुमनाः सुवर्चाः । वीरसूदेवृकामा स्योना शन्नो भव  
द्विपदे शं चतुष्पदे \* ॥ ३ ॥ ओं भूर्भुवः स्वः । सा नः  
पूषा शिवतमामैरयसा न ऊरू उशति विहर । यस्यामुशन्तः  
प्रहराम शोफं यस्यामुकामा बहवो निविष्टयै ॥ ४ ॥ ऋ०  
मं० १० । सू० ८५ ॥

इन चार मन्त्रों को वर बोल के दोनों वर वधू यज्ञकुण्ड  
की प्रदक्षिणा करके कुण्ड के पश्चिम भाग में प्रथम स्थापन  
किये हुए आसन पर पूर्वाभिमुख वर के दक्षिण भाग में वधू  
और वधू के वाम भाग में वर बैठ के वधू:—

\* हे वरानने ( अपतिघ्नि ) पति से विरोध न करनेहारी तू जिसके  
( ओम् ) अर्थात् रक्षा करनेवाला ( भूः ) प्राणदाता ( भुवः ) सब  
दुःखों को दूर करनेहारा ( स्वः ) सुखस्वरूप और सब सुखों के दाता  
आदि नाम हैं उस परमात्मा की कृपा और अपने उत्तम पुरुषार्थ से हे  
( अघोरचक्षुः ) प्रियदृष्टि ( एधि ) हो ( शिवा ) मंगल करनेहारी ( पशु-  
भ्यः ) सब पशुओं को सुखदाता ( सुमनाः ) पवित्रान्तःकरणयुक्त प्रस-  
न्नचित्त ( सुवर्चाः ) सुन्दर शुभ गुण कर्म स्वभाव और विद्या से सुप्र-  
काशित ( वीरसूः ) उत्तम वीर पुरुषों को उत्पन्न करनेहारी ( देवृकामा )  
देवर की कामना करती हुई अर्थात् नियोग की भी इच्छा करनेहारी  
( स्योना ) सुखयुक्त हो के ( तः ) हमारे ( द्विपदे ) मनुष्यादि के लिये  
( शम् ) सुख करनेहारी ( भव ) सदा हो और ( चतुष्पदे ) गाव  
आदि पशुओं की भी ( शम् ) सुख देनेहारी हो वैसे ही मैं तेरा पति  
भी वर्त्ता करूं ॥

ओं प्र मे पतियानः पत्याः कल्पत्वाऽशिवा अरिष्टा  
पतिलोकं गमेयम् ॥ मं० ब्रा० १ । १ । ८ ॥

इस मन्त्र को बोले तत्पश्चात् पृष्ठ २३ में लिखे प्रमाणे यज्ञ-  
कुण्ड के समीप दक्षिण भाग में उत्तराभिमुख पुरोहित की स्था-  
पना करनी । तत्पश्चात् पृ० २४ में लिखे—

ओं अमृतोपस्तरणमासि स्वाहा ॥

इत्यादि तीन मन्त्रों में प्रत्येक मन्त्र से एक २ आचमन जैसे  
तीन आचमन वर, वधू और पुरोहित और कार्यकर्त्ता करके  
हस्त और मुख प्रक्षालन एक शुद्धपात्र में करके दूर रखवादे  
हाथ और मुख पोंछ के पृ० २५ में लिखे यज्ञकुण्ड में ( ओं  
भूर्भुवः स्वर्धौरिव० ) इस मन्त्र से अग्न्याधान पृ० २५-२६ में  
लिखे० ( ओं अयन्त इध्म० ) इत्यादि मन्त्रों से समिदाधान  
और पृ० २७ में लिखे०—

ओं अदितेऽनुमन्यस्व ॥

इत्यादि तीन मन्त्रों से कुण्ड की तीन ओर और ( ओं देव  
सवितः प्रसुव० ) इस मन्त्र से कुण्ड की चारों ओर दक्षिण  
हाथ की अञ्जलि से शुद्ध जल सेचन करके कुण्ड में डाली  
हुई समिधा प्रदीप्त हुए पश्चात् पृ० २७ में लि० वधू वर पुरोहित  
और कार्यकर्त्ता आधारावाज्यभागाहुति ४ ( चार ) धी की देवें ।  
तत्पश्चात् पृ० २८ में लि० व्याहृति आहुति ४ ( चार ) धी की  
और पृ० २९-३० में लि० अष्टाज्याहुति ८ ( आठ ) ये सब मिल  
के १६ ( सोलह ) अज्याहुति दे के प्रधान होम का प्रारम्भ करें ।  
अधान होम के समय वधू अपने दक्षिण हाथ को वर के दक्षिण  
स्कन्धे पर स्पर्श करके पृ० २९ में लि० ( ओं भूर्भुवः  
स्वः अग्न आयूंषि० ) इत्यादि चार मन्त्रों से अर्घात एक २ ०

एक २ मिल के ४ ( चार ) आज्याहुति क्रम से करें और—

ओं भूर्भुवः स्वः । त्वमर्यमा भवसि यत्कनीनां नाम  
स्वधावन्गुहं विमर्षि । अञ्जन्ति मित्रं सुधितं न गोभिर्य-  
दम्पती समनसा कृणोषि स्वाहा ॥ इदमग्नये—इदन्न मम ॥  
ऋ० मं० ५ । सू० ३ । मं० २ ॥

इस मन्त्र को बोलके ५ पांचवीं आज्याहुति देनी तत्पश्चात्—

ओं ऋताषाद् ऋतर्धामाग्निर्गन्धर्वः । स न इदं ब्रह्म  
क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाद् । इदमृतासाहे ऋतधाम्ने  
अग्नये गन्धर्वाय—इदन्न मम ॥ १ ॥ ओं ऋताषाद् ऋतर्धा-  
माग्निर्गन्धर्वस्तस्यौषधयोऽप्सरसो मुदो नाम । ताभ्यः  
स्वाहा । इदमोषधिभ्योऽप्सरोभ्यो मुद्भ्यः—इदन्न मम ॥ २ ॥  
ओं सश्रहितो विश्वसामा सूर्यो गन्धर्वः । स न इदं ब्रह्म  
क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाद् ॥ इदं सश्रहिताय विश्वसाम्ने  
सूर्याय गन्धर्वाय—इदन्न मम ॥ ३ ॥ ओं सश्रहितो विश्व-  
सामा सूर्यो गन्धर्वस्तस्य मरीचयोऽप्सरस आयुवो नाम  
ताभ्यः स्वाहा ॥ इदं मरीचिभ्योऽप्सरोभ्य आयुभ्यः—इदन्न  
मम ॥ ४ ॥ ओं सुषुम्णः सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वः । स  
न इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाद् ॥ इदं सुषुम्णाय,  
सूर्यरश्मये, चन्द्रमसे, गन्धर्वाय—इदन्न मम ॥ ५ ॥ ओं  
सुषुम्णः सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वस्तस्य नक्षत्राण्यप्सरसो  
भेकुर्यो नाम ताभ्यः स्वाहा ॥ इदं नक्षत्रेभ्योऽप्सरोभ्यो

मेङ्गुरिभ्यः—इदन्न मम ॥ ६ ॥ ओं इषिरो विश्वव्यञ्चा वातो  
 गन्धर्वः । स न इदं ब्रह्म चतुरं पातु तस्मै स्वाहा वाद् ॥  
 इदमिषिराय विश्वव्यचसे वाताय गन्धर्वाय—इदन्न मम ॥ ७ ॥  
 ओं इषिरो विश्वव्यञ्चा वातो गन्धर्वस्तस्यापो अप्सरस  
 ऊर्जो नाम । ताभ्यः स्वाहा ॥ इदमद्भ्यो अप्सरोभ्य  
 ऊर्गभ्यः—इदन्न मम ॥ ८ ॥ ओं भुज्युः सुपर्णो यज्ञो गन्ध-  
 र्वः । स न इदं ब्रह्म अत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाद् ॥ इदं  
 भुज्यवे सुपर्णाय यज्ञाय, गन्धर्वाय—इदन्न मम ॥ ९ ॥ ओं  
 भुज्युः सुपर्णो यज्ञो गन्धर्वस्तस्य दक्षिणा अप्सरसस्तावा  
 नाम । ताभ्यः स्वाहा ॥ इदं दक्षिणाभ्यो अप्सरोभ्यः स्ता-  
 वाभ्यः—इदन्न मम ॥ १० ॥ ओं प्रजापतिर्विश्वकर्मा मनो  
 गन्धर्वः । स न इदं ब्रह्म चतुरं पातु तस्मै स्वाहा वाद् ॥  
 इदं प्रजापतये, विश्वकर्माणे, मनसे, गन्धर्वाय इदन्न मम  
 ॥ ११ ॥ ओं प्रजापतिर्विश्वकर्मा मनो गन्धर्वस्तस्य ऋक्सा-  
 मान्यप्सरस एष्टयो नाम ताभ्यः स्वाहा ॥ इदमृक्सामे-  
 भ्योऽप्सरोभ्य एष्टिभ्यः—इदन्न मम ॥ १२ ॥ पार० कां०  
 १ । कं० ५ ॥

इति वारह (१२) मन्त्रां ले वारह (राष्ट्रभृत) आज्याहुति  
 वेनी तन्वश्चान् जयाहोम करना ॥

ओं चित्तं च स्वाहा ॥ इदं चित्ताय—इदन्न मम ॥ १ ॥  
 ओं चित्तिश्च स्वाहा ॥ इदं चित्त्यै—इदन्न मम ॥ २ ॥ ओं  
 आकृतं च स्वाहा ॥ इदमाकृताय—इदन्न मम ॥ ३ ॥ ओं

आकूतिश्च स्वाहा ॥ इदमाकूत्यै—इदन्न मम ॥ ४ ॥ ओं  
 विज्ञातञ्च स्वाहा ॥ इदं विज्ञाताय—इदन्न मम ॥ ५ ॥ ओं  
 विज्ञातिश्च स्वाहा ॥ इदं विज्ञात्यै—इदन्न मम ॥ ६ ॥ ओं  
 मनश्च स्वाहा ॥ इदं मनसे—इदन्न मम ॥ ७ ॥ ओं शक-  
 रीश्च स्वाहा ॥ इदं शकरीभ्यः—इदन्न मम ॥ ८ ॥ ओं  
 दर्शश्च स्वाहा ॥ इदं दर्शाय—इदन्न मम ॥ ९ ॥ ओं पौर्ण-  
 मासं च स्वाहा ॥ इदं पौर्णमासाय—इदन्न मम ॥ १० ॥  
 ओं बृहच्च स्वाहा ॥ इदं बृहते—इदन्न मम ॥ ११ ॥ ओं  
 रथन्तरञ्च स्वाहा ॥ इदं रथन्तराय—इदन्न मम ॥ १२ ॥  
 ओं प्रजापतिर्जयानिन्द्राय वृष्णे प्रायच्छदुग्रः प्रतना जयेषु ।  
 तस्मै विशः समनमन्त सर्वाः स उग्रः स इहव्या वभूव  
 स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये जयानिन्द्राय—इदन्न मम ॥ १३ ॥  
 पार० कां० १ । कं० ५ ॥

इन प्रत्येक मन्त्रों से एक २ करके जयाहोम की १३ (तेरह)  
 आज्याहुति देनी तत्पश्चात् अभ्यातन होम करना, इसके मन्त्र  
 ये हैं :—

ओं अग्निभूतानामधिपतिः स सावत्वस्मिन् ब्रह्मण्य-  
 स्मिन् क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां  
 देवाहृत्या० स्वाहा ॥ इदमग्नये भूतानामधिपतये—इदन्न  
 मम ॥ १ ॥ ओं इन्द्रो ज्येष्ठानामधिपतिः स सावत्वस्मिन्  
 ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्म-  
 ण्यस्यां देवहृत्या० स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय ज्येष्ठानामधिप-



तये-इदन्न मम ॥ २ ॥ ओं यमः पृथिव्याऽधिपतिः स  
 मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षेत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायाम्-  
 मस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहृत्याꣳ स्वाहा ॥ इदं यमाय पृथिव्या  
 अधिपतये-इदन्न मम ॥ ३ ॥ ओं वायुरन्तरिक्षस्याधिपतिः  
 स मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षेत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायाम्-  
 मस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहृत्याꣳ स्वाहा ॥ इदं वायवे, अन्त-  
 रिक्षस्याधिपतये-इदन्न मम ॥ ४ ॥ ओं सूर्यो दिवोधि-  
 पतिः स मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षेत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां  
 पुरोधायाम्-मस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहृत्याꣳ स्वाहा ॥ इदं  
 सूर्याय दिवोऽधिपतये-इदन्न मम ॥ ५ ॥ ओं चन्द्रमा  
 नक्षत्राणामधिपतिः स मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षेत्रेऽ-  
 स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायाम्-मस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहृत्याꣳ  
 स्वाहा ॥ इदं चन्द्रमसे नक्षत्राणामधिपतये-इदन्न मम ॥ ६ ॥  
 ओं बृहस्पतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिः स मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन्  
 क्षेत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायाम्-मस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहू-  
 त्याꣳ स्वाहा ॥ इदं बृहस्पतये ब्रह्मणोऽधिपतये-इदन्न मम  
 ॥ ७ ॥ ओं मित्रः सत्यानामधिपतिः स मावत्वस्मिन्  
 ब्रह्मण्यस्मिन् क्षेत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायाम्-मस्मिन् कर्म-  
 ण्यस्यां देवहृत्याꣳ स्वाहा ॥ इदं मित्राय सत्यानामधिप-  
 तये-इदन्न मम ॥ ८ ॥ ओं वरुणोऽपामधिपतिः स माव-  
 त्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षेत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायाम्-  
 मस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहृत्याꣳ स्वाहा ॥ इदं वरुणायाम्-

धिपतये—इदन्न मम ॥ ९ ॥ ओं समुद्रः स्रोत्यानामधिपतिः  
स मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरो-  
धायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहृत्याꣳ स्वाहा ॥ इदं समुद्राय  
स्रोत्यानामधिपतये—इदन्न मम ॥ १० ॥ ओं अन्नꣳ साम्रा-  
ज्यानामधिपतिः स मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेऽस्या-  
माशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहृत्याꣳ स्वा-  
हा ॥ इदमन्नाय साम्राज्यानामधिपतये—इदन्न मम ॥ ११ ॥  
ओं सोम ओषधीनामधिपतिः स मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन्  
क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहृ-  
त्याꣳ स्वाहा ॥ इदं सोमाय, ओषधीनामधिपतये—इदन्न  
मम ॥ १२ ॥ ओं सविता प्रसवानामधिपतिः स मावत्व-  
स्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्  
कर्मण्यस्यां देवहृत्याꣳ स्वाहा ॥ इदं सवित्रे प्रसवानामधि-  
पतये—इदन्न मम ॥ १३ ॥ ओं रुद्रः पशूनामधिपतिः स  
मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायाम-  
स्मिन् कर्मण्यस्यां देवहृत्याꣳ स्वाहा ॥ इदं रुद्राय पशूनाम-  
धिपतये—इदन्न मम ॥ १४ ॥ ओं त्वष्टा रूपाणामधिपतिः  
स मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरो-  
धायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहृत्याꣳ स्वाहा ॥ इदं त्वष्ट्रे रूपा-  
णामधिपतये इदन्न—मम ॥ १५ ॥ ओं विष्णुः पर्वतानाम-  
धिपतिः स मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेऽस्यामाशिष्य-  
स्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहृत्याꣳ स्वाहा ॥ इदं

विष्णवे पर्वतानामधिपतये-इदन्न मम ॥ १६ ॥ ओं मरुतो  
 गणानामधिपतयस्ते मावन्त्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षेत्रेऽ-  
 स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहृत्यां  
 स्वाहा ॥ इदं मरुद्भ्यो गणानामधिपतिभ्यः-इदन्न मम  
 ॥ १७ ॥ ओं पितरः पितामहाः परेऽवरे ततास्ततामहा इह  
 मावन्त्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षेत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरो-  
 धायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा ॥ इदं पितृभ्यः  
 पितामहेभ्यः परेभ्योऽवरेभ्यस्ततेभ्यस्ततामहेभ्यश्च-इदन्न  
 मम ॥ १६ ॥ पार० कां० १ । कं० ५ ॥

इस प्रकार अभ्यातन होम की १८ ( अठारह ) आज्याहुति  
 दिये पीछे पुनः—

ओं अग्निरेतु प्रथमो देवतानां सोऽस्यै प्रजां मुञ्चतु  
 मृत्युपाशात् । तदयं राजा वरुणोऽनुमन्यतां यथेयं स्त्री-  
 पौत्रमवन्न रोदात् स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न मम ॥ १ ॥  
 ओं इमामग्निस्त्रायतां गार्हपत्यः प्रजामस्यै नयतु दीर्घमायुः ।  
 अर्चन्योपस्था जीवतामस्तु माता पौत्रमानन्दमभिविबुध्य-  
 तामियं स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न मम ॥ २ ॥ मं०-ब्रा०  
 १ । १-२ ॥ ओं स्वस्ति नोऽग्ने दिवा \* पृथिव्या विश्वानि  
 धेह्ययथा यजत्र । यदस्यां मयि † दिवि जातं प्रशस्तं तद-  
 स्मासु द्रविणं धेहि चित्रं स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न मम

\* पारस्कर में "दिव आपृथिव्या" ऐसा पाठ है ॥

† पारस्कर में "महि" ऐसा पाठ है ॥

॥ ३ ॥ ओं सुगन्तु पन्थां प्रदिशन्न एहि ज्योतिष्मन्वे  
 सजरन्न आयुः । अपैतु मृत्युरमृतं म \* आगाद्वैवस्वतो नो  
 अभयं कृणोतु स्वाहा ॥ इदं वैवस्वताय—इदन्न मम ॥ ४ ॥  
 ओं परं मृत्यो अनुपरोहि पन्थां यत्र नो अन्य इतरो देव-  
 यानात् । चक्षुष्पते दृणवते ते ब्रवीमि मा नः प्रजाश्रीरिषो  
 षोत वीरान्त्स्वाहा ॥ इदं मृत्यवे—इदन्न मम ॥ ५ ॥ पार०  
 कां० १ । कं० ५ ॥ ओं द्यौस्ते पृष्ठं रक्षतु वायुरूरु अश्विनौ  
 च । स्तनन्धयस्ते पुत्रान्त्सविताभिरक्षत्वावाससः परिधाद्बृ-  
 हस्पतिर्विश्वेदेवा अभिरक्षन्तु पश्चात्स्वाहा ॥ इदं विश्वेभ्यो  
 देवेभ्यः—इदन्न मम ॥ ६ ॥ ओं मा ते गृहेषु निशि घोष  
 उत्थादन्यत्र त्वद्बुदत्यः संविशन्तु । मा त्वं रुदत्युर आव-  
 धिष्ठा जीवपत्नी पतिलोके विराज पश्यन्ती प्रजां सुमन-  
 स्यमानां स्वाहा ॥ इदमग्नये—इदन्न मम ॥ ७ ॥ ओं  
 अप्रजस्य पौत्रमर्त्यं पाप्मानमुत वा अघम् । शीर्ष्णस्रजमि-  
 बोन्मुच्य द्विपद्भ्यः प्रतिमुञ्चामि पाशं स्वाहा ॥ इदम-  
 ग्नये—इदन्न मम ॥ ८ ॥ मं० ब्रा० १ । १ । १-३ ॥

इन प्रत्येक मन्त्रों से एक २ आहुति करके आठ आज्याहुति  
 दीजिये तत्पश्चात् २८ पृष्ठ में लि० प्र०—

ओं भूरग्नये स्वाहा १ ॥

इत्यादि चार मन्त्रों से ४ ( चार ) आज्याहुति दीजिये ऐसे

\* पारस्कर में “नः” पाठ भी है ॥

† गोभिल गृह्यसूत्र प्रपा० २ । खं० १ । सू० २५ । २६ ॥

होम करके वर आसन से उठ पूर्वाभिमुख बैठी हुई वधू के सम्मुख पश्चिमाभिमुख खड़ा रहकर अपने वामहस्त से वधू का दहिना हाथ चप्ता धर के ऊपर को उचाना और अपने दक्षिण हाथ से वधू के उठाये हुए दक्षिण हस्ताञ्जलि अंगुष्ठाञ्जलि घसी प्रहण करके वर—

ओं गृम्यामि ते सौमगत्वाय हस्तं मया पत्या जरद-  
ष्टिर्यथासः । भगो अर्यमा सविता पुरन्धिर्महं त्वादुर्गाहपत्याय  
देवाः\* ॥ १ ॥ ऋ० मं० १० । सू० ८५ । मं० ३६ ॥

ओं भगस्ते हस्तमग्रभीत् सविता हस्तमग्रभीत् । पत्नी  
त्वमसि धर्मणाहं गृहपतिस्त्व १ ॥ २ ॥ ममेयमस्तु पोष्या

\* हे वरानने ! जैसे मैं (सौमगत्वाय) ऐश्वर्य सुसन्तानादि सौभाग्य की बढ़ती के लिये (ते) तेरे (हस्तम्) हाथ को (गृम्यामि) प्रहण करता हूँ तू (मया) मुझ (पत्या) पति के साथ (जरदष्टिः) वृद्धावस्था को प्राप्त सुखपूर्वक (थासः) हो तथा हे वीर ! मैं सौभाग्य की वृद्धि के लिये आप के हस्त को प्रहण करती हूँ आप मुझ पत्नी के साथ वृद्धावस्था पर्यन्त प्रसन्न और अनुकूल रहिये आप को मैं और मुझ को आप आज से पतिपत्नीभाव करके प्राप्त हुए हैं (भगः) सकल ऐश्वर्ययुक्त (अर्यमा) न्यायकारी (सविता) सब नगत् की उत्पत्ति का कर्ता (पुरन्धिः) बहुत प्रकार के जगत् का धर्ता परमात्मा और (देवाः) ये सब समामण्डप में बैठे हुए विद्वान् लोग (गार्हपत्याय) गृहाश्रम कर्म के अनुष्ठान के लिये (त्वा) मुझ को (ममम्) मुझे (अदुः) देते हैं आज से मैं आपके हस्त और आप मेरे हाथ बिक चुके हैं कभी एक दूसरे का अप्रियाचरण करेंगे ॥

† हे प्रिये ! (भगः) ऐश्वर्ययुक्त मैं (ते) तेरे (हस्तम्) हाथ

ममं त्वादाद् बृहस्पतिः । मया पत्या प्रजावति शं जीव शरदः  
शतम् \* ॥ ३ ॥ त्वष्टा वासो व्यदधाच्छुभे कं बृहस्पतेः  
प्रशिषा कवीनाम् । तेनेमां नारीं सविता भगश्च सूर्यामिव  
परिधत्तां प्रजया † ॥ ४ ॥ इन्द्राग्नी द्यावापृथिवी मात-

को ( अग्रभीत् ) ग्रहण करता हूं तथा ( सविता ) धर्मयुक्त मार्ग में  
श्रेष्ठ मैं तेरे ( इत्सम् ) हाथ को ( अग्रभीत् ) ग्रहण कर चुका हूं  
( त्वम् ) तू ( धर्मणा ) धर्म से मेरी पत्नी—भार्या ( असि ) है और  
( अहम् ) मैं धर्म से ( तत्र ) तेरा ( गृहपतिः ) गृहपति हूं अपने  
दोनों मिल के घर के कामों की सिद्धि करें और जो दोनों का  
अप्रियाचरण व्यभिचार है उसको कभी न करें जिससे घर के सब  
काम सिद्ध उत्तम सन्तान ऐश्वर्य और सुख की बढ़ती सदा होती रहे ॥

\* हे अनघे ! ( बृहस्पतिः ) सब जगत् को पालन करनेहारे  
परमात्मा ने जिस ( त्वा ) तुरू को ( ममम् ) मुझे ( अदात् ) दिया  
है ( इयम् ) यही तू जगत् भर में मेरी ( पोष्या ) पोषण करने योग्य  
पत्नी ( अस्तु ) हो, हे ( प्रजावति ) तू ( मया, पत्या ) मुझ पति के  
नाम ( शतम् ) सौ ( शरदः ) शरदऋतु अर्थात् शतवर्ष पर्यन्त ( शं,  
जीव ) सुखपूर्वक जीवन धारण कर । वैसे ही वधू भी वर से प्रतिज्ञा  
करावे । हे भद्रवीर ! परमेश्वर की कृपा से आप मुझे प्राप्त हुए हे  
मेरे लिये आपके बिना इस जगत् में दूसरा पति अर्थात् स्वामी पालन  
करनेहारा सेव्य इष्टदेव कोई नहीं है न मैं आप से अन्य दूसरे किसी  
को मानूंगी, जैसे आप मेरे सिवाय दूसरी किसी स्त्री से प्रीति न करोगे  
वैसे मैं भी किसी दूसरे पुरुष के साथ प्रीतिभाव से न वत्तां करूंगी आप  
मेरे साथ सौ वर्ष पर्यन्त आनन्द से प्राण धारण कीजिये ॥

† हे शुभानने ! जैसे ( बृहस्पतेः ) इस परमात्मा की सृष्टि में और  
उसकी तथा ( कवीनाम् ) प्राप्त विद्वानों की ( प्रशिषा ) शिष्या से दंपति

रिश्वा मित्रावरुणा भगो अश्विनोभा । बृहस्पतिर्मरुतो प्रज  
सोम इमां नारीं प्रजया वर्धयन्तु ॐ ॥ ५ ॥ अहं विष्यामि

होते हैं ( त्वष्टा ) जैसे विजुली सब को व्याप्त हो रही है वैसे तू मेरी प्रसन्नता के लिये ( वासः ) सुन्दर वस्त्र ( शुभे ) और आभूषण तथा ( कम् ) मुझ से सुख को प्राप्त हो, इस मेरी और तेरी इच्छा को परमात्मा ( न्यदधात् ) सिद्ध करे जैसे ( सवितः ) सकल जगत् की उत्पत्ति करनेहारा परमात्मा ( च ) और ( भगः ) पूर्ण पेश्वर्ययुक्त ( प्रजया ) उत्तम प्रजा से ( इमाम् ) इस तुम्हें ( नारीम् ) मुझ नर की स्त्री को ( परिधत्ताम् ) आच्छादित शोभायुक्त करे, वैसे मैं ( तेज ) इस सब से ( सूर्यमिव ) सूर्य की किरण के समान तुम्हें को वस्त्र और भूषणादि से सुशोभित सदा रक्खूंगा तथा हे प्रिय ! आप को मैं इसी प्रकार सूर्य के समान सुशोभित आनन्द अनुकूल प्रियाचरण करके ( प्रजया ) पेश्वर्य वस्त्राभूषण आदि से सदा आनन्दित रक्खूंगी ॥

ॐ हे मेरे सन्धन्वी लोगो ! जैसे ( इन्द्राग्नी ) विजुली और प्रसिद्ध अग्नि ( चावापृथिवी ) सूर्य और भूमि ( मातरिश्वा ) अन्तरिक्षस्थ वायु ( मित्रावरुणा ) प्राण और उदान तथा ( भगः ) पेश्वर्य ( अश्विना ) सदैव और सत्योपदेशक ( उभा ) दोनों ( बृहस्पतिः ) श्रेष्ठ न्यायकारी बड़ी प्रजा का पालन करनेहारा राजा ( मरुतः ) सध्य मनुष्य ( ब्रह्म ) सब से बड़ा परमात्मा और ( सोमः ) चन्द्रमा तथा सोमलतादि शोषणीगण सब प्रजा की वृद्धि और पालन करते हैं वैसे ( इमां, नारीम् ) इस मेरी स्त्री को ( प्रजया ) प्रजा से बढ़ाया करते हैं वैसे तुम भी ( वर्धयन्तु ) बढ़ाया करो जैसे मैं इस स्त्री को प्रजा आदि से सदा बढ़ाया करूंगा वैसे स्त्री भी प्रतिज्ञा करे कि मैं भी इस मेरे पति को सदा आनन्द पेश्वर्य और प्रजा से बढ़ाया करूंगी जैसे ये दोनों मिल के प्रजा को बढ़ाया करते हैं वैसे तू और मैं मिल के गृहाश्रम के अभ्युदय को बढ़ाया करें ॥

मयि रूपमस्या वेददित्पश्यन्मनसा कुलायम् । न स्तेयमपि  
घनसोदमुच्ये स्वयं श्रन्थानो वरुणस्य पाशान् \* ॥ ६ ॥

अथर्व० कां० १४ । अनु० १ । सू० १ । मं० ५१—५७ ॥

इन पाणिग्रहण के छः मन्त्रों को बोल के पश्चात् वर, वधू की हस्ताञ्जलि पकड़ के उठावे और उसको साथ लेके, ओं (कलश) कुंड की दक्षिण दिशा में प्रथम स्थापन किया था उसको वही पुरुष, जो कलश के पास बैठा था, वर वधू के साथ २ [ उसी कलश को ] ले चले, यज्ञकुण्ड की दोनों प्रदक्षिणा करके:—

ओं अमोऽहमस्मि सा त्वध सा त्वमस्यमोऽहम् ।  
सामाहमस्मि ऋक्त्वं धौरहं पृथिवी त्वं तावेव विवहावहै  
बह रेतो दधावहै । प्रजां प्रजनयावहै पुत्रान् विन्दावहै  
बहन् । ते सन्तु जरदृष्टयः संप्रियौ रोचिष्णु सुमनस्यमानौ ।

\* हे कल्याणक्रोडे जैसे (मनसा) मन से (कुलायम्) कुल की बुद्धि को (पश्यन्) देखता हुआ (अहम्) मैं (अस्याः) इस तेरे (रूपम्) रूप को (विश्यामि) प्रीति से प्राप्त और इसमें प्रेम द्वारा व्याप्त होता हूँ वैसे यह तू मेरी वधू (मयि) मुझ में प्रेम से व्याप्त होके जनकूल व्यवहार को (वेदत्) प्राप्त होवे जैसे मैं (मनसा) मन से भी इस तुझ वधू के साथ (स्तेयम्) चोरी को (उदमुच्ये) छोड़ देता हूँ और किसी उत्तम पदार्थ का चोरी से (नाभि) भोग नहीं करता हूँ (स्वयम्) आप (श्रन्थानः) पुरुषार्थ से शिथिल होकर भी (वरुणस्य) बरुण व्यवहार में विघ्नरूप दुर्न्यसनी पुरुष के (पाशान्) बन्धनों को डर करता रहूँ वैसे (इत्) ही वह वधू भी किया करे इसी प्रकार वधू भी स्वीकार करे कि मैं भी इसी प्रकार आप से वर्ता करूंगी ॥



परयेम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं ऋणुयाम शरदः  
शतम् \* ॥ १७ ॥ पार० कां० १ । कं० ६ ॥

इस प्रतिष्ठा मन्त्रों से दोनों प्रतिष्ठा करके, पश्चात् वर, वधू के पीछे रह के वधू के दक्षिण ओर समीप में जा उत्तर-मिमुख सड़ा रहके वधू की दक्षिणाञ्जलि अपनी दक्षिणाञ्जलि के पकड़ के दोनों खड़े रहें, और वह पुरुष पुनः कुंड के दक्षिण में कलश लेके बैठे जैसे तत्पश्चात् वधू की माता अथवा माई जो प्रथम चावल और ज्वार की धाणी सूप में रक्खी की उसको चायें हाथ में ले के दहिने हाथ से वधू का दक्षिण हाथ उठवा के पत्थर की शिला पर चढ़वावे और उस समय वर—

\* हे वधू जैसे ( अहम् ) मैं ( अमः ) ज्ञानवान् ज्ञानपूर्वक तेरा ग्रहण करनेवाला ( अस्मि ) होता हूं जैसे ( सा ) सो ( त्वम् ) तू भी ज्ञानपूर्वक मेरा ग्रहण करनेहारी ( असि ) है जैसे ( अहम् ) मैं अपने पूर्व प्रेम से तुम्हको ( अमः ) ग्रहण करता हूं जैसे ( सा ) सो मैं भी ग्रहण की हुई ( त्वम् ) तू मुझ को भी ग्रहण करती है ( अहम् ) मैं ( साम ) सामवेद के तुल्य प्रशंसित ( अस्मि ) हूं हे वधू ! तू ( अथर्व ) अथर्ववेद के तुल्य प्रशंसित है ( त्वम् ) तू ( पृथिवी ) पृथिवी के समान अग्निदि गृहाश्रम के व्यवहारों को धारण करनेहारी है और मैं ( सौः ) सूर्य करनेहार सूर्य के समान हूं वह तू और मैं ( तावेव ) दोनों ही ( विवाहवहै ) प्रसन्नतापूर्वक विवाह करें ( सह ) साथ मिल के ( रेतः ) धर्म को ( दधावहै ) धारण करें ( प्रजाम् ) उत्तम प्रजा को ( प्रजन्-करोरे ) उत्पन्न करें ( बहून् ) बहुत ( पुत्रान् ) पुत्रों को ( विन्दावहै ) प्राप्त होवें ( ते ) वे पुत्र ( जरदष्टयः ) जरावस्था के अन्त तक जीवनपुत्र ( बन्तु ) रहें ( संप्रियौ ) अच्छे प्रकार एक दूसरे से प्रसन्न ( रोत्रिण्य )

ओं आरोहेमश्मानमश्मेत्र त्वं स्थिरा मव । अभि-  
तिष्ठ पृतन्यतोऽवबाधस्व पृतनायतः ॥ १ ॥ पा० का०  
१ । कं० ७ ॥

इस मन्त्र को बोले तत्पश्चात् वधू वर कुंड के समीप  
आके पूर्वाभिमुख दोनों खड़े रहें और यहां वधू दक्षिण ओर  
रहके अपनी हस्ताञ्जलि को वर की हस्ताञ्जलि पर रखके  
तत्पश्चात् वधू की मा वा भाई जो बायें हाथ में धाणी का  
सूपड़ा पकड़ के खड़ा रहा हो वह धाणी का सूपड़ा भूमि पर  
पर अथवा किसी के हाथ में देके जो वधू वर की एकत्र की  
हुई अर्थात् नीचे वर की और ऊपर वधू की हस्ताञ्जलि है  
उसमें प्रथम थोड़ा घृत सिंचन करके पश्चात् प्रथम सूप में से  
रहिने हाथ की अञ्जलि से दो बार ले के वर वधू की एकत्र  
की हुई अञ्जलि में धाणी डाले पश्चात् उस अञ्जलिस्थ धाणी  
पर थोड़ासा घी सिञ्चन करे पश्चात् वधू वर की हस्ताञ्जलि  
सहित अपनी हस्ताञ्जलि को आगे से नमा के —

ओं अर्यमाणं देवं कन्या अग्निमयक्षत । स नो अर्यमा  
देवः प्रेतो मुञ्चतु मा पतेः स्वाहा ॥ इदमर्यम्णे अग्नये-  
इदन्न मम ॥ १ ॥ ओं इयं नार्युपब्रूते लांजानावपन्तिका ।  
आयुष्मानस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ॥ इदम-

दूसरे में रुचियुक्त एक ( सुमनस्यमानौ ) अच्छे प्रकार विचार करते हुए  
( शतम् ) सौ ( शरदः ) शरदऋतु अर्थात् शत वर्ष पर्यन्त एक दूसरे  
को प्रेम की दृष्टि से ( पश्येम ) देखते रहें ( शतं, शरदः ) सौ वर्ष पर्यन्त  
आनन्द से ( जीवेम ) जीते रहें और ( शतं, शरदः ) सौ वर्ष पर्यन्त  
दिव्य वचनों को ( शृण्वाम ) सुनते रहें ॥

अग्नये—इदम् मम ॥ २ ॥ ओं इमाँश्चाजानायपाम्यग्नौ समृ-  
द्धिकरणं तव । मम तुभ्यं \* च संवदनं \* तदग्निरनुमम्यता-  
मियं स्वाहा ॥ इदमग्नये—इदन्न मम ॥ ३ ॥ पार० का०  
१ । कं० ६ ॥

इन तीन मन्त्रों में एक २ मन्त्र से एक २ बार थोड़ी २  
खाड़ी की आहुति तीन बार प्रज्वलित इन्धन पर दे के वर—

ओं सरस्वति प्रेदमघ सुमगे वाजिनीवति । यान्त्वा  
विश्वस्य भूतस्य प्रजायामस्याग्रतः । यस्यां भूतं समभवत्-  
स्यां विश्वमिदं जगत् । तामघ गाथां गास्यामि या स्त्रीषा-  
हृतमं यशः ॥ १ ॥ पार० का० १ । कं० ७ ॥

इस मन्त्र को बोल के अपने जमणे हाथ की हस्ताञ्जलि से  
बधु की हस्ताञ्जलि पकड़ के वर—

ओं तुभ्यमग्रे पर्यवहन्त्सूर्या बहत्तु ना सह । पुनः पति-  
भ्यो जायां दा अग्ने प्रजया सह ॥ १ ॥ ऋ० सं० १० ।  
पू० ८५ । सं० ३८ ॥ ओं कन्यला पितृभ्यः पतिलोकं  
श्रीतीयमवर्दान्नामयष्ट । कन्या उत त्वया वयं धारा उदन्या  
इवातिगाहेमहि द्विपः ॥ २ ॥ सं० ब्रा० १ । २ । ५ † ॥

इन मन्त्रों को पढ़ यज्ञकुण्ड की प्रदक्षिणा करके यज्ञकुण्ड  
के पश्चिम भाग में पूर्व की ओर मुख करके थोड़ी देर दोनों

\* पारस्कर में तथा सं० १६३३ की संस्कारविधि में "तुभ्यं" और  
"संवदनम्" पाठ है ।

† तथा गोभिन्न नृ० षपा० २ । सं० २ । सू० ६ ॥

झड़े रहें, तत्पश्चात् पूर्वोक्त प्रकार कलश सहित यज्ञकुण्ड की प्रदक्षिणा कर पुनः दोवार इसी प्रकार अर्थात् सब मिल के ४ (चार) परिक्रमा करके अन्त में यज्ञकुण्ड के पश्चिम में (थोड़ा ठड़े रह के उक्त रीति से तीन वार क्रिया पूरी हुए पश्चात् यज्ञकुण्ड के पश्चिम भाग में) पूर्वाभिमुख वधू वर खड़े रहें। पश्चात् वधू की मा अथवा भाई उस स्तूप को तिरछा करके उसमें बाकी रही हुई धाणी को वधू की हस्ताब्जलि में डाल देवे पश्चात्—

ओं भगाय स्वाहा \* । इदं भगाय—इदन्न मम ॥

इस मन्त्र को बोल के प्रज्वलित अग्नि पर वेदी में उस धाणी की एक आहुति देवे। पश्चात् वर, वधू को दक्षिण भाग में रखके कुण्ड के पश्चिम पूर्वाभिमुख बैठ के—

ओं प्रजापतये स्वाहा † ॥ इदं प्रजापतये—इदन्न मम ॥

इस मन्त्र को बोल के सुवा से एक घृत की आहुति देवे तत्पश्चात् एकान्त में जा के वधू के बंधे हुए केशों को वर—

प्र त्वा मुञ्चामि वरुणस्य पाशाद्येन त्वावध्नात्सवित्ता  
सुशेवाः । ऋतस्य योनौ सुकृतस्य लोकेऽरिष्टान्त्वा सह  
पत्या दधामि ॥ १ ॥ प्रतो मुञ्चामि नामतस्सुवद्दाममुव-  
स्करम् । यथेयमिन्द्र मीद्वः सुपुत्रा सुमगा सती ॥ २ ॥  
ऋ० मं० १० । सू० ८५ । मं० २४ । २५ ॥

इन दोनों मन्त्रों को बोल के प्रथम वधू के केशों को छो-

\* पारस्कर के अनुसार यह आहुति वधू देती है । कां० १ । कं० ७ ॥

† पारस्कर कां० १ । कं० ७ ॥

पुत्रा, तत्पश्चात् सभामण्डप में आके सप्तपदी विधि का आरम्भ करे, इस समय वर के उपवस्त्र के साथ वधू के उत्तरीय बन्धा की गांठ देनी इसे जोड़ा कहते हैं। वधू वर दोनों जने आसन पर से उठके वर अपने दक्षिण हाथ से वधू की दक्षिण हस्ताब्जलि पकड़ के यक्षकुण्ड के उत्तरभाग में जावें, तत्पश्चात् वर अपना दक्षिण हाथ वधू के दक्षिण स्कन्धे पर रख के दोनों जमीप २ उत्तराभिमुख खड़े रहें तत्पश्चात् वर—

मासव्येन दक्षिणमतिक्राम ।

ऐसा बोल के वधू को उसका दक्षिण पग उठवा के चलने के लिये आज्ञा देवे और—

श्रीं इषे एकपदी भव सा मामनुव्रता भव विष्णुस्त्वान-  
यतु पुत्रान् विन्दावहै वहँस्ते सन्तु जरदष्टयः ॥ १ ॥

इस मन्त्र को बोल के वर अपने साथ वधू को लेकर ईशान दिशा में एक पग \* चले और चलावे ।

श्रीं ऊर्जे द्विपदी० १० ॥ इस मन्त्र से दूसरा ॥

श्रीं रायस्पोपाय त्रिपदी भव० ॥ इस मन्त्र से तीसरा ॥

\* इस पग धरने की विधि ऐसी है कि वधू प्रथम अपना जमण्डल पग उठा के ईशानकोण की ओर बढ़ा के धरे तत्पश्चात् दूसरे बांये पग को उठा के जमण्डल पग की पटली तक धरे अर्थात् जमण्डल पग के थोड़ासा पीछे बायां पग रखे इसी को एक पगला गिणना, इसी प्रकार अगले ४ मन्त्रों से भी क्रिया करनी अर्थात् एक २ मन्त्र से एक २ पग ईशान दिशा की ओर धरना ॥

† जो भव के आगे मन्त्र में पाठ है सो छः मन्त्रों से इस भव पद के आगे पूरा बोल के पग धरने की क्रिया करनी ॥

ओं मयोभवाय \* चतुष्पदी भव० ॥ इस मन्त्र से चौथा ॥

ओं प्रजाभ्यः \* पञ्चपदी भव० ॥ इस मन्त्र से पांचवां ॥

ओं ऋतुभ्यः षट्पदी भव० ॥ इस मन्त्र से छठा और—

ओं सखे सप्तपदी \* भव० ॥ पार० कां० १ । कं० ८ ॥

इस मन्त्र से सातवां पगला चलना । इस रीति से इन सात मन्त्रों से सात पग ईशान दिशा में चला के वधू वर दोनों पाँठ बन्धे हुए शुभासन पर बैठें । तत्पश्चात् प्रथम से जो जल के कलश को ले के यज्ञकुण्ड की दक्षिण की ओर में बैठाया था वह पुरुष उस पूर्वस्थापित जलकुम्भ को ले के वधू वर के समीप आवे और उसमें से थोड़ासा जल ले के वधू † वर के मस्तक पर छिटकावे और वर—

ओं आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन । मुहे  
रषाय चक्षसे ॥ १ ॥ यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजय-  
तेह नः । उशतीरिव मातरः ॥ २ ॥ तस्मा अरङ्गमाम बो-  
यस्य क्षयाय जिन्वथ । आपो जनयथा च नः ॥ ३ ॥ ऋ०  
मण्ड० १० । सू० ६ । मं० १-३ ॥ ओः आपः शिवाः

\* मेडिकलहाल यन्त्रालय, सं० १६५२ में मुद्रित पारस्कर गृह्यसूत्र के पृ० ११३ में “मयोभवाय” के स्थान में “मायोभवाय” “प्रजाभ्यः” के स्थान में “पशुभ्यः” तथा “सप्तपदी” के स्थान में “सप्तपदा” पाठ है ॥

† पारस्कर गृह्यसूत्र में केवल वधू के मस्तक पर जल छिटकने का विधान है । कां० १ । कं० ८ । वधू वर के स्थान में वर, वधू पेसा पाठ कर देने से पारस्कर के अनुकूलता होजाती है ॥

शिवतमाः शान्ताः शान्ततमास्तास्तेक एवन्तु भेषजम् \* ॥४॥

इन चार मन्त्रों को बोले । तत्पश्चात् वधू वर वहां से हट के—

ओं तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् । पश्येम शरदः  
शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम  
शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः  
शतात् ॥ १ ॥ य० अ० ३६ । मं० २४ ॥

इस मन्त्र को पढ़ के सूर्य का अवलोकन करें । तत्पश्चात् वर, वधू के दक्षिण स्कन्ध पर से अपना दक्षिण हाथ ले के इससे वधू का हृदय स्पर्श करके—

ओं मम व्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनु चित्तं ते  
अस्तु । मम वाचमेकमना जुपस्व प्रजापतिष्ट्वा नियुनक्तु  
ममम् ॥ पार० कां० १ । क० ८ ॥

इस मन्त्र को बोले, और उसी प्रकार वधू भी अपने दक्षिण हाथ से वर के हृदय का स्पर्श करके इसी ऊपर लिखे

\* पारस्कर कां० १ । क० ८ ॥

ॐ हे वधू ! ( ते ) देवे ( हृदयम् ) अन्तःकरण और आत्मा को  
( मम ) मेरे ( व्रते ) कर्म के अनुकूल ( दधामि ) धारण करता हूँ  
( मम ) मेरे ( चित्तमनु ) चित्त के अनुकूल ( ते ) तेरा ( चित्तम् )  
चित्त सदा ( अस्तु ) रहे ( मम ) मेरी ( वाचम् ) वाणी को तू ( एक  
मनाः ) एकाग्रचित्त से ( जुपस्व ) सेवन किया कर ( प्रजापतिः ) प्रज  
का पालन करने वाला परमात्मा ( त्वा ) तुम्हें को ( ममम् ) मेरे लिये  
( नियुनक्तु ) नियुक्त करे ॥

हुए मन्त्र को बोले \* ॥

तत्पश्चात् वर, वधू के मस्तक पर हाथ धरके:—

सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत । सौभाग्यमस्यै  
दत्त्वा याथास्तं विपरंतन ॥ ऋ० मण्ड० १० । सू० ८५ ।  
मं० ३३ ॥

इस मन्त्र को बोल के कार्यार्थ आये हुए लोगों की ओर  
अवलोकन करना और इस समय सब लोग—

ओं सौभाग्यमस्तु । ओं शुभं भवतु ॥

इस वाक्य से आशीर्वाद देवें । तत्पश्चात् वधू वर यज्ञकुण्ड  
के समीप पूर्ववत् बैठ के पुनः पृष्ठ २८ में लिखे प्रमाणे दोनों  
( ओं यदस्य कर्मणो० ) इस स्विष्टकृत् मन्त्र से होमाहुति अ-  
र्थात् एक आज्याहुति और पृष्ठ २८ में लिखे—

ओं भूरग्नये स्वाहा ॥

इत्यादि चार मन्त्रों से एक २ से एक-२ आहुति करके ४  
( चार ) आज्याहुति देवें और इस प्रमाणे विवाह के विधि पूरे

\* वैसे ही हे प्रियवीर स्वामिन् ! आपका हृदय आत्मा और अन्तः-  
करण मेरे प्रियाचरण कर्म में धारण करती हूँ । मेरे चित्त के अनुकूल  
आपका चित्त सदा रहे । आप एकाग्र हो के मेरी वाणी का जो कुछ  
मैं आप से कहूँ उसका सेवन सदा किया कीजिये । क्योंकि आज से  
अज्ञापित परमात्मा ने आप को मेरे आधीन किया है । जैसे मुझको आप  
के आधीन किया है । अर्थात् इस प्रतिज्ञा के अनुकूल दोनों व्रती करें,  
जिससे सर्वदा आनन्दित और कीर्तिमान् पतिव्रता और सौमित्र होके सब  
प्रकार के व्यभिचार अमियभाषणादि को छोड़ के परस्पर प्रीतियुक्त रहें ॥



हुप पश्चात् दोनों जने आराम अर्थात् विश्राम करें। इस से थोड़ासा विश्राम करके विवाह की उत्तरविधि करें। उत्तरविधि सब वधू के घर की ईशान दिशा में विशेष एक घर प्रथम से बना रक्खा हो वहां जाके करनी। श्वात् सूर्य अस्त हुप पीछे आकाश में नक्षत्र दीखें उस वधू वर यज्ञकुण्ड के पश्चिम भाग में पूर्वाभिमुख आस बैठें और पृष्ठ २५ में लि० अग्न्याधान ( ओं भूर्भुवः स्व इति मन्त्र से करें। यदि प्रथम ही सभामण्डप ईशान दिशा हुआ और प्रथम अग्न्याधान किया हो तो अग्न्याधान न ( ओं अयन्त इध्म० ) इत्यादि ४ मन्त्रों से समिदाधान जब अग्नि प्रदीप्त होवे तब पृष्ठ २७ में लिखे प्रमाणे—

ओं अग्नये स्वाहा ॥ आथला० गृ० अ० १।

१०। घृ० १३ ॥

इत्यादि ४ ( चार ) मन्त्रों से आधारावाज्यभाग ( चार ) और पृष्ठ २८ में लिखे प्रमाणे—

ओं भूरग्नये स्वाहा ॥

इत्यादि ४ ( चार ) मन्त्रों से ४ ( चार ) व्याहृति ये सब मिल के = ( आठ ) आज्याहुति देवें। तत्पश्चात् अग्न्याधान होम करें निम्नलिखित मन्त्रों से—

ओं लेखासन्धिषु पद्मस्त्रावर्तेषु \* च यानि तानि ते पूर्णाहुत्या सर्वाणि शमयाम्यहं स्वाहा।  
कन्यायै-इदन्न मम ॥ १ ॥ ओं केशेषु यच्च पापकर्म

\* सं० १६४१ की संस्कारविधि में "पञ्चमवारोकेषु" पाठ है

कृदिते च यत् । तानि० ॥ २ ॥ ओं शीलेषु यच्च पापकं  
भाषिते हसिते च यत् । तानि० ३ ॥

ओं आरोग्येषु दन्तेषु हस्तयोः पादयोश्च यत् । तानि०  
॥ ४ ॥ ओं ऊर्वोपस्थे जङ्घयोः सन्धानेषु च यानि ते ।  
तानि० ॥ ५ ॥ ओं यानि कानि च घोराणि सर्वाङ्गेषु  
लवामवन् । पूर्णाहुतिभिराज्यस्य सर्वाणि तान्यशीशमं  
स्वाहा ॥ इदं कन्यायै-इदन्न मम ॥ ६ ॥ मं० ब्रा० १ ।  
३ । १-६ ॥

ये छः मन्त्र हैं इन में से एक २ मन्त्र बोल छः आज्याहुति  
देनी । तत्पश्चात् पृष्ठ २८ में लिखे--

ओं भूरग्नये स्वाहा

इत्यादि ४ ( चार ) व्याहृति मन्त्रों से ४ ( चार ) आज्या-  
हुति देके वधू वर वहां से उठ के सभामण्डप के बाहर उत्तर  
दिशा में जावें । तत्पश्चात् वर—

ध्रुवं पश्य

ऐसा बोलके वधू को ध्रुव का तारा दिखलावे \* और वधू  
वर से बोले कि मैं—

पश्यामि

ध्रुव के तारे को देखती हूं । तत्पश्चात् वधू [ बोले ]

\* हे वधू वा वर जैसे यह ध्रुव इदं स्थिर है इसी प्रकार आप और  
मैं एक दूसरे के प्रियाचरणां में इदं स्थिर रहें ॥

ओं ध्रुवमसि ध्रुवाहं पतिकुले भूयासम् (अमुष्य †  
असौ) गोभिलगृ० प्र० २ । खं० ३ । सू० ८ ॥

इस मन्त्र को बोले । तत्पश्चात्—

अरुन्धतीं पश्य ॥ गोभिलगृ० प्र० २ । खं० ३ । सू० ६ ॥

ऐसा वाक्य बोल के वर, वधू को अरुन्धती का तारा दि-  
खावे और वधू—

पश्यामि

ऐसा कहके—

ओं अरुन्धत्यासि † रुद्राहमस्मि (अमुष्य † असौ +)

\* (अमुष्य) इस पद के स्थान में पृष्ठीविभक्तयन्त पति का नाम बोलना, जैसे—शिवशर्मा पति का नाम हो तो “शिवशर्मणः” ऐसा और (असौ) इस पद के स्थान में वधू अपने नाम को प्रथमाविभक्तयन्त बोल के इस मन्त्र को पूरा बोले, जैसे “भूयासं शिवशर्मणस्ते साभारुद्राहम्” इस प्रकार दोनों पद जोड़ के बोले ॥

† “अरुन्धत्यासि” इतना पाठ गोभिल में नहीं ॥

‡ (अमुष्य) इस पद के स्थान में पति का नाम पठयन्त और (असौ) इसके स्थान में वधू का प्रथमान्त नाम जोड़कर बोले “हे स्वामिन् ! साभारुद्रा (अहम्) में (अमुष्य) आप शिवशर्मा की अर्धाङ्गी (पतिकुले) आपके कुल में (ध्रुवा) निश्चल जैसे कि आप (ध्रुवम्) दृढ़ निश्चय बाले मेरे स्थिर पति (असि) हैं वैसे मैं भी आपकी स्थिर दृढ़ पत्नी (भूयासम्) होंगी ॥”

+ गोभिल गृ० प्र० २ । खं० ३ । सू० १० ॥

१ वाक्य ।

२ “हे स्वामिन् !” से लेकर “होंगी” तक का पाठ पृ० १७६ की द्वि गिय पंक्ति के “अमुष्य असौ” के फुट-नोट की समाप्ति पर जानो ॥

इस मन्त्र को बोल के ( वर ) वधू की ओर देख के वधू के मस्तक पर हाथ धरके—

ओं ध्रुवा द्यौर्ध्रुवा पृथिवी ध्रुवं विश्वविदं जगत् ।  
ध्रुवासः पर्वता इमे ध्रुवा स्त्री पतिकुले इयम् \* ॥ मं०  
ब्रा० १ । ६ । ६ ॥

ओं ध्रुवमसि ध्रुवन्त्वा पश्यामि ध्रुवैधि पोष्ये मयि ।  
मह्यं त्वादात् बृहस्पतिर्मया पत्या प्रजावती संजीव शरदः  
शतम् † ॥ पार० कां० १ । कं० ८ ॥

\* हे वरानने ! जैसे ( द्यौः ) सूर्य की कान्ति वा विद्युत् ( ध्रुवा ) सूर्यलोक वा पृथिव्यादि में निश्चल जैसे ( पृथिवी ) भूमि अपने स्वरूप में ( ध्रुवा ) स्थिर जैसे ( इदम् ) यह ( विश्वम् ) सब ( जगत् ) संसार प्रवाहस्वरूप में ( ध्रुवम् ) स्थिर है जैसे ( इमे ) ये प्रत्यक्ष ( पर्वताः ) पहाड़ ( ध्रुवासः ) अपनी स्थिति में स्थिर हैं वैसे ( इयम् ) यह तू मेरी ( स्त्री ) ( पतिकुले ) मेरे कुल में ( ध्रुवा ) सदा स्थिर रह ।

† हे स्वामिन् ! जैसे आप मेरे समीप ( ध्रुवम् ) दृढ़ सङ्कल्प करके स्थिर ( असि ) हैं या जैसे मैं ( त्वा ) आपको ( ध्रुवम् ) स्थिर दृढ़ ( पश्यामि ) देखती हूँ वैसे ही सदा के लिये मेरे साथ आप दृढ़ रहियेगा क्योंकि मेरे मन के अनुकूल ( त्वा ) आपको ( बृहस्पतिः ) परमात्मा ( अदात् ) समर्पित कर चुका है वैसे मुझ पत्नी के साथ उत्तम प्रजायुक्त होके ( शतं, शरदः ) सौ वर्ष पर्यन्त ( सम्, जीव ) जीविये तथा हे वरानने पत्नी ( पोष्ये ) धारण और पालन करने योग्य ( मयि ) मुझ पति के निकट ( ध्रुवा ) स्थिर ( पृथि ) रह ( मह्यम् ) मुझ को अपनी मनसा के अनुकूल तुम्हें परमात्मा ने दिया है तू ( मया ) मुझ ( पत्या ) पति के साथ ( प्रजावती ) बहुत उत्तम प्रजायुक्त होकर सौ

इन दोनों मन्त्रों को बोले । पश्चात् वधू और वर दोनों यज्ञ-  
कुण्ड के पश्चिम भाग में पूर्वाभिमुख हो के कुण्ड के समीप  
बैठें और पृ० २४ में लिखे—

ओं अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥

इत्यादि तीन मन्त्रों से एक २ से एक २ आचमन करके  
तीन २ आचमन दोनों करें । पश्चात् पृष्ठ १८ में लिखी हुई  
समिधाओं से यज्ञकुण्ड में अग्नि को प्रदीप्त करके पृष्ठ १८ में  
लिखे० घृत और स्थालीपाक । अर्थात् भात को उसी समय  
बनावें । पृष्ठ २५-२६ में लिखे प्रमाणे “ओम् अयन्त इध्म०”  
इत्यादि चार मन्त्रों से समिधा होम दोनों जने करके पश्चात्  
पृष्ठ २७-२८ में लिखे प्रमाणे आधारावाज्यभागाहुति ४ (चार)  
और व्याहृति आहुति चार दोनों मिलके ८ (आठ) आज्या-  
हुति वर वधू दें । तत्पश्चात् जो ऊपर सिद्ध किया हुआ  
आदन अर्थात् भात उसको एक पात्र में निकाल के उसके  
ऊपर स्रुवा से घृत सेचन करके घृत और भात को अच्छे  
प्रकार मिलाकर दक्षिण हाथ से थोड़ा थोड़ा भात दोनों जने  
ने के—

ओं अग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये इदन्न मम । ओं  
प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये—इदन्न मम । ओं विश्वे-  
भ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥ इदं विश्वेभ्यो देवेभ्यः—इदन्न मम ।  
ओम् अनुमतये स्वाहा ॥ इदमनुमतये—इदन्न मम ॥

इन में से प्रत्येक मन्त्र से एक २ करके ४ (चार) स्था-  
लीपाक अर्थात् भात की आहुति देनी । तत्पश्चात् पृष्ठ २८

पर्यन्त आनन्दपूर्वक जीवन धारण कर । वधू वर ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा  
करें कि जिससे कभी उल्लटे विरोध में न चलें ।

में लिखे ( ओं यदस्य कर्मणो० ) इस मन्त्र से एक स्विष्टकृत् आहुति देनी । तत्पश्चात् पृष्ठ २८ में लि० प्रमाणे व्याहृति आहुति ४ ( चार ) और पृष्ठ २६-३० में लिखे० अष्टाज्याहुति ८ ( आठ ) दोनों मिलके १२ ( बारह ) आज्याहुति देनी । तत्पश्चात् शेष रहा हुआ भात एक पात्र में निकाल के उस पर घृत सेचन और दक्षिण हाथ रख के:—

ओं अन्नपाशेन मणिना प्राणसूत्रेण पृथ्विना । बध्नामि सत्यग्रन्थिना मनश्च हृदयं च ते \* ॥ १ ॥ ओं यदेतद्दृदयं तव तदस्तु हृदयं मम । यदिदं हृदयं मम तदस्तु हृदयं तव † ॥ २ ॥ ओं अन्नं प्राणस्य षड्विंशस्तेन बध्नामि त्वा असौ ‡ ॥ ३ ॥ मं० ब्रा० १ । ३ । ८-१० ॥

\* हे चधु वर ! जैसे अन्न के साथ प्राण, प्राण के साथ अन्न तथा अन्न और प्राण का अन्तरिक्ष के साथ सम्बन्ध है वैसे ( ते ) तेरे ( हृदयम् ) हृदय ( च ) और ( मनः ) मन ( च ) और चित्त आदि को ( सत्यग्रन्थिना ) सत्यता की गांठ से ( बध्नामि ) बांधती वा बांधता हू ॥

† हे वर हे स्वामिन् वा हे पत्नी ! ( यदेतत् ) जो यह ( तव ) तेरा ( हृदयम् ) आत्मा वा अन्तःकरण है ( तत् ) वह ( मम ) मेरा ( हृदयम् ) आत्मा अन्तःकरण के तुल्य प्रिय ( अस्तु ) हो और ( मम ) मेरा ( यदिदम् ) जो यह ( हृदयम् ) आत्मा प्राण और मन है ( तत् ) सो ( तव ) तेरे ( हृदयम् ) आत्मादि के तुल्य प्रिय ( अस्तु ) सदा रहे ॥

‡ ( असौ ) हे यशोदे ! जो ( प्राणस्य ) प्राणका पोषण करने द्वारा ( षड्विंशः ) २६ ( छत्वीसवां ) तत्व ( अन्नम् ) अन्न है ( तेन ) उससे ( त्वा ) तुझ को ( बध्नामि ) दृढ़ प्रीति से बांधता वा बांधती हू ॥

इन तीनों मन्त्रों को मन से जप के वर उस भात में छे प्रथम थोड़ासा भक्षण करके जो उच्छिष्ट शेष भात रहे वह अपनी वधू के लिये खाने को देवे और जब वधू उसको खा-  
 चुके तब वधू वर यज्ञमण्डप में सन्नद्ध हुए शुभासन पर नियम प्रमाणे पूर्वाभिमुख बैठें और पृष्ठ ३१-३२ में लि० प्रमाणे सामवेदोक्त महावामदेव्यगान करें। तत्पश्चात् पृष्ठ ५-६ में लि० प्रमाणे ईश्वर की स्तुति, प्रार्थनोपासनां, स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण कर्म करके चार लवण रहित मिष्ट दुग्ध घृतादि सहित भोजन करें। तत्पश्चात् पृष्ठ ५६ में लिखे प्रमाणे पुरो-  
 हितादि सद्धर्मां और कार्यार्थ इकट्ठे हुए लोगों को सम्मानार्थ उत्तम भोजन कराना। तत्पश्चात् यथायोग्य पुरुषों का पुरुष और स्त्रियों का स्त्री आदर सत्कार करके विदा कर दें। तत्पश्चात् दश घटिका रात्रि जाय तब वधू और वर पृथक् २ स्थान में भूमि में विछौना करके तीन रात्रिपर्यन्त ब्रह्मचर्य व्रत सहित रहकर शयन करें, और ऐसा भोजन करें कि स्वप्न में भी वीर्यपात न होवे। तत्पश्चात् चौथे दिवस विधिपूर्वक गर्भाधानसंस्कार करें। यदि चौथे दिवस कोई अड़चल आवे तो अत्रिक दिन ब्रह्मचर्यव्रत में दृढ़ (रह) कर जिस दिन दोनों की इच्छा हो और पृष्ठ ३६ में लिखे प्रमाणे गर्भाधान की रात्रि भी हो उस रात्रि में यथाविधि गर्भाधान करें। तत्पश्चात् दूसरे वा तीसरे दिन प्रातःकाल वरपक्षवाले लोग वधू और घर को रथ में बैठा के बड़े सम्मान से अपने घर में लावें और जो वधू अपने माता पिता के घर को छोड़ते समय आंख में अश्रु भर लावे तो:—

जीवं रुदन्ति विमयन्ते अघ्वरे दीर्घामनु प्रसितिं दीधि-  
 युनरः । वामं पितृभ्यो य इदं समरिरे मयः पतिभ्यो जनयः

परिष्वजे ॥ ऋ० मं० १० । सू० ४० । मं० १० ॥

इस मन्त्र को वर बोले और रथ में बैठते समय वर अपने साथ दक्षिण बाजू वधू को बैठावे उस समय में वरः—

पूषा त्वेतो नयतु हस्तगृह्याश्विना त्वा प्र वहतां स्येन ।  
गृहान्गच्छ गृहपत्नी यथासौ वशिनी त्वं विद्यमा वदासि  
॥ १ ॥ सुकिंशुकं शल्मलिं विश्वरूपं हिरण्यवर्णं सुवृत्तं  
सुचक्रम् । आ रोह सूर्ये अमृतस्य लोकं स्योनं पत्ये वदतु  
कुरुष्व ॥ २ ॥ ऋ० मं० १० । सू० ८५ । मं० २६, २० ॥

इन दो मन्त्रों को बोल के रथ को चलावे । यदि वधू का वहां से अपने घर लाने के समय नौका पर बैठना पड़े तो इस निम्नलिखित मन्त्र को पूर्व बोल के नौका पर बैठे—

अश्मन्वती रीयते सं रमध्वमुत्तिष्ठत प्र तस्ता सखायः ॥  
और नौका से उतरते समय—

अत्रा जहाम ये असन्नशत्राः शिवान्वयमुत्तरेमामि  
वाजान् ॥ ऋ० मं० १० । सू० ५३ । मं० ८ ॥

इस उत्तरार्द्ध मन्त्र को बोल के नाव से उतरे । पुनः इसी प्रकार मार्ग-चार में मार्गों का संयोग, नदी, व्याघ्र, चोर आदि से भय वा भयंकर स्थान, ऊंचे नीचे खाड़ावाली पृथिवी, बड़े रूखों का झुंड वा श्मशानभूमि आवे तो—

मा विदन् परिपन्थिनो य आसीदन्ति दम्पती । सुगे-  
मिर्दुर्गमतीतामपं द्रान्त्वरतयः ॥ ऋ० मं० १० । सू० ८५ ।  
मं० ३२ ॥



इस मन्त्र को बोले । तत्पश्चात् वधू वर जिस रथ में बैठके जाते हों उस रथ का कोई अंग टूट जाय अथवा किसी प्रकार का अकस्मात् उपद्रव होवे तो मार्ग में कोई अच्छा स्थान देख के निवास करना और साथ रखे हुए विवाहाग्नि को प्रगट करके उसमें पृष्ठ २८ में लिखे प्रमाणे ४ चार (व्याहृति) आज्या हुति देनी । पश्चात् पृष्ठ ३१-३२ में लिखे प्रमाणे वामदेव्यगान करना । पश्चात् जब वधू वर का रथ वर के घर के आगे आ पहुंचे तब कुलीन पुत्रवती सौभाग्यवती वा कोई ब्राह्मणी वा अपने कुल की स्त्री आगे सामने आकर वधू का हाथ पकड़ के वर के साथ रथ से नीचे उतारे और वर के साथ सभामण्डप में लेजावे सभामण्डप द्वारे आते ही वर वहां कार्यार्थ आये हुए लोगों की ओर अवलोकन करके—

सुमुङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पर्यत । सौभाग्यमस्यै  
दत्त्वा याथास्तं वि परेतन ॥ १ ॥ ऋ० मं० १० । सू० ८५ ।  
मं० ३३ ॥

इस मन्त्र को बोले और आये हुए लोग—

ओं सौभाग्यमस्तु, ओं शुभं भवतु ।

इस प्रकार आशीर्वाद देवें । तत्पश्चात् वरः—

इह प्रियं प्रजया ते समृध्यतामस्मिन्नाहे गार्हपत्याय  
जागृहि । एना पत्या तन्वः सं सृजुस्वाधा जित्री वि दयमा  
वदायः ॥ ऋ० मं० १० । सू० ८५ । मं० २७ ॥

इस मन्त्र को बोल के वधू को सभामण्डप में ले जावे । तत्पश्चात् वधू वर पूर्व स्थापित यज्ञकुण्ड के समीप जावें, उस समय वरः—

ओं इह गावः प्रजायध्वमिहाश्वा इह पूरुषाः । इहो  
सहस्रदक्षिणोपि पूषा निर्षादतु ॥ अथर्व० कां० २० । सू०  
१२७ ॥

इस मन्त्र को बोल के यज्ञकुण्ड के पश्चिम भाग में पीठा-  
सन अथवा तृणासन पर वधू को अपने दक्षिण भाग में पूर्वा-  
भिमुख बैठावे । तत्पश्चात् पृ० २४ में लि०—

ओं अमृतोपस्तरणमसि

इत्यादि तीन मन्त्रों से एक २ से एक २ करके तीन २  
आचमन करें । तत्पश्चात् पृ० २४-२५ में लिखे प्रमाणे कुण्ड में  
यथाविधि समिधाचयन अग्न्याधान करें । जब उसी कुण्ड में  
अग्नि प्रज्वलित हो तब उस पर घृत सिद्ध करके पृ० २५ में  
लिखे प्रमाणे समिधाधान करके प्रदीप्त हुए अग्नि में पृष्ठ २७-२८  
में लिखे प्रमाणे आधारावाज्यभागाहुति ४ ( चार ) और व्या-  
हृति आहुति ४ ( चार ) अष्टाज्याहुति ८ ( आठ ) सब मिलके  
१६ ( सोलह ) आज्याहुति वधू वर करके प्रधानहोम का  
प्रारम्भ निम्नलिखित मन्त्रों से करें ।

ओं इह धृतिः स्वाहा ॥ इदमिह धृत्यै—इदन्न मम ।  
ओं इह स्वधृतिस्स्वाहा ॥ इदमिह स्वधृत्यै—इदन्न मम । ओं  
इह रन्तिः स्वाहा ॥ इदमिह रन्त्यै—इदन्न मम । ओं इह  
रमस्व स्वाहा ॥ इदमिह रमाय—इदन्न मम । ओं मयि धृतिः  
स्वाहा ॥ इदं मयि धृत्यै—इदन्न मम ॥ ओं मयि स्वधृतिः  
स्वाहा ॥ इदं मयि स्वधृत्यै—इदन्न मम । ओं मयि रमः  
स्वाहा ॥ इदं मयि रमाय—इदन्न मम । ओं मयि रमस्व

स्वाहा ॥ इदं मायि रमाय-इदन्न मम ॥ मं० ब्रा० १ । ६ ।  
१ । ४ ॥

इन प्रत्येक मन्त्रों से एक २ करके = ( आठ ) आज्याहुति  
देके—

ओं आ नः प्रजां जनयतु प्रजापतिराजरसाय समन-  
कुर्यमा । अदुर्मङ्गलीः पतिलोकमाविश शन्नो भव द्विपदे शं  
चतुष्पदे \* स्वाहा ॥ इदं सूर्यायै सावित्र्यै-इदन्न मम ॥ १ ॥  
ओं अथोरचक्षुरपतिघ्न्योधि शिवापशुभ्यः सुमनाः सुवर्चाः ।  
धीरसूदेवृकामा स्योना शन्नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे स्वा-  
हा † ॥ इदं सूर्यायै सावित्र्यै-इदन्न मम ॥ २ ॥ ओं इमां  
त्वामिन्द्र मीढ्वः सुपुत्रां सुभगां कृणु । दशास्यां पुत्राना-  
धेहि पतिमेकादशं कृधि + स्वाहा ॥ इदं सूर्यायै सावित्र्यै-

\* हे वधू ( अयमा ) न्यायकारी दयालु ( प्रजापतिः ) परमात्मा  
रूपा करके ( आजरसाय ) जरावस्था पर्यन्त जीने के लिये ( नः ) हमारी  
( प्रजाम् ) उत्तम प्रजा को शुभगुण कर्म और स्वभाव मे ( आजनयतु )  
प्रसिद्ध करे ( समनक्तु ) उससे उत्तम सुख को प्राप्त करे और वे शुभ-  
गुणयुक्त ( मङ्गलीः ) स्त्री जाग सत्र कुटुम्बियों को आनन्द ( अदुः ) देवे  
उसमें से एक वृद्धे वरानने ( पतिलोकम् ) पति के घर वा सुख को  
( आविश ) प्रवेश वा प्राप्त हो ( नः ) हमारे ( द्विपदे ) पिता आदि  
भनुष्यों के लिये ( शम् ) सुखकारिणी और ( चतुष्पदे ) गौ आदि को  
( शम् ) सुखकर्त्री ( भव ) हो ॥

† इस मन्त्र का अर्थ पृष्ठ ११३ में लिखे प्रमाणे जानना ॥

+ ईश्वर पुरुष और स्त्री को आज्ञा देता है कि हे ( मीढ्वः ) वीर्य सेचन

इदं मम ॥ ३ ॥ ॐ सम्राज्ञी श्वशुरे भव सम्राज्ञी  
श्वश्रां भव । ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी आधि देवपु \*  
-----

करनेहारे (इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त इस वधू के स्वामिन् ! (त्वम्) तू (इमाम्)  
इस वधू को ( सुपुत्राम् ) उत्तम पुत्रयुक्त ( सुभगाम् ) सुन्दर सौभाग्य  
भोगवाली ( कृणु ) कर ( अस्याम् ) इस वधू में ( दश ) दश (पुत्रान् )  
पुत्रों को ( आ, धेहि ) उत्पन्न कर अधिक नहीं और हे स्त्री ! तू भी  
अधिक कामना मत कर किन्तु दश पुत्र और ( एकादशम् ) ग्यारहवें  
( पतिम् ) पति को प्राप्त होकर सन्तोष ( कृधि ) कर यदि इससे आगे  
सन्तानोत्पत्ति का लोभ करोगे तो तुम्हारे दुष्ट अल्पायु निर्बुद्धि सन्तान  
होंगे और तुम भी अल्पायु रोगग्रस्त हो जाओगे इसलिये अधिक सन्ता-  
नोत्पत्ति न करना तथा ( पतिमेकादशं कृधि ) इस पद का अर्थ नियोग  
में दूसरा होगा अर्थात् जैसे पुरुष को विवाहित स्त्री में दश पुत्र उत्पन्न  
करने की आज्ञा परमात्मा ने की है वैसी ही आज्ञा स्त्री को भी है कि  
दश पुत्र तक चाहे विवाहित पति से अथवा विधवा हुए पश्चात् नियोग  
से करे करावे वैसे ही एक स्त्री के लिये एक पति से एक बार विवाह  
आर पुरुष के लिये भी एक स्त्री से एक ही बार विवाह करने की आज्ञा  
है जैसे विधवा हुए पश्चात् स्त्री नियोग से सन्तानोत्पत्ति करके पुत्रवती  
होवे वैसे पुरुष भी विगतस्त्री होवे तो नियोग से पुत्रवान् होवे ॥

\* हे वरानने ! तू ( श्वशुरे ) मेरा पिता जो कि तेरा श्वशुर है उस-  
में प्रीति करके ( सम्राज्ञी ) सम्यक् प्रकाशमान चक्रवर्ती राजा की राणी  
के समान पक्षपात छोड़ के प्रवृत्त ( भव ) हो ( श्वश्रवाम् ) मेरी माता  
जो कि तेरा सासु है उसमें प्रेमयुक्त हो के उसी की आज्ञा में ( सम्राज्ञी )  
सम्यक् प्रकाशमान ( भव ) रहा कर ( ननान्दरि ) जो मेरी बहिन और  
तेरी ननन्द है उसमें भी ( सम्राज्ञी ) प्रीतियुक्त और ( देवपु ) मेरे साई  
जो तेरे देवर और ज्येष्ठ अथवा कनिष्ठ हैं उनमें भी ( सम्राज्ञी ) प्रीति

स्वाहा ॥ इदं सूर्यायै सावित्र्यै-इदन्न मम ॥ ४ ॥ ऋ०  
अं० १० । अ० ७ । सू० ८५ । मं० ४३-४६ ॥

इन ४ (चार) मन्त्रों से एक २ से एक २ करके ४ (चार) आज्याहुति दे के पृष्ठ २८ में लिखे प्रमाणे खिष्टकृत होमाहुति १ (एक) व्याहति आज्याहुति ४ (चार) और प्राजापत्याहुति १ (एक) ये सब मिल के ६ (छः) आज्याहुति देकर—

समञ्जन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानि नौ । सं मातृ-  
रिश्वा सं धाता समुदेष्टी दधातु नौ \* ॥ ऋ० मं० १० ।  
सू० ८५ । मं० ४७ ॥

इस मन्त्र को बोल के दोनों दधिप्राशन करें । तत्पश्चात्—

अहं भो अभिवादयामि । ॥

इस वाक्य को बोल के दोनों वधू वर, वर की माता पिता आदि वृद्धों को प्रीतिपूर्वक नमस्कार करें । पश्चात् सुभूपित होकर शुभासन पर बैठ के पृष्ठ ३१-३२ में लिखे प्रमाणे वामदेव्य-गान करके उसी समय पृष्ठ ५-६ में लिखे प्रमाणे ईश्वरोपासना करनी । उस समय कार्यार्थ आप हुए सब स्त्री पुरुष ध्यानाव-

से प्रकाशमान (अधि, भव) अधिकारयुक्त हो अर्थात् सब से अविरोध-पूर्वक प्रीति से वसां कर ॥

\* इस मन्त्र का अर्थ पृ० १५१ में लिखित समझ लेना ॥

† इससे उत्तम (नमस्ते) यह वेदोक्त वाक्य अभिवादन के बिबे-  
नित्यप्रति स्त्री पुरुष, पिता पुत्र अथवा गुरु शिष्य आदि के बिबे-  
घातः सायं अपूर्व समागम में जब २ मिर्बें तब २ इसी वाक्य से परस्पर

अभिवादन करें ॥

स्थित होकर परमेश्वर का ध्यान करें तथा वधू वर, पिता, आचार्य और पुरोहित आदि को कहें कि—

ओं स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु ॥ आश्वला० गृ० अ०  
१ । कं० ८ । सू० १५ ॥

आप लोग स्वस्तिवाचन करें। तत्पश्चात् पिता आचार्य पुरोहित जो विद्वान् हों अथवा उनके अभाव में यदि वधू वर विद्वान् वेदवित् हों तो वे ही दोनों पृष्ठ ६—११ में लिखे प्रमाणे स्वस्तिवाचन का पाठ बड़े प्रेम से करें। पाठ हुए पश्चात् कार्यार्थ आप हुए स्त्री पुरुष सब—

ओं स्वस्ति ओं स्वस्ति ओं स्वस्ति ॥

इस वाक्य को बोलें। तत्पश्चात् कार्यकर्ता, पिता, चाचा, भाई आदि पुरुषों को तथा माता, चाची, भगिनी आदि स्त्रियों को यथावत् सत्कार करके विदा करें। तत्पश्चात् यदि किसी विशेष कारण से श्वशुरगृह में गर्भाधान संस्कार न हो सके तो वधू वर चार आहार और विषय तृष्णा रहित व्रतस्थ होकर पृष्ठ ३३—४६ में लिखे प्रमाणे विवाह के चौथे दिवस में गर्भाधान संस्कार करें अथवा उस दिन ऋतुकाल न हो तो किसी दूसरे दिन गर्भस्थापन करें और जो वर दूसरे देश से विवाह के लिये आया हो तो वह जहां जिस स्थान में विवाह करने के लिये जाकर उतरा हो उस स्थान में गर्भाधान करे। पुनः अपने घर आ के पति सासु श्वशुर ननन्द देवर देवराणी ज्येष्ठ जेठानी आदि कुटुम्ब के मनुष्य वधू की पूजा अर्थात् सत्कार करें, सदा प्रीतिपूर्वक परस्पर वसैं, और मधुरवाणी वर आभूषण आदि से सदा प्रसन्न और सन्तुष्ट वधू को रखें, तथा वधू सब को प्रसन्न रखे और वर उस वधू के साथ

पत्नीव्रतादि सद्धर्म से वर्ते, तथा पत्नी भी पति के साथ पति-व्रतादि सद्धर्म चाल चलन से सदा पति की आज्ञा में तत्पर और उत्सुक रहे, तथा वर भी स्त्री की सेवा, प्रसन्नता में सत्पर रहे ॥

इति विवाहसंस्कारविधिः समाप्तः ॥

— ७१ —

### अथ गृहाश्रमसंस्कारविधिं वक्ष्यामः

गृहाश्रम संस्कार उसको कहते हैं कि जो पेशिक और धारलौकिक सुखप्राप्ति के लिये विवाह करके अपने सामर्थ्य के अनुसार परोपकार करना और नियत काल में यथाविधि ईश्वरोपासना और गृहकृत्य करना और सत्य धर्म में ही अपना तन मन धन लगाना तथा धर्मानुसार सन्तानों की उत्पात्ति करनी ॥

अत्र प्रमाणानि—सोमो वधूर्युर्भवदश्विनास्तामुमा वरा  
मया यत्पत्ये शंसन्तीं मनसा सविता ददात् ॥ ११ ॥  
इहैव स्तं मा वि यौष्टं विश्वमायुर्व्यश्नुतम् । ऋडन्तो पुत्रै-  
र्नृपृथिर्मोदमानौ खे गृहे ॥ २ ॥ अ० मं० १० । सू०  
८५ । मं० ६; ४२ ॥

अर्थः—(सोमः) सुकुमारं शुभगुणयुक्त (वधूर्युः) वधू की कामना करने हारा पति तथा वधू पति की कामना करनेहारी (श्विना) दोनों ब्रह्मचर्य से विद्या को प्राप्त (श्रमवत्) होवे और (उमा) दोनों (वरा) श्रेष्ठतुल्य गुण कर्म स्वभाववाले (आस्ताम्) होवे पत्नी (यत्) जो (सूर्याम्) सूर्य की किरणवत् सौन्दर्य गुणयुक्त (पत्ये) पति के लिये (मनसा) मन

से ( शंसन्तीम् ) गुण कीर्त्तन करनेवाली वधू है उस को पुरुष और इसी प्रकार के पुरुष को स्त्री ( सविता ) सकल जगत् का उत्पादक परमात्मा ( ददात् ) देता है अर्थात् बड़े भाग्य से दोनों स्त्री पुरुषों का, जो कि तुल्य गुण कर्म स्वभाव हों, जोड़ा मिलता है ॥ १ ॥ हे स्त्री और पुरुष ! मैं परमेश्वर आज्ञा देता हूँ कि जो तुम्हारे लिये पूर्व विवाह में प्रतिज्ञा हो चुकी है जिस को तुम दोनों ने स्वीकार किया है ( इहैव ) इसी में ( स्तम् ) तत्पर रहो ( मा, वियौष्टम् ) इस प्रतिज्ञा से वियुक्त मत होओ ( विश्वमायुर्व्यश्नुतम् ) ऋतुगामी होके वीर्य का अधिक नाश न करके सम्पूर्ण आयु जो १०० ( सौ ) वर्षों से कम नहीं है उसको प्राप्त होओ पूर्वोक्त धर्म रीति से ( पुत्रैः ) पुत्रों और ( नप्तृभिः ) नातियों के साथ ( क्रीडन्तौ ) क्रीड़ा करते हुए ( स्वस्तकौ ) उत्तम गृह वाले ( मोदमानौ ) आनन्दित होकर गृहाश्रम में प्रीतिपूर्वक वास करो ॥ २ ॥

सुमङ्गली प्रतरणी गृहाणां सुशोवा पत्ये श्वशुराय हम्भूः ।  
 स्योना श्वश्र्वै प्र गृहान् विशेषान् ॥ ३ ॥ स्योना भव श्वशुरेभ्यः  
 स्योना पत्ये गृहेभ्यः । स्योनास्यै सर्वस्यै विशेषे स्योना पुष्टायैषां भव ॥ ४ ॥  
 या दर्हादीं युवतयो याश्चेह जेस्तीरपि वर्चो न्वस्यै सं दत्ताथास्तं द्विपरेतन ॥ ५ ॥ आरोह तल्पं सुमनस्यमानेह प्रजां जनय पत्ये अस्मै । इन्द्राणीव सुबुधा बुध्यमाना ज्योतिरग्रा उषसः प्रति जागरासि ॥ ६ ॥  
 अथर्व० कां० १४ । सू० २ । मं० २६ । २७ । २६ । ३१ ॥

अर्थ—हे वरानने ! तू (सुमङ्गली) अच्छे मङ्गलाचरण करने तथा ( प्रतरणी ) दोष और शोकादि से पृथक् रहनेहारी ( गृहा-



णाम्) गृहकार्यों में चतुर और तत्पर रहकर (सुशेवा) उत्तम सुखयुक्त हांके (पत्ये) पति (श्वशुराय) श्वशुर और (श्व-श्रवे) सासु के लिये (शम्भूः) सुखकर्त्री और (स्योना) स्वयं प्रसन्न हुई (इमान्) इन (गृहान्) घरों में सुखपूर्वक (प्रविश) प्रवेश कर ॥ ३ ॥ हे वधू ! तू (श्वशुरेभ्यः) श्वशुरादि के लिये (स्योना) सुखदाता (पत्ये) पति के लिये (स्योना) सुखदाता और (गृहेभ्यः) गृहस्थ सम्बंधियों के लिये (स्योना) सुखदायक (भव) हो और (अस्यै) इस (सर्वस्यै) सब (विशे) प्रजा के अर्थ (स्योना) सुखप्रद और (एषाम्) इनके (पुत्राय) पोषण के अर्थ तत्पर (भव) हो ॥ ४ ॥ (याः) जो (दुर्हार्दः) दुष्ट हृदयवाली अर्थात् दुष्टात्मा (युवतयः) ज्वान स्त्रियां (च) और (याः) जो (इह) इस स्थान में (जिहृतीः) बुद्धी वृद्ध दुष्ट स्त्रियां हों वे (अपि) भी (अस्यै) इस वधू को (नु) शीघ्र (वर्चः) तेज (सं, दत्त) देवें (अथ) इसके पश्चात् (अस्तम्) अपने २ घर को (विपरतन) चली जावें और फिर इसके पास कभी न आवें ॥ ५ ॥ हे वरानने ! तू (सुमनस्यमाना) प्रसन्नचित्त होकर (तल्पम्) पर्यङ्क पर (आराह) चढ़ के शयन कर और (इह) इस गृहाध्रम में स्थिर रहकर (अस्मै) इस (पत्ये) पति के लिये (प्रजं जनय) प्रजा को उत्पन्न कर (सुबुधा) सुन्दर बानी (बुध्यमाना) उत्तम शिक्षा को प्राप्त (इन्द्राणीव) सूर्य की कान्ति के समान तू (उपसः) उपकाल के (अग्रा) पहिली (ज्योतिः) ज्योति के तुल्य (प्रतिजागरासि) प्रत्यक्ष सब कामों में जागती रह ॥ ६ ॥

देवा अग्रे न्यपद्यन्त पत्नीः समस्पृशन्त तन्वस्तनूमिः ।  
सर्वेव नारि विश्वरूपा महित्वा प्रजावती पत्या सं भवेत्

॥ ७ ॥ सं पितृगृत्विये सृजेथां माता पिता च रेतसो  
 भवाथः । मर्य इव योषामधिरोहयैनां प्रजां कृणवाथासिह  
 पुष्यतं रयिम् ॥ ८ ॥ तां पूर्वं छिवत्सामेरयस्व यस्यां बीजं  
 मनुष्यावपन्ति । या न ऊरु उशती विश्रयाति यस्यामुशा-  
 न्तः प्रहरम शेषः ॥ ६ ॥ अथर्व० कां० १४ । सू० २ ।  
 मं० ३२ । ३७ । ३८ ॥

अर्थः—हे सौभाग्यप्रद ! ( नारि ) तू जैसे ( इह ) इस गृहा-  
 श्रम में ( अग्रे ) प्रथम ( देवाः ) विद्वान् लोग ( पत्नीः ) उत्तम  
 स्त्रियों को ( न्यपद्यन्त ) प्राप्त होते हैं और ( तनूभिः ) शरीरों  
 से ( तन्वः ) शरीरों को ( समस्पृशन्त ) स्पर्श करते हैं जैसे  
 ( विश्वरूपा ) विविध सुन्दररूप को धारण करने हारीं ( महि-  
 त्वा ) सत्कार को प्राप्त होने वाली ( सूर्येव ) सूर्य की कांति के सम-  
 मान ( पत्या ) अपने स्वामी के साथ मिलके ( प्रजावती ) प्रजा  
 को प्राप्त होने वाली ( संभव्य ) अच्छे प्रकार हो ॥ ७ ॥ हे स्त्री  
 पुरुषो ! तुम ( पितरौ ) बालकों के जनक ( ऋत्विये ) ऋतु  
 समय में सन्तानों को ( संसृजेथाम् ) अच्छे प्रकार उत्पन्न करो  
 ( माता ) जननी ( च ) और ( पिता ) जनक दोनों ( रेतसः )  
 वीर्य को मिलाकर गर्भाधान करने हारे ( भवाथः ) हजिये ।  
 हे पुरुष ! ( एनाम् ) इस ( योषाम् ) अपनी स्त्री को ( मर्य, इव )  
 प्राप्त होनेवाले पति के समान ( अग्नि, रोहय ) सन्तानों से  
 बढ़ा और दोनों ( इह ) इस गृहाश्रम में मिल के ( प्रजाम् ) प्रजा  
 को ( कृणवाथाम् ) उत्पन्न करो ( पुष्यतम् ) पालन पोषण करो  
 और पुरुषार्थ से ( रयिम् ) धन को प्राप्त होओ ॥ ८ ॥ हे ( पु-  
 षन् ) वृद्धिकारक पुरुष ! ( यस्याम् ) जिसमें ( मनुष्याः ) मनुष्य  
 लोग ( बीजम् ) वीर्य को ( वपन्ति ) बोते हैं या जो

( नः ) हमारी ( उशती ) कामना करती हुई ( ऊरु ) ऊरु को  
 सुन्दरता से ( विश्रयाति ) विशेषकर आश्रय करती है ( व-  
 स्याम् ) जिसमें ( उग्रान्तः ) सन्तानों की कामना करते हुए हुए  
 ( श्रेयः ) उपस्थेन्द्रिय का ( प्रहरेम ) प्रहरण करते हैं ( ताम् )  
 इस ( शिवतमाम् ) अतिशय कल्याण करनेहारी स्त्री को स-  
 न्तानोत्पत्ति के लिये ( परयस्व ) प्रेम से प्रेरणा कर ॥ ६ ॥

स्योनाद्योनेराधि बुध्यमानौ हसामुदौ महसा मोदमानौ ।  
 सुगू सुपुत्रौ सुगृहौ तराथो जीवावुपसौ विभातीः ॥ १० ॥  
 इहेमाविन्द्र सं तुद चक्रवाकेब दस्पती । प्रजयैनौ स्वस्तकौ  
 विश्वमायुर्व्यरनुताम् ॥ ११ ॥ जलियन्ति नावग्रवः पुग्नि-  
 यन्ति सुदानवः । अरिष्टासू सचेवहि वृहते वाजसातये  
 ॥ १२ ॥ अ० का० १४ । सू० २ । मं० ४२ । ६४ । ७२ ॥

अर्थः—हे स्त्री और पुरुष ! जैसे सूर्य ( विभातीः ) सुन्दर  
 प्रकाशयुक्त ( उपसः ) प्रभातवेला को प्राप्त होता है वैसे ( स्यो-  
 नात् ) सुख से ( योनेः ) घर के मध्य में ( अग्नि, बुध्यमानौ )  
 सन्तानोत्पत्ति आदि की क्रिया को अच्छे प्रकार जाननेहारे  
 सदा ( हसामुदौ ) हास्य और आनन्दयुक्त ( महसा ) बड़े  
 प्रेम से ( मोदमानौ ) अत्यन्त प्रसन्न हुए ( सुगू ) उत्तम चाल  
 चलन से धर्मयुक्त व्यवहार में अच्छे प्रकार चलनेहारे ( सुपुत्रौ )  
 उत्तम पुत्रवाले ( सुगृहौ ) श्रेष्ठ गृहादि सामग्री युक्त ( जीवौ )  
 उत्तम प्रकार जीवों को धारण करते हुए ( तराथः ) गृहाभिम  
 के व्यवहारों के गार होओ ॥ १० ॥ हे ( इन्द्र ) परमैश्वर्ययुक्त  
 विद्वन् राजन् ! आप ( इह ) इस संसार में ( इमौ ) इन  
 स्त्री पुरुषों को समय पर विवाह करने की आज्ञा और ऐसी

पुत्रवत्स्या दीजिये कि जिससे कोई स्त्री पुरुष पृ० १०५-११० में लि०  
 प्रमाण से पूर्व वा अन्यथा विवाह न कर सकें, वैसे (संजुद)  
 स्वयं को प्रसिद्धि से प्रेरणा कीजिये जिससे ब्रह्मचर्यपूर्वक शि-  
 क्षा को पाके (दम्पती) जाया और पति (चक्रवाकेव) चक्रवा-  
 षकवी के समान एक दूसरे से प्रेमबद्ध रहें और गर्भाधान-  
 संस्कारोक्तविधि से (प्रंजया) उन्नत हुई प्रजा से (एनौ) दो  
 दोनों (स्वस्तकौ) सुखयुक्त हो के (विल्लम्) सम्पूर्ण १००  
 वर्ष पर्यन्त (आयुः) आयु को (व्यश्नुताम्) प्राप्त होवें ॥ ११ ॥  
 हे मनुष्यो ! जैसे (सुदानवः) विद्यादि उत्तम गुणों के दात  
 करनेहार (अश्रवः) उत्तम स्त्री पुरुष (जनियन्ति) पुत्रोत्पत्ति  
 करते और (पुत्रियन्ति) पुत्र की कामना करते हैं वैसे (नौ)  
 हमारे भी सन्तान उत्तम होवें तथा (अरिष्टास्) बल प्राण का  
 नाश न करेहारे होकर (बृहते) बड़े (वाजसातये) परोप-  
 कार के अर्थ विज्ञान और अन्न आदि के दान के लिये (सर्वे-  
 षहि) कष्टिबद्ध सदा रहें जिससे हमारे सन्तान भी उत्तम  
 होवें ॥ १२ ॥

प्र बुध्यस्व सुबुधा बुध्यमाना दीर्घायुत्वाय शतशा-  
 रदाय । गृहान् गच्छ गृहपत्नी यथासौ दीर्घा त आबुः  
 सविता कृणोतु ॥ १३ ॥ अथर्व० कां० १४ । सू० २ ।  
 मं० ७५ ॥ सहृदयं सामनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः । अन्यो  
 अन्यमभिर्हर्यत वत्सं जातमिवाध्या ॥ १४ ॥ अथर्व०  
 कां० ३ । सू० ३० । मं० १ ॥

अर्थः—हे पत्नी ! तू (शतशारदाय) शतवर्ष पर्यन्त (दी-  
 र्घायुत्वाय) दीर्घकाल जीने के लिये (सुबुधा) उत्तम बुद्धियुक्त  
 (बुध्यमाना) सज्ञान होकर (गृहान्) मेरे घरों को (गच्छ)

प्राप्त हो और ( गृहपत्नी ) मुझ घर के स्वामी की स्त्री ( यथा )  
 जैसे ( ते ) तेरा ( दीर्घम् ) दीर्घकालपर्यन्त ( आयुः ) जीवन  
 ( असः ) होवे वैसे ( प्रबुध्यस्व ) प्रकृष्टज्ञान और उत्तम व्यव-  
 हार को यथावत् जान इस अपनी आशा को ( सविता ) सब  
 द्योगत् की उत्पत्ति और सम्पूर्ण पेश्वर्य को देनेहारा परमात्मा  
 ( ह्यणोतु ) अपनी कृपा से सदा सिद्ध करे जिससे तू और मैं  
 सदा उन्नतिशील होकर आनन्द में रहें ॥ १३ ॥ हे गृहस्थो !  
 मैं ईश्वर तुमको जैसी आशा देता हूँ वैसा ही [ वर्तमान ] करो  
 जिससे तुमको अक्षय सुख हो अर्थात् ( वः ) तुम्हारा ( सुहृ-  
 दयम् ) जैसी अपने लिये सुख की इच्छा करते और दुःखनहीं  
 चाहते हो वैसे माता पिता सन्तान स्त्री पुरुष भृत्य मित्र प-  
 दोसी और अन्य सब से समान हृदय रहो ( सामनस्यम् ) मन  
 से सम्यक् प्रसन्नता और ( अविद्वेषम् ) वैर विरोधादि रहित  
 व्यवहार को तुम्हारे लिये ( ह्यणोमि ) स्थिर करता हूँ तुम  
 ( अन्य्या ) हनन न करने योग्य जाय ( वत्सं, जातमिव ) उत्पन्न  
 हुए बड़े पर वात्सल्यभाव से जैसे वर्तती है वैसे ( अन्योऽ-  
 ष्यम् ) एक दूसरे से ( अभि, ह्यत ) प्रसपूर्वक कामना से  
 पत्नी करो ॥ १४ ॥

अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः । जाया  
 पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शान्तिवान् ॥ १५ ॥ या आता  
 आतरं द्विजन्मा स्वसारमुत स्वसा । नस्यञ्चः सव्रता भूत्वा  
 वाचं वदत भद्रया ॥ १६ ॥ अथर्व० कां० ३ । सू० ३० ।  
 मं० २ । ३ ॥

अर्थः—हे गृहस्थो ! जैसे तुम्हारा ( पुत्रः ) पुत्र ( मात्रा )  
 माता के साथ ( संमनाः ) प्रीतियुक्त मन वाला ( अनुव्रतः

अनुकूल आचरणयुक्त ( पितुः ) और पिता के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार का प्रेम वाला ( भवतु ) होवे जैसे तुम भी पुत्रों के साथ सदा वर्ता करो जैसे ( जाया ) स्त्री ( पत्ये ) पति की प्रसन्नता के लिये ( मधुमतीम् ) माधुर्यगुणयुक्त ( वाचम् ) वाणी को ( वदतु ) कहे जैसे पति भी ( शान्तिवान् ) शान्त होकर अपनी पत्नी से सदा मधुर भाषण किया करे ॥ १५ ॥ हे गृहस्थो ! तुम्हारे में ( भ्राता ) भाई ( भ्रातरम् ) भाई के साथ ( मा, द्विजान् ) द्वेष कभी न करे ( उत ) और ( स्वसा ) वहिन ( स्वसारम् ) वहिन से द्वेष कभी ( मा ) न करे तथा वहिन भाई भी परस्पर द्वेष मत करो किन्तु ( सम्यञ्चः ) सम्यक् प्रेमादि गुणों से युक्त ( सव्रताः ) समान गुण कर्म स्वभाववाले ( भूत्वा ) होकर ( भद्रया ) मङ्गलकारक रीति से एक दूसरे के साथ ( वाचम् ) सुखदायक वाणी को ( वदत ) बोला करो ॥ १६ ॥

येन देवा न वियन्ति नो च विद्विषते मिथः । तत्कृ-  
रामो ब्रह्म वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः ॥ १७ ॥ अथर्व०  
कां० ३ । सू० ३० । मं० ४ ॥

अर्थ:— हे गृहस्थो ! मैं ईश्वर ( येन ) जिस प्रकार के व्यवहार से ( देवाः ) विद्वान् लोग ( मिथः ) परस्पर ( न, वियन्ति ) पृथक्भाव वाले नहीं होते ( च ) और ( नो, विद्विषते ) परस्पर में द्वेष कभी नहीं करते । ( तत् ) वही कर्म ( वः ) तुम्हारे ( गृहे ) घर में ( कृणुमः ) निश्चित करता हूँ ( पुरुषेभ्यः ) पुरुषों को ( संज्ञानम् ) अच्छे प्रकार चिन्ताता हूँ कि तुम लोग परस्पर प्रीति से वर्त कर बड़े ( ब्रह्म ) धनैश्वर्य को प्राप्त होओ ॥ १७ ॥

व्यायस्वन्ताश्चित्तो मा वियौष्ट संराधयन्तः सधुराश्वर-  
न्तः । अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदन्त एत सध्रीचीनान् ।  
समनसस्कृणोमि ॥ १८ ॥ अथर्व० कां० ३ । सू० ३० ।  
मं० ५ ॥

अर्थः—हे गृहस्थादि मनुष्यो ! तुम ( जायस्वन्तः ) उत्तम  
विद्यादिगुणयुक्त ( चित्तिनः ) विद्वान् लक्षण ( सधुराः ) धुर-  
न्धर होकर ( चरन्तः ) विचरते और ( संराधयन्तः ) परस्पर  
मिल के धन धान्य राज्य समृद्धि को प्राप्त होते हुए ( मा,  
वियौष्ट ) विरोधी वा पृथक् २ भाव मत करो ( अन्यः ) एक  
( अन्यस्मै ) दूसरे के लिये ( वल्गु ) सत्य अधुरभाषण  
( वदन्तः ) कहते हुए एक दूसरे को ( एत ) प्राप्त होओ  
इसीलिये ( सध्रीचीनान् ) समान लाभालाभ से एक दूसरे के  
सहायक ( समनसः ) एकमत्य वाले ( वः ) तुम को ( कृणोमि )  
करता हूं अर्थात् मैं ईश्वर तुम को जो आछा देता हूं इसको  
आलस्य छोड़ कर किया करो ॥ १८ ॥

समानी प्रपा सह वौन्नभागः समाने योक्त्रे सह वौ  
युनज्मि । सम्यञ्चोऽग्निं सपर्यतारा नाभिभिवाभितः ॥ १९ ॥  
सध्रीचीनान् । समनसस्कृणोम्येकशुष्टीन्संवर्तनेन सर्वान् ।  
देवा इवामृतं रक्षमाणाः सायंप्रातः सौमनसो वौ अस्तु  
॥ २० ॥ अथर्व० कां० ३ । सू० ३० । मं० ६, ७ ॥

अर्थः—हे गृहस्थादि मनुष्यो ! मुझ ईश्वर की आछा से  
तुम्हारा ( प्रपा ) जलपान स्नानादि का स्थान आदि व्यवहार  
( समानी ) एकसा हो ( वः ) तुम्हारा ( अन्नभागः ) खान पान  
( सह ) साथ हुआ करो ( वः ) तुम्हारे ( समाने ) एक से

( योक्त्रे ) अश्वादि यान के जोते ( सह ) संगी हों और तुमको मैं धर्मादि व्यवहार में भी एकीभूत करके ( युनजिम् ) नियुक्त करता हूं जैसे ( आराः ) चक्र के आरे ( अमितः ) आरों ओर से ( नाभिप्रिव ) बीच के नालरूप काष्ठ में लगे रहते हैं अथवा जैसे ऋत्विज् लोग और यजमान यज्ञ में मिल के ( अग्निम् ) अग्नि आदि के सेवन से जगत् का उपकार करते हैं जैसे ( सम्यञ्चः ) सम्यक् प्रातिवाले तुम मिल के धर्मयुक्त कर्मों को ( सपर्यत ) तथा एक दूसरे का हित सिद्ध किया करो ॥ १६ ॥ हे गृहस्थादि मनुष्यो ! मैं ईश्वर ( वः ) तुमको ( सधीचीनान् ) सह वर्त्तमान ( संमनसः ) परस्पर के लिये हितैषी ( एकश्नुधीन् ) एक ही धर्मकृत्य में शीघ्र प्रवृत्त होने वाले ( सर्वान् ) सब को ( संवननेन ) धर्मकृत्य के सेवन से साथ एक दूसरे के उपकार में नियुक्त ( कृणोमि ) करता हूं तुम ( देवा, इव ) विद्वानों के समान ( असृतम् ) व्यावहारिक या पारमार्थिक सुख की ( रक्षमाणाः ) रक्षा करते हुए ( सार्य-प्रातः ) सन्ध्या और प्रातःकाल अर्थात् सब समय में एक दूसरे से प्रेमपूर्वक मिला करो ऐसे करते हुए ( वः ) तुम्हारा ( सौ-मनसः ) मन का आनन्दयुक्त शुद्धस्वभाव ( अस्तु ) सदा बना रहे ॥ २० ॥

श्रमेण तपसा सृष्टा ब्रह्मणा वित्तञ्चृते श्रिताः ॥ २१ ॥

सत्येनावृता श्रिया प्रावृता यशसा परीवृताः ॥ २२ ॥ स-

धया परिहिता श्रद्धयाः पर्युढा दीक्षया गुप्ता यज्ञे प्रतिष्ठिता लोको निधनम् ॥ २३ ॥ अथर्व० कां १२ । अनु० ५ ।

सू० ५ । मं० १-३ ॥

अर्थ:—हे स्त्री पुरुषो ! मैं ईश्वर तुमको आशा देता हूं कि



तुम सब गृहस्थ मनुष्य लोग ( श्रमेण ) पारिश्रम तथा ( तपसा ) प्राणायाम से ( सृष्ट्याः ) संयुक्त ( ब्रह्मणा ) वेदविद्या परमात्मा और धनादि से ( वित्ते ) भागने योग्य धनादि के प्रयत्न में और ( ऋते ) यथार्थ पक्षपात रहित न्यायरूप धर्म में ( श्रिताः ) चलनेहारे सदा बने रहो ॥ २१ ॥ ( सत्येन ) सत्यभाषणादि कर्मों से ( आवृताः ) चारों ओर से युक्त ( श्रिया ) शोभायुक्त लक्ष्मी से ( प्रावृताः ) युक्त ( यशसा ) कीर्ति और धन से ( परि- वृताः ) सब ओर से संयुक्त रहा करो ॥ २२ ॥ ( स्वश्रया ) अपने ही अनादि पदार्थ के धारण से ( परिहिताः ) सब के हितकारी ( श्रद्धया ) सत्य धारण में श्रद्धा से ( पर्युद्धाः ) सब ओर से सब को सत्याचरण प्राप्त करानेहारे ( दीक्षया ) नाना प्रकार के ब्रह्मचर्य, सत्यभाषणादि व्रत धारण से ( गुताः ) सुर- क्षित ( यज्ञे ) विद्वानों के संस्कार, शिल्पविद्या और शुभ गुणों के दान में ( प्रतिष्ठिताः ) प्रतिष्ठा को प्राप्त हुआ करो और इन्हीं कर्मों से ( निधनम्, लोकः ) इस मनुष्यलोक को प्राप्त होकर नित्युपवन्त सदा आनन्द में रहो ॥ २३ ॥

आजश्च तेजश्च सहश्च बलञ्च वाक् चैन्द्रियं च  
श्रीश्च धर्मश्च ॥ २४ ॥ अथर्व० कां० १२ अनु० ५ ।

स० ५ । म० ७ ॥

अर्थ—हे मनुष्यों! तुम जो ( आजः ) पराक्रम ( च ) और इसकी सामग्री ( तेजः ) तेजस्वीपन ( च ) और इसकी सामग्री ( सहः ) स्तुति निन्दा द्वानि लाभ तथा शोकादि का सहन ( च ) और इसके साधन ( बलञ्च ) बल और इसके साधन ( वाक्, च ) सत्य प्रिय वाणी और इस के अनुकूल व्यवहार ( इन्द्रि- यञ्च ) शान्त धर्मयुक्त अन्तःकरण और शुद्धात्मा तथा जिते-न्द्रियता ( श्रीश्च ) लक्ष्मी सम्पत्ति और इसकी प्राप्ति का धर्म-

युक्त उद्योग ( धर्मश्च ) पक्षपातरहित न्यायाचरण वेदोक्त धर्म  
और जो इस के साधन वा लक्षण हैं उनको तुम प्राप्त होके इन्हीं  
में सदा वर्त्ता करो ॥ २४ ॥

ब्रह्म च ज्ञानं च राष्ट्रं च विशश्च त्विषिश्च यशश्च  
वर्चश्च द्रविणं च ॥ २५ ॥ आयुश्च रूपं च नाम च  
कीर्तिश्च प्राणश्चापानश्च चलश्च श्रोत्रञ्च ॥ २६ ॥ परश्च  
रसश्चान्नं चान्नाद्यं च ऋतं च सत्यं चष्ट च पूर्णं च प्रजा  
च पशवश्च ॥ २७ ॥ अथर्व० कां० १२ । अनु० ५ ।  
सू० ५ । मं० ८ । ६ । १० ॥

अर्थ:—हे गृहस्थादि मनुष्यो ! तुमको योग्य है कि ( ब्रह्म  
च ) पूर्ण विद्यादि शुभ गुण युक्त मनुष्य और सब के उपकारक  
शमदमादि गुणयुक्त ब्रह्मकुल ( ज्ञञ्च ) विद्यादि उत्तम गुणयुक्त  
तथा विनय और शौर्यादि गुणों से युक्त क्षत्रियकुल ( राष्ट्रञ्च )  
राज्य और उसका न्याय से पालन ( विशश्च ) उत्तम प्रजा और  
उसकी उन्नति ( त्विषिश्च ) सखिद्यादि से तेज आरोग्य शरीर  
और आत्मा के बल से प्रकाशमान और इसकी उन्नति से  
( यशश्च ) कीर्तियुक्त तथा इसके साधनों को प्राप्त हुआ करो  
( वर्चश्च ) पढी हुई विद्या का विचार और उसका नित्य पढ़ना  
( द्रविणञ्च ) द्रव्योपार्जन उसकी रक्षा और धर्मयुक्त परंपरादि  
में व्यय करने आदि कर्मों को सदा किया करो ॥ २५ ॥ हे स्त्री पुरुषो !  
तुम अपना ( आयुः ) जीवन बढ़ाओ ( च ) और सब जीवन में  
धर्मयुक्त उत्तम कर्म ही किया करो ( रूपञ्च ) विषयासक्ति  
रूपथ्य रोग और अधर्माचरण को छोड़ के अपने स्वरूप की  
अच्छा रक्खो और वस्त्राभूषण भी धारण किया करो ( नाम  
च ) नामकरण के पृष्ठ ६६—६७ में लिखे प्रमाणे शास्त्रोक्त सं

धारण और उसके नियमों को भी ( तथा ) ( कीर्तिञ्च ) सत्त्व  
 धारण से प्रशंसा का धारण करो और गुणों में दोषारोपण  
 रूप निन्दा को छोड़ दो ( प्राणश्च ) चिरकालपर्यन्त जीवन के  
 धारण और उसके युक्ताहार विहारादि साधन ( अपालश्च )  
 सब दुःख दूर करने का उपाय और उसकी सामग्री ( चक्षुश्च )  
 प्रत्यक्ष और अनुमान, उपमान ( श्रोत्रञ्च ) शब्दप्रमाण और  
 उसकी सामग्री को धारण किया करो ॥ २६ ॥ हे गृहस्थ लोगो !  
 ( पयश्च ) उत्तम जल दूध और इसका शोधन और युक्ति से  
 लैचन ( रसश्च ) घृत दूध मधु आदि और इसका युक्ति से  
 आहार विहार ( अन्नञ्च ) उत्तम चावल आदि अन्न और उसके  
 उत्तम संस्कार किये ( अन्नाद्यञ्च ) खाने के योग्य पदार्थ और  
 उसके साथ उत्तम दाल शाक कड़ी आदि ( ऋतञ्च ) सत्य  
 धानना और सत्य मनवाना ( सत्यञ्च ) सत्य बोलना और बुल-  
 जाना ( इष्टञ्च ) यज्ञ करना और कराना ( पूर्वञ्च ) यज्ञ की  
 सामग्री पूरी करना तथा जलाशय और आराम वाटिका आदि  
 का बनाना और बनवाना ( प्रजा, च ) प्रजा की उत्पात्ति, पालन  
 और उन्नति सदा करनी तथा करानी ( पशवश्च ) गाय आदि  
 पशुओं का पालन और उन्नति सदा करनी तथा करानी  
 चाहिये ॥ २७ ॥

कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषेच्छ्रुतं समाः । एवं त्वयि  
 नान्यथेतांस्ति न कर्म लिप्यन्ते नरे ॥ १ ॥ य० अ० ४० ।  
 अ० २ ॥

अर्थ:—मैं परमात्मा सब मनुष्यों के लिये आज्ञा देता हूँ कि  
 प्रत्येक मनुष्य ( इह ) इस संसार में शरीर से समर्थ हो के  
 ( कर्माणि ) सत्कर्मों को ( कुर्वन्नेव ) करता ही करता ( शतं, समाः )  
 १०० ( सां ) वर्ष पर्यन्त ( जिजीविषेत् ) जीने की इच्छा करे,

आलसी और प्रमादी कभी न होवे । (एवम्) इस प्रकार उत्तम कर्म करते हुए (त्वयि) तुम्हें (नरे) मनुष्य में (इतः) इस हेतु से (अन्यथा) उलटापनरूप (कर्म) दुःखद कर्म (न लिप्यते) लिप्यमान कभी नहीं होता, और तुम पापरूप कर्म में लिप्य कभी मत होओ, इस उत्तम कर्म से कुछ भी दुःख (नास्ति) नहीं होता । इसलिये तुम स्त्री पुरुष सदा पुरुषार्थी होकर उत्तम कर्मों से अपनी और दूसरों की सदा उन्नति किया करो ॥ १ ॥ पुनः स्त्री पुरुष सदा निम्नलिखित मन्त्रों के अनुकूल इच्छा और आचरण किया करें । वे मन्त्र ये हैं—

भूर्भुवः स्वः । सुप्रजाः प्रजाभिः स्यात् सुवीरो वीरैः  
सुपोषः पौषैः । नर्यं प्रजां मे पाहि शंस्यं पशून् मे पाह्यर्थं  
पितुं मे पाहि ॥ २ ॥ गृहा मा विभीत मा वेपथ्वमूर्जं  
विभ्रत एमसि । ऊर्जं विभ्रद्रः सुमनाः सुमेधा गृहानैमि  
मनसा मोदमानः ॥ ३ ॥ य० अ० ३ । मं० ३७ । ४१ ॥

अर्थः—हे स्त्री वा पुरुष ! मैं तेरे वा अपने के सम्बन्ध से ( भूर्भुवः स्वः ) शारीरिक, वाचिक और मानस अर्थात् त्रिविध सुख से युक्त होके ( प्रजाभिः ) मनुष्यादि उत्तम प्रजाओं के साथ ( सुप्रजाः ) उत्तम प्रजायुक्त ( स्यात् ) होऊँ । ( वीरैः ) उत्तम पुत्र बन्धु सम्बन्धी और श्रुत्यों से [ सह वर्तमान ] ( सुवीरः ) उत्तम वीरों [ से ] सहित होऊँ । ( पौषैः ) उत्तम पुष्टिकारक व्यवहारों से ( सुपोषः ) उत्तम पुष्टियुक्त होऊँ । हे ( नर्यं ) मनुष्यों में सज्जन वीर स्वामिन् ! ( मे ) मेरी ( प्रजाम् ) प्रजा की ( पाहि ) रक्षा कीजिये । हे ( शंस्यं ) प्रशंसा करने योग्य स्वामिन् आप ( मे ) मेरे ( पशून् ) पशुओं की ( पाहि ) रक्षा कीजिये । हे ( अर्थ्यं ) अर्हिसक दयालु स्वामिन् ! ( मे ) मेरे ( पितुम् ) अन्न

आदि की (पाहि) रक्षा कीजिये । वैसे हे नारी ! प्रशंसनीय गुण-  
युक्त तू मेरी प्रजा मेरे पशु और मेरे अन्न की सदा रक्षा किया  
कर ॥ २ ॥ हे (गृहाः) गृहस्थ लोगों ! तुम विधिपूर्वक गृहाश्रम  
में प्रवेश करने से (मा, विभीत) मत डरो (मा, वेपध्वम्) मत  
कम्पायमान होओ, (ऊर्जम्) अन्न पराक्रम तथा विद्यादि शुभ  
शुण से युक्त होकर गृहाश्रम को (विभ्रतः) धारण करते हुए  
तुम लोगों का हम सत्योपदेशक विद्वान् लोग (एमसि) प्राप्त  
होते और सत्योपदेश करते हैं और अन्नपानाच्छादन स्थान से  
तुम्हें हमारा निर्वाह करते हो, इसलिये तुम्हारा गृहाश्रम व्यव-  
हार में निवान्न सर्वोत्कृष्ट है । हे वरानने ! जैसे मैं तेरा पति  
(मनना) अन्नकरण से (मोदमानः) आनन्दित (सुमनाः)  
प्रसन्नमन (सुमनाः) उत्तम बुद्धि से युक्त तुझको, और हे  
मेरे पूजनीयतम पिता आदि लोगों ! (वः) तुम्हारे लिये (ऊर्जम्)  
पराक्रम तथा अन्नादि-पेश्वय (विभ्रत्) धारण करता हुआ  
तुम (गृहान्) गृहस्थों को (आ, एमि) सब प्रकार से प्राप्त  
होता है उत्ती प्रकार तुम लोग भी मुझ से प्रसन्न हो के  
वत्ता करा ॥ ३ ॥

येपानुद्वयेति प्रवसन्त्येषु सौमनसो बहुः । गृहानुप-  
ह्वयामहे ते ना जानन्तु जानतः ॥ ४ ॥ उपहृताऽह  
गानुऽउपहृताऽअजावयः । अथो अन्नस्य कीलालऽउपहृतो  
गृहेषु नः । चेमाय वः शान्त्यै प्रपद्ये शिवथं शग्मथं  
शयोः शयोः ॥ ५ ॥ यजु० अध्याय ३ । मं० ४२ । ४३ ॥

अर्थः— हे गृहस्थो ! (प्रवसन्) परदेश को गया हुआ  
मनुष्य (येपाम्) जिनका (अध्येति) स्मरण करता है, (येषु)  
जिन गृहस्थों में (बहुः) बहुत (सौमनसः) प्रीति होती है

उन ( गृहान् ) गृहस्थों की हम विद्वान् लोग ( उप, ह्यमहे ) प्रशंसा करते और प्रीति से समीप बुलाते हैं, ( ते ) वे गृहस्थ लोग ( जानतः ) उनको जाननेवाले ( नः ) हम लोगों को ( जानन्तु ) सुहृद् जानें, वैसे तुम गृहस्थ और हम संन्यासी लोग आपस में मिल के पुरुषार्थ से व्यवहार और परमार्थ की उन्नति सदा किया करें ॥ ४ ॥ हे गृहस्थो ! ( नः ) अपने ( गृहेषु ) घरों में जिस प्रकार ( गावः ) गौ आदि उत्तम पशु ( उपहृताः ) समीपस्थ हों तथा ( अजावयः ) बकरीभेड़ आदि दूध देनेवाले पशु ( उपहृताः ) समीपस्थ हों ( अथो ) इसके अनन्तर ( अन्नस्य ) अन्नादि पदार्थों के मध्य में उत्तम ( कीलालः ) अन्नादि पदार्थ ( उपहृतः ) प्राप्त होवे हम लोग वैसा प्रयत्न किया करें । हे गृहस्थो ! मैं उपदेशक वा 'राजा ( इह ) इस गृहाश्रम में ( वः ) तुम्हारे ( जेमायः ) रक्षण तथा ( शान्त्यै ) निरुपद्रवता करने के लिये ( प्रपद्ये ) प्राप्त होता हूँ । मैं और आप लोग प्रीति से मिल के ( शिवम् ) कल्याण ( शग्मम् ) व्यावहारिक सुख और ( शंयोः, शंयोः ) पारमार्थिक सुख को प्राप्त हो के अन्य सब लोगों को सदा सुख दिया करें ॥ ५ ॥

सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च ।

यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम् ॥ १ ॥

यदि हि स्त्री न रोचेत् पुमांसं न प्रमोदयेत् ।

अप्रमोदात् पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवर्त्तते ॥ २ ॥

मनु० अ० ३ । श्लो० ६०, ६१ ॥

अर्थ:—हे गृहस्थो ! जिस कुल में भार्या से प्रसन्न पति और पति से भार्या सदा प्रसन्न रहती है उसी कुल में निश्चित कल्याण होता है और दोनों परस्पर अप्रसन्न रहें तो उस कुल

में नित्य कलह वास करता है ॥ १ ॥ यदि स्त्री पुरुष पर रुचि न रखे वा पुरुष को प्रहर्षित न करे तो अप्रसन्नता से पुरुष के शरीर में कामोत्पत्ति कभी न हो के सन्तान नहीं होते और यदि होते हैं तो दुष्ट होते हैं ॥ ३ ॥

स्त्रियान्तु रोचमानायां सर्वन्तद्रोचते कुलम् ।

तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते ॥ ३ ॥

मनु० अ० ३ । श्लो० ६२ ॥

अर्थ:—और जो पुरुष स्त्री को प्रसन्न नहीं करता तो उस स्त्री के अप्रसन्न रहने से सब कुल भर अप्रसन्न शोकातुर रहता है और जब पुरुष से स्त्री प्रसन्न रहती है तब सब कुल खानन्दरूप दीवता है ॥ ३ ॥

पितृभिर्भ्रातृभिश्चैताः पतिभिर्देवैस्तथा ।

पूज्या भूपयितव्याश्च बहुकल्याणशीप्सुभिः ॥ ४ ॥

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥ ५ ॥

शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम् ।

न शोचन्ति तु यत्रैता वर्द्धते तद्धि सर्वदा ॥ ६ ॥

जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिताः ।

तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ॥ ७ ॥

मनु० अ० ३ । श्लो० ५५-५८ ॥

अर्थ:—पिता, भ्राता, पति और देवर को योग्य है कि अपनी कन्या, बहिन, स्त्री और भौजाई आदि स्त्रियों की सदा पूजा करें अर्थात् यथायोग्य मधुर भाषण भोजन वस्त्र आभू-

अथ आदि से प्रसन्न रखें । जिनको कल्याण की इच्छा हो वे स्त्रियों को क्लेश कभी न देवें ॥ ४ ॥ जिस कुल में नारियों की पूजा अर्थात् सत्कार होता है उस कुल में दिव्य गुण, दिव्य भोग और उत्तम सन्तान होते हैं, और जिस कुल में स्त्रियों की पूजा नहीं होती वहाँ जानों उनकी सब क्रिया निष्फल है ॥ ५ ॥

जिस कुल में स्त्री लोग अपने २ पुरुषों के वेश्यागमन वा व्यभिचारादि दोषों से शोकातुर रहती हैं वह कुल शीघ्र नाश को प्राप्त होजाता है और जिस कुल में स्त्रीजन पुरुषों के उत्तमाचरणों से प्रसन्न रहती हैं वह कुल सर्वदा बढ़ता रहता है ॥ ६ ॥

जिन कुल और घरों में अपूजित अर्थात् सत्कार को न प्राप्त होकर स्त्री लोग जिन गृहस्थों को शाप देती हैं वे कुल तथा गृहस्थ जैसे विष देकर बहुतों को एकवार नाश कर देवें वैसे चारों ओर से नष्ट भ्रष्ट होजाते हैं ॥ ७ ॥

तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः ।

भूतिकामैर्नरैर्नित्यं सत्कारेषूत्सवेषु च ॥ ८ ॥

मनु० अ० ३ । श्लो० ५६ ॥

अर्थ:—इस कारण ऐश्वर्य की इच्छा करनेवाले पुरुषों को योग्य है कि इन स्त्रियों को सत्कार के अवसरों और उत्सवों में भूषण, वस्त्र, खान, पान आदि से सदा पूजा अर्थात् सत्कार-युक्त प्रसन्न रखें ॥ ८ ॥

सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दत्तया ।

सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्कहस्तया ।

मनु० अ० ५ । श्लो० १५० ॥

अर्थ:—स्त्री को योग्य है कि सदा आनन्दित होके चतु-



रता से गृहकार्यों में वर्तमान रहे, तथा अन्नादि के उत्तम संस्कार, पात्र वस्त्र गृह आदि के संस्कार, और घर के भोजनादि में जितना नित्य धन आदि लगे उसके यथायोग्य करने में सदा प्रसन्न रहे ॥ ६ ॥

एताश्चान्याश्च लोकेऽस्मिन्नपकृष्टप्रसूतयः ।

उत्कर्षं योषितः प्राप्ताः स्त्रैः स्वैर्भर्तृगुणैः शुभैः ॥ १० ॥

मनु० अ० ६ । श्लो० २४ ॥

अर्थः—यदि स्त्रियां दुष्टाचारयुक्त भी हों तथापि इस संसार में बहुत स्त्रियां अपने २ पतियों के शुभ गुणों से उत्कृष्ट होगई, होती हैं और होंगी भी, इसलिये यदि पुरुष श्रेष्ठ हों तो स्त्रियां श्रेष्ठ और दुष्ट हों तो दुष्ट होजाती हैं, इससे प्रथम मनुष्यों को उत्तम हो के अपनी स्त्रियों को उत्तम करना चाहिये ॥ १० ॥

प्रजनार्थं महाभागाः पूजार्हा गृहदीप्तयः ।

स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन ॥ ११ ॥

मनु० अ० ६ । श्लो० २६ ॥

उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम् ।

प्रत्यहं लोकयात्रायाः प्रत्यहं स्त्रीनिबन्धनम् ॥ १२ ॥

अपत्यं धर्मकार्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा ।

दारार्थीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनश्च ह ॥ १३ ॥

यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वान्तवः ।

तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्वे आश्रमाः ॥ १४ ॥

मनु० अ० ६ । श्लो० ७७ ।

अर्थः—हे पुरुषो ! सन्तानोत्पत्ति के लिये महाभाग्योद

हारी, पूजा के योग्य, गृहाश्रम को प्रकाश करती, सन्तान्ति करने करानेहारी, घरों में स्त्रियां हैं वे श्री अर्थात् लक्ष्मी-होती हैं क्योंकि लक्ष्मी शोभा धन और स्त्रियों में कुञ्ज नहीं है ॥ ११ ॥ हे पुरुषो ! अप्त्यों की उत्पत्ति, उत्पन्न लन करने आदि लोकव्यवहार को नित्यप्रति जो कि गृह का कार्य होता है उसका निबन्ध करनेवाली प्रत्यक्ष है ॥ १२ ॥ सन्तानोत्पत्ति, धर्मकार्य, उत्तम सेवा और तथा अपना और पितरों का जितना सुख है यह सब ही के आश्रीन होता है ॥ १३ ॥ जैसे वायु के आश्रय से जीवों का वर्तमान सिद्ध होता है वैसे ही गृहस्थ के आश्रय से ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और संन्यासी अर्थात् सब आश्रमों नेर्वाह [ गृहस्थ के आश्रय से ] होता है ॥ १४ ॥

यस्मात् त्रयोऽप्याश्रमिणो दानेनानेन चान्वहम् ।

गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माज्जेष्याश्रमो गृही ॥ १५ ॥

सः संधार्यः प्रयत्नेन स्वर्गमक्षयमिच्छता ।

सुखं चेहेच्छता नित्यं योऽधार्यो दुर्बलेन्द्रियैः ॥ १६ ॥

मनु० अ० ३ । श्लो० ७८-७९ ॥

सर्वेषामपि चैतेषां वेदस्मृतिविधानतः ।

गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः सः त्रीनेतान् विभर्ति हि ॥ १७ ॥

मनु० ॥

अर्थः—जिससे ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और संन्यासी इन आश्रमियों को अन्न वस्त्रादि दान से नित्यप्रति गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः सः त्रीनेतान् विभर्ति हि ॥ १७ ॥

बड़ा है ॥ १५ ॥ हे स्त्री पुरुषो ! जो तुम अन्त्य \* मुक्तिसुख  
 और इस संसार के सुख की इच्छा रखते हो तो जो दुर्बलेन्द्रिय  
 और निर्वुद्धि पुरुषों के धारण करने योग्य नहीं है उस गृह-  
 श्रम को नित्य प्रयत्न से धारण करो ॥ १६ ॥ वेद और स्मृति  
 के प्रमाण से सब आश्रमों के बीच में गृहाश्रम श्रेष्ठ है क्योंकि  
 यही आश्रम ब्रह्मचारी आदि तीनों आश्रमों का धारण और  
 पालन करता है ॥ १७ ॥

यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम् ।

तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम् ॥ १८ ॥

मनु० अ० ६ । श्लो० ६० ॥

उपासते ये गृहस्थाः परपाकमवुद्ध्यः ।

तेन ते प्रेत्य पशुतां व्रजन्त्यन्नादिदायिनाम् ॥ १९ ॥

आसनावसथौ शय्यामनुव्रज्यामुपासनाम् ।

उत्तमेष्टमं कुर्याद्भीने हीनं समे समम् ॥ २० ॥

पापण्डिनो विकर्मस्थान् वैडालव्रतिकान् शठान् । - )

हेतुकान् वकवृत्तींश्च वाङ्मात्रेणापि नार्चयेत् ॥ २१ ॥

मनु० अ० ४ । श्लो० ३० ॥

\* अन्त्य इतना ही मात्र है कि जितना समय मुक्ति का है । उतने  
 समय में दुःख का संयोग, जैसा विषयेन्द्रिय के संयोगजन्य सुख में होता  
 है प्रेमा नहीं होता ॥

अर्थः—हे मनुष्यो ! जैसे सब बड़े २ नद और नदी सागर में जाकर स्थिर होते हैं, वैसे ही सब आश्रमी गृहस्थ ही को प्राप्त होके स्थिर होते हैं ॥ १८ ॥ यदि गृहस्थ हो के पराये घर में भोजनादि की इच्छा करते हैं तो वे बुद्धिहीन गृहस्थ अन्य ऐ-  
प्रतिग्रहरूप पाप करके जन्मान्तर में अन्नादि के दाताओं के पशु बनते हैं, क्योंकि अन्य से अन्नादि का ग्रहण करना अति-  
थियों का काम है, गृहस्थों का नहीं ॥ १९ ॥ जब गृहस्थ के समीप अतिथि आवें तब आसन, निवास, शय्या, पश्चाद्गमन और समीप में बैठना आदि सत्कार जैसे का वैसा अर्थात् उ-  
त्तम का उत्तम, मध्यम का मध्यम और निकृष्ट का निकृष्ट करे ऐसा न हो कि कभी न समझें ॥ २० ॥ किन्तु जो पाखण्डी, मोदनिन्दक, नास्तिक, ईश्वर वेद और धर्म को न माने, अथ-  
र्माचरण करनेहारे, हिंसक, शठ, मिथ्याभिमानी, कुतर्की और धकवृत्ति अर्थात् पराये पदार्थ हरने वा वहकाने में बगुल्ले के समान, अतिथिवेषधारी बन के आवें उनका वचनमात्र से भी सत्कार गृहस्थ कभी न करे ॥ २१ ॥

दशसूनासमं चक्रं दशचक्रसमो ध्वजः ।

दशध्वजसमो वेशो दशवेशसमो नृपः ॥ २२ ॥

मनु० अ० ४ । श्लो० ८५ ॥

न लोकवृत्तं वर्तेत वृत्तिहेतोः कथंचन ।

अजिह्वामशठां शुद्धां जीवेद् ब्राह्मणजीविकाम् ॥ २३ ॥

सत्यधर्मार्थवृत्तेषु शौचे चैवारमेत्सदा ।

शिष्याँश्च शिष्याद्धर्मेण वाग्वाहूदरसंयतः ॥ २४ ॥

परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां धर्मवर्जितौ ।

धर्म चाप्यसुखोदकं लोकविकुष्टमेव च ॥ २५ ॥

मनु० अ० ४ । श्लो० १७५, १७६ ॥

अर्थः—दश हत्या के समान चक्र अर्थात् कुम्हार ( तथा ) गाड़ी से जीविका करनेहारे, दश चक्र के समान ध्वज अर्थात् घोड़ी ( तथा ) मद्य को निकाल कर बेचनेहारे, दशध्वज के समान वेश अर्थात् वेश्या, भड्वा, भांड, दूसरे की नकल अर्थात् पापाणमूर्तियों के पूजक ( पूजारी ) आदि । और दशवेश के समान जो अन्यायकारी राजा होता है उनके अन्न आदि का ग्रहण अतिथि लोग कभी भी न करें ॥ २२ ॥ गृहस्थ जीविका के लिये भी कभी शास्त्रविरुद्ध लोकाचार का वर्त्ताव न वत्ते, किन्तु जिसमें किसी प्रकार की कुटिलता मूर्खता मिथ्यापन वा अश्रम न हो उस वेदोक्तधर्मसम्बन्धी जीविका को करे ॥ २३ ॥ किन्तु सत्य, धर्म, आर्य अर्थात् आते पुरुषों के व्यवहार और शौच पवित्रता ही में सदा गृहस्थ लोग प्रवृत्त रहें और सत्यवाणी, भोजनादि के लोभ रहित हस्तपादादि की कुचेष्टा छोड़कर धर्म से शिष्यों और सन्तानों को उत्तम शिक्षा सदा किया करें ॥ २४ ॥ यदि बहुतसा धन राज्य और अपनी कामना अश्रम से सिद्ध होती हो तो भी अश्रम सर्वथा छोड़ दें और वेदविरुद्ध धर्माभास जिसके करने से उत्तर काल में दुःख और संसार की उन्नति का नाश हो वैसा नाममात्र धर्म और कर्म कभी न किया करें ॥ २५ ॥

सर्वेषामेव शौचानामर्थशौचं परं स्मृतम् ।

योऽर्थे शुचिर्हि स शुचिर्न मृद्वारिशुचिः शुचिः ॥ २६ ॥

ज्ञान्त्या शुच्यन्ति विद्वांसो दानेनाकार्यकारिणः ।

प्रच्छन्नपापा जप्येन तपसा वेदवित्तमाः ॥ २७ ॥

श्रद्धिर्गात्राणि शुध्यान्ते मनः सत्येन शुध्यति ।

विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति ॥ २८ ॥

दशावरा वा परिषद्यं धर्मं परिकल्पयेत् ।

व्यवरा वापि वृत्तस्था तं धर्मं न विचालयेत् ॥ २९ ॥

मनु० अ० १२ । श्लो० ११० ॥

दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति ।

दण्डः सुप्तेषु जागर्त्ते दण्डं धर्मं विदुर्वुधाः ॥ ३० ॥

मनु० अ० ७ । श्लो० १८ ॥

तस्याहुः संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम् ।

समीक्ष्यकारिणं प्राज्ञं धर्मकामार्थकोविदम् ॥ ३१ ॥

मनु० अ० ७ । श्लो० २६ ॥

अर्थः—जो धर्म ही से पदार्थों का संचय करना है वही सब पवित्रताओं में उत्तम पवित्रता, अर्थात् जो अन्याय से किसी पदार्थ का ग्रहण नहीं करता वही पवित्र है, किन्तु जल मृत्तिकादि से जो पवित्रता होती है वह धर्म के सदृश उत्तम नहीं है ॥ २६ ॥ विद्वान् लोग क्षमा से, दुष्टकर्मकारी सत्सङ्ग और विद्यादि शुभगुणों के दान से, गुप्त पाप करनेहारि विचार से त्याग कर, और ब्रह्मचर्य तथा सत्यभाषणादि से वेदवित् उत्तम विद्वान् शुद्ध होते हैं ॥ २७ ॥ किन्तु जल से ऊपर के अङ्ग पवित्र होते हैं, आत्मा और मन नहीं, मन तो सत्य मानने, सत्य बोलने और सत्य करने से शुद्ध और जीवात्मा विद्या योगाभ्यास और धर्माचरण ही से पवित्र तथा बुद्धि ज्ञान से ही शुद्ध होती है, जल मृत्तिकादि से नहीं ॥ २८ ॥ गृहस्थ लोग

छोटों वहाँ वा राजकार्यों के सिद्ध करने में कम से कम १० अर्थात् ऋग्वेदज्ञ, यजुर्वेदज्ञ, सामवेदज्ञ, हेतुक ( नैयायिक ), तर्ककर्त्ता ( मीमांसा शास्त्रज्ञ ), नैरुक्त ( निरुक्तशास्त्रज्ञ ), धर्माध्यापक, ब्रह्मचारी, स्नातक और वानप्रस्थ विद्वानों अथवा अतिन्यूनता करे तो तीन वेदवित् ( ऋग्वेदज्ञ, यजुर्वेदज्ञ और सामवेदज्ञ ) विद्वानों की सभा से कर्त्तव्याकर्त्तव्य धर्म और अयम का जैसा निश्चय हो वैसा ही आचरण किया करे ॥२६॥ और जैसा विद्वान् लोग दण्ड ही को धर्म जानते हैं वैसा सब लोग जानें, क्योंकि दण्ड ही प्रजा का शासन अर्थात् नियम में रखनेवाला, दण्ड ही सब का सब और से रक्षक और दण्ड ही सोंते दुष्टों में जागता है, चौरादि दुष्ट भी दण्ड ही के भय से पापकर्म नहीं कर सकते ॥ ३० ॥ उस दण्ड को अच्छे प्रकार चलानेहारे उस राजा को कहते हैं कि जो सत्यवादी विचार ही करके कार्य का कर्त्ता, बुद्धिमान्, विद्वान्, धर्म, काय और अर्थ का यथावत् जाननेहारा हो ॥ ३१ ॥

सोऽसहायेन मूढेन लुब्धेनाकृतशुद्धिना ।

न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्तेन विपयेषु च ॥ ३२ ॥

शुचिना सत्यसन्धेन यथाशास्त्रानुसारिणा ।

प्रणेतुं शक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता ॥ ३३ ॥

मनु० अ० ७ । श्लो० ३०, ३१ ॥

अदण्डयान् दण्डयन् राजा दण्डयन्त्रिवाप्यदण्डयन् ।

अयशो महदाप्नोति नरकं चैव गच्छति ॥ ३४ ॥

मनु० अ० ८ । श्लो० १२८ ॥

अर्थः—जो राजा उत्तम सहाय रहित मूढ़ लोभी, जिसने

ब्रह्मचर्यादि उत्तम कर्मों से विद्या और बुद्धि की उन्नति नहीं  
फी, विषयों में फंसा हुआ है उससे वह दण्ड कभी न्यायपूर्वक  
नहीं चल सकता ॥ ३२ ॥ इसलिये जो पवित्र, सत्पुरुषों का  
खेती, राजनीति शास्त्र के अनुकूल चलनेद्वारा, धार्मिक पुरुषों  
के सहाय से युक्त, बुद्धिमान् राजा हो वही इस दण्ड को धार-  
ण करके चला सकता है ॥ ३३ ॥ जो राजा अनपराधियों को  
दण्ड देता और अपराधियों को दंड नहीं देता है वह इस जन्म  
में बड़ी अपकीर्ति को प्राप्त होता और मरे पश्चात् नरक अर्थात्  
प्रह्लादुःख का पाता है ॥ ३४ ॥

मृगयाज्ञा दिवास्वप्नः परिवादः स्त्रियो मदः ।

तौर्यत्रिकं वृथाद्या च कामजो दशको गणः ॥ ३५ ॥

पैशुन्यं साहसं द्रोह ईर्ष्याऽसूयार्थदूषणम् ।

वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोष्टकः ॥ ३६ ॥

द्वयोरप्येतयोर्मूलं यं सर्वे कवयो विदुः ।

तं यत्नेन जयेन्नोभं तज्जावेताबुभौ गणौ ॥ ३७ ॥

मनु० अ० ७ । श्लो० ४७-४९ ॥

अर्थ—मृगया अर्थात् शिकार खेलना, द्यूत और प्रसन्नता  
के लिये भी चौपड़ आदि खेलना, दिन में सोना, हंसी ठट्टा मि-  
थ्यावाद करना, स्त्रियों के साथ सदा श्रमिक निवास में मोहित  
होना, मद्यपानादि नशाओं का करना, गाना, बजाना, नाचना  
या इनका देखना और वृथा इधर उधर घूमते फिरना ये दश  
दुर्गुण काम से होते हैं ॥ ३५ ॥ और चुगली खाना, बिना वि-  
श्वारे काम कर बैठना, जिस किसी से वृथा वैर बांधना, दूसरे  
की स्तुति सुन वा बढ़ती देख के हृदय में जला करना, दूसरों  
के गुणों में दोष और दोषों में गुण स्थापन करना, बुरे कामों





को नहीं ॥ ३८ ॥ और जो अपने राज्य में उत्पन्न, शास्त्रों के जाननेहारे, शूरवीर, जिनका विचार निष्फल न होवे, कुलीन धर्मात्मा, स्वराज्यभक्त हों उन सात वा आठ पुरुषों को अच्छी प्रकार परीक्षा करके मन्त्री करे और इन्हीं की सभा में आठवां वा नववां राजा हो ये सब मिल के कर्त्तव्याकर्त्तव्य कामों का विचार किया करें ॥ ३९ ॥ इसी प्रकार अन्य भी राज्य और सेना के अधिकारी जितने पुरुषों से राजकार्य सिद्ध हो सके उतने ही पवित्र धार्मिक विद्वान् चतुर स्थिरबुद्धि पुरुषों को राज्यसामग्री के वर्धक नियत करे ॥ ४० ॥

दूतं चैव प्रकुर्वीत सर्वशास्त्रविशारदम् ।

इङ्गिताकारचेष्टं शुचिं दत्तं कुलोद्गतम् ॥ ४१ ॥

मनु० अ० ७ । श्लो० ६३ ॥

अलब्धमिच्छेदण्डेन लब्ध रक्षेदवेक्षया ।

रक्षितं वर्धयेद्बृद्ध्या वृद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत् ॥ ४२ ॥

मनु० अ० ७ । श्लो० १०१ ॥

अर्थः—तथा जो सब शास्त्र में निपुण, नेत्रादि के संकेत स्वरूप तथा चेष्टा से दूसरे के हृदय की बात को जाननेहारा, शुद्ध, बड़ा स्मृतिमान्, देश काल जाननेहारा, सुन्दर जिसका स्वरूप, बड़ा वक्ता और अपने कुल में मुख्य हो उस और स्वराज्य और परराज्य के समाचार देनेहारे अन्य दूतों को भी नियत करे ॥ ४१ ॥ तथा राजादि राजपुरुष अलब्ध राज्य की इच्छा दंड से, और प्राप्त राज्य की रक्षा संभाल से, रक्षित राज्य और धन को व्यापार और व्याज से बढ़ा और सुपात्रों के द्वारा सत्यविद्या और सत्यधर्म के प्रचार आदि उत्तम व्यव-

हारों में बड़े हुए धन आदि पदार्थों का व्यय करके सब की उन्नति सदा किया करें ॥ ४२ ॥

विधि:—सदा स्त्री पुरुष १० ( दश ) वजे शयन और रात्रि के पहिले प्रहर वा ४ वजे उठके प्रथम हृदय में परमेश्वर का चिन्तन करके धर्म अर्थ का विचार किया करें, और धर्म और अर्थ के अनुष्ठान वा उद्योग करने में यदि कभी पीड़ा भी हो तथापि धर्मयुक्त पुरुषार्थ को कभी न छोड़ें, किन्तु सदा शरीर और आत्मा की रक्षा के लिये युक्त आहार विहार औषधसेवन सुपथ्य आदि से निरन्तर उद्योग करके व्यावहारिक और पारमाथिक कर्त्तव्य कर्म की सिद्धि के लिये ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना भी किया करें कि जिस परमेश्वर की कृपादृष्टि और सहाय से महाकठिन कार्य भी सुगमता से सिद्ध हो सकें, इसके लिये निम्नलिखित मन्त्र हैं:—

प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्भिन्नावरुणा प्रातर-  
धिना । प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातस्सोममुत रुद्रं  
हुवेम \* ॥ १ ॥ प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम ह्यं पुत्रमर्दितुर्यो

हे स्त्री पुरुषो ! जैसे हम विद्वान् उपदेशक लोग ( प्रातः ) प्रभात  
बेला में ( आग्निम् ) स्वप्रकाशस्वरूप ( प्रातः ) ( इन्द्रम् ) परमेश्वर्य के  
दान और परमेश्वर्ययुक्त ( प्रातः ) ( मिन्नावरुणा ) प्राण उदान के समान  
द्विय और सर्वशक्तिमान् ( प्रातः ) ( आश्विना ) सूर्य चन्द्र को जिसने  
उत्पन्न किया है उस परमात्मा को ( हवामहे ) स्तुति करते हैं और ( प्रातः )  
( भगम् ) भजनीय संवर्तनीय ऐश्वर्ययुक्त ( पूषणम् ) पुष्टिकर्ता ( ब्रह्मण-  
स्पतिम् ) अपने उपासक, वेद और ब्रह्माण्ड के पालन करनेहार ( प्रातः )  
( सोमम् ) अन्तर्योगी प्रेरक ( उत ) और ( रुद्रम् ) पापियों को रुला-  
नेहार और सर्वरोगनाशक जगदीश्वर को ( हुवेम ) स्तुति प्रार्थना करते हैं  
जैसे प्रातः समय तुम लोग भी किया करो ॥ १ ॥

विधर्ता । अ धरिचद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजाचिद्यं भगं भन्ती-  
 त्याह \* ॥ २ ॥ भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगेमां धियमुदवा  
 ददन्नः । भग प्र णो जनय गोभिरश्वैर्भग प्र नृभिर्नृवन्तः  
 स्याम † ॥ ३ ॥ उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्र पित्वा

\* ( प्रातः ) पांच घड़ी रात्रि रहे ( जितम् ) जयशील ( भगम् )  
 ऐश्वर्य के दाता ( उग्रम् ) तेजस्वी ( अदितेः ) अन्तरिक्ष के ( पुत्रम् )  
 सूर्य की उत्पत्ति करनेहार और ( यः ) जो कि सूर्यादि लोकों का ( विधर्ता )  
 विशेष करके धारण करनेहारा ( आध्रः ) सब ओर से धारणकर्ता ( यं,  
 चित् ) जिस किसी का भी ( मन्यमानः ) जाननेहारा ( तुरश्चित् ) दुष्टों  
 का भी दण्डदाता और ( राजा ) सब का प्रकाशक है ( यम् ) जिस  
 ( भगम् ) भजनीय स्वरूप को ( चित् ) भी ( भन्तीति ) इस प्रकार  
 सेवन करता हूं और इसी प्रकार भगवान् परमेश्वर सब को ( आह )  
 उपदेश करता है कि तुम, जो मैं सूर्यादि जगत् का बनाने और धारण  
 करनेहारा हूं उस मेरी उपासना किया और मेरी आज्ञा में चला करो इस  
 से ( वयम् ) हम लोग उसकी ( हुवेम ) स्तुति करते हैं ॥ २ ॥

† हे ( भग ) भजनीयस्वरूप ( प्रणेतः ) सब के उत्पादक सत्याचार  
 में प्रेरक ( भग ) ऐश्वर्यप्रद ( सत्यराधः ) सत्य धन को देनेहारे ( भग )  
 सत्याचरण करनेहारों को ऐश्वर्यदाता आप परमेश्वर ( नः ) हमको  
 ( इमाम् ) इस ( धियम् ) प्रज्ञा को ( ददत् ) दीजिये और उसके दान  
 से हमारी ( उदव ) रक्षा कीजिये हे ( भग ) आप ( गोभिः ) गाय आदि  
 और ( अश्वैः ) घोड़े आदि उत्तम पशुओं के योग से राज्यश्री को ( नः )  
 हमारे लिये ( प्रजनय ) प्रगट कीजिये, हे ( भग ) आपकी कृपा से हम  
 लोग ( नृभिः ) उत्तम मनुष्यों से ( नृवन्तः ) बहुत वीर मनुष्यवाले  
 ( प्र, स्याम ) अच्छे प्रकार होंगे ॥ ३ ॥

उत्त मध्ये अह्नाम् । उतोदिता मघवन्त्सूर्यस्य वयं देवानां  
 सुमतौ स्याम \* ॥ ४ ॥ भग एव भगवाँ अस्तु देवास्तेन  
 वयं भगवन्तः स्याम । तं त्वा भग सर्व इज्जोहवीति स नो  
 भग पुरणता भवेह । ॥ ५ ॥ ऋ० मं० ७ । सू० ४१ ।  
 मं० १-५ ॥

इसी प्रकार परमेश्वर की प्रार्थना उपासना करनी । तत्प-  
 श्चात् शौच, दन्तधावन, मुखप्रक्षालन करके स्नान करें ।

\* हे भगवन् ! आप की कृपा ( उत्त ) और अपने पुरुषार्थ से हम  
 लोग ( इदानीम् ) इस समय ( प्रपित्वे ) प्रकंपता उत्तमता की प्राप्ति में  
 ( उत्त ) और ( अह्नाम् ) इन दिनों के ( मध्ये ) मध्य में ( भगवन्तः )  
 ऐश्वर्ययुक्त और शक्तिमान् ( स्याम ) होंगे ( उत्त ) और हे ( मघवन् )  
 परमपूजित असंख्य धन देनेहार ( सूर्यस्य ) सूर्यलोक के ( उदिता ) उदय  
 में ( देवानाम् ) पूर्ण विद्वान् धार्मिक आप लोगों की ( सुमतौ ) अच्छी  
 उत्तम प्रज्ञा ( उत्त ) और सुमति में ( वयम् ) हम लोग ( स्याम )  
 सदा प्रवृत्त रहें ॥ ४ ॥

† हे ( भग ) सकलेश्वरसम्पन्न जगदीश्वर ! जिससे ( तम ) उस  
 ( त्वा ) आप की ( सर्वः ) सब सज्जन ( इज्जोहवीति ) निश्चय करके  
 प्रशंसा करते हैं ( सः ) सो आप हे ( भग ) ऐश्वर्यप्रद ! ( इह ) इस  
 संसार और ( नः ) हमारे गृहाश्रम में ( पुरणता ) अन्नगामी और आगे २  
 सत्य कर्मों में बढ़ानेहार ( भव ) हृजिय और जिससे ( भगवन् ) सम्पूर्ण  
 ऐश्वर्ययुक्त और समस्त ऐश्वर्य के दाना क होने से आप ही हमारे ( भग-  
 वान् ) पूजनीय देव ( अस्तु ) हृजिये ( तेन ) उसी हेतु से ( देवाः,  
 वयम् ) हम विद्वान् लोग ( भगवन्तः ) सकलेश्वरसम्पन्न होके सब संसार  
 के उत्कार में तन तन धन से प्रवृत्त ( स्याम ) होंगे ॥ ५ ॥

पश्चात् एक कोश वा डेढ़ कोश एकान्त जङ्गल में जा के योग-  
न्यास की रीति से परमेश्वर की उपासना कर, सूर्योदय पर्यन्त  
अथवा घड़ी आधघड़ी दिन चढ़े तक घर में आके सन्ध्योपास-  
नादि नित्यकर्म नीचे लिखे प्रमाणे यथाविधि उचित समय में  
किया करें। इन नित्य करने के योग्य कर्मों में लिखे हुए मन्त्रों  
का अर्थ और प्रमाण पञ्चमहायज्ञविधि में देख लें। प्रथम  
शरीरशुद्धि अर्थात् स्नान पर्यन्त कर्म करके सन्ध्योपासन का  
आरम्भ करें। आरम्भ में दक्षिण हस्त में जल लेके:—

ओं अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥ १ ॥ ॐ अमृता-  
पिधानमसि स्वाहा ॥ २ ॥ ॐ सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः  
श्रयतां स्वाहा ॥ ३ ॥ आश्वलायन गृ० सू० अ० १ ।  
कं० २४ । सू० १२ । २१ । २२ ॥

इन तीन मन्त्रों में से एक २ से एक २ आचमन कर, दोनों  
हाथ धो, कान, आंख, नासिका आदि का शुद्ध जल से स्पर्श करके,  
शुद्ध देश, पवित्रासन पर, जिधर की ओर का वायु हो उधर  
को मुख करके, नाभि के नीचे से मूलेन्द्रिय को ऊपर संकोच  
करके, हृदय के वायु को बल से बाहर निकाल के, यथाशक्ति  
रोके, पश्चात् धीरे २ भीतर लेके भीतर थोड़ासा रोके, यह  
एक प्राणायाम हुआ। इसी प्रकार कम से कम तीन प्राणायाम  
करे। नासिका को हाथ से न पकड़े। इस समय परमेश्वर की  
स्तुति प्रार्थनापासना हृदय में करके—

ओं शन्नो देवीरभिट्यु आपो भवन्तु पीतये । शंयो-  
श्मि स्रवन्तु नः ॥ यजु० अ० ३६ । म० १२ ॥

इस मन्त्र को एक बार पढ़ के तीन आचमन कर। पश्चात्

पात्र में से मध्यमा अनामिका अंगुलियों से जल स्पर्श करके प्रथम दक्षिण और पश्चात् वामपार्श्व निम्नलिखित मन्त्रों से स्पर्श करे—

ओं वाक् वाक् ॥ इस मन्त्र से मुख का दक्षिण और वामपार्श्व ॥

ओं प्राणः प्राणः ॥ इससे दक्षिण और वाम नासिका के छिद्र ॥

ओं चक्षुश्चक्षुः ॥ इससे दक्षिण और वाम नेत्र ॥

ओं श्रोत्रं श्रोत्रम् ॥ इससे दक्षिण और वाम श्रोत्र ॥

ओं नाभिः ॥ इससे नाभि ॥

ओं हृदयम् ॥ इससे हृदय ॥

ओं कण्ठः ॥ इससे कण्ठ ॥

ओं शिरः ॥ इससे मस्तक ॥

ओं बाहुभ्यां यशोवलयम् ॥ इससे दोनों भुजाओं के मूल स्कन्ध और—

ओं करतलकरपृष्ठे ॥ इससे दोनों हाथों के ऊपर तले स्पर्श करके मार्जन करे ॥

ओं भूः पुनातु शिरसि ॥ इस मन्त्र से शिर पर ॥

ओं भुवः पुनातु नेत्रयोः ॥ इस मन्त्र से दोनों नेत्रों पर ॥

ओं स्वः पुनातु कण्ठे ॥ इस मन्त्र से कण्ठ पर ॥

ओं महः पुनातु हृदये ॥ इस मन्त्र से हृदय पर ॥

ओं जनः पुनातु नाभ्याम् ॥ इससे नाभि पर ॥

ओं तपः पुनातु पादयोः ॥ इससे दोनों पगों पर ॥

ओं सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॥ इससे पुनः मस्तक पर ॥

ओं खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॥

इस मन्त्र से सब अङ्गों पर छीटा देवे । पुनः पूर्वोक्त रीति से प्राणायाम की क्रिया करता जावे । और नीचे लिखे मन्त्र का जप भी करता जायः—

ओं भूः, ओं भुवः, ओं स्वः, ओं महः, ओं जनः,  
ओं तपः, ओं सत्यम् ॥ तैत्तिरीयारण्य० प्र० १० । अनु०  
२७ ॥

इसी रीति से कम से कम तीन और अधिक से अधिक २१ ( इक्कीस ) प्राणायाम करे । तत्पश्चात् सृष्टिकर्ता परमात्मा और सृष्टिक्रम का विचार नीचे लिखित मन्त्रों से करे, और जगदीश्वर को सर्वव्यापक न्यायकारी सर्वत्र सर्वदा सब जीवों के कर्मों के द्रष्टा को निश्चित मान के पाप की ओर अपने आत्मा और मन को कभी न जाने देवे किन्तु सदा धर्मयुक्त कर्मों में वर्तमान रखे ॥

ओं ऋतञ्च सत्यञ्चाभीर्द्धात्तपसोऽध्यजायत । ततो  
रात्र्यजायत । ततः समुद्रो अर्णवः ॥ १ ॥ समुद्रार्दणवा-  
दधि संवत्सरो अजायत । अहोगत्राणि विदधद्विश्वस्य मि-  
षतो वशी ॥ २ ॥ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत् ।  
दिवं च पृथिवीञ्चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ ३ ॥ ऋ० मं०  
१० । सू० १६० ॥



इन मन्त्रों को पढ़ के पुनः ( शन्नो देवी० ) इस मन्त्र से तीन आचमन करके निम्नलिखित मन्त्रों से सर्वव्यापक परमात्मा की स्तुति प्रार्थना करे ॥

ओं प्राची दिग्ग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या  
 इषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो  
 नम एभ्यो अस्तु । योऽस्मान्दोषि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे  
 दध्मः ॥ १ ॥ दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्तिरश्चि राजी रक्षिता  
 पितर इषवः । तेभ्यो० ॥ २ ॥ प्रतीची दिग्वरुणोऽधिपतिः  
 पृदाक् रक्षितान्मिषवः । तेभ्यो० ॥ ३ ॥ उदीची दिक्सोमो-  
 ऽधिपतिः स्वजा रक्षिताशनिरिषवः । तेभ्यो० ॥ ४ ॥ ध्रुवा-  
 दिग्विष्णुरधिपतिः कल्मापग्रीवो रक्षिता वीरुध इषवः ।  
 तेभ्यो० ॥ ५ ॥ ऊर्वा दिग्वृहस्पतिरधिपतिः शिव्यो रक्षिता  
 धर्षमिषवः । तेभ्यो० ॥ ६ ॥ अथर्व० कां० ३ । सू० २७ ।  
 मं० १-६ ॥

इन मन्त्रों को पढ़ते जाना और अपने मन से चारों ओर बाहर भीतर परमात्मा को पूर्णजानकर निर्भय निश्शङ्क उत्साही भ्रानन्दित पुरुषार्थी रहना । तत्पश्चात् परमात्मा का उपस्थान अर्थात् परमेश्वर के निकट में और मेरे अतिनिकट परमात्मा है ऐसी बुद्धि करके करे—

जातवेदसे सुनवास सोममरातीयतो निर्दहाति वेदः ।  
 स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः  
 ॥ १ ॥ ऋ० मं० १ । सू० ६६ । मं० १ ॥

चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः ।  
 प्रा प्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षे सूर्य आत्मा जगतस्तस्य-  
 पथ ॥ १ ॥ यजु० अ० १३ । मं० ४६ ॥ उदुत्यं जात-  
 वेदसं देवं वहन्ति केतवः । दृशे विश्वाय सूर्यम् ॥ २ ॥  
 यजु० अ० ३३ । मं० ३१ ॥ उद्भयन्तमसस्परि स्वः पश्य-  
 न्त उत्तरम् । देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् ॥ ३ ॥  
 यजु० अ० ३५ । मं० १४ ॥ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छु-  
 क्रमुच्चरत् । पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतथ  
 सुखुयाम शरदः शतं प्र ब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम  
 शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ॥ ४ ॥ यजु० अ०  
 ३६ । मं० २४ ॥

इन मन्त्रों से परमात्मा का उपस्थान करके पुनः ( शन्नो  
 देवी० ) इससे तीन आचमन करके पृष्ठ ६६ में लिखे०  
 अथवा पञ्चमहायज्ञविधि में लिखे० गायत्री मन्त्र का अर्थ विचार-  
 पूर्वक परमात्मा की स्तुति प्रार्थनोपासना करे, पुनः हे परमेश्वर  
 श्यानिवे ! आपकी कृपा से ज्ञानोपासनादि कर्मों को करके  
 हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि को शीघ्र प्राप्त  
 होवें, पुनः—

ओं नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय  
 च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॥ ५ ॥  
 यजु० अ० १६ । मं० ४१ ॥

इससे परमात्मा को नमस्कार करके ( शन्नो देवी० ) इस  
 मन्त्र से तीन आचमन करके अग्निहोत्र का आरम्भ करें ॥

इति संक्षेपतः सन्ध्योपासनविधिः समाप्तः ॥

## अथाग्निहोत्रम्

जैसे सायं प्रातः दोनों सन्धिवेलाओं में सन्ध्योपासन करें इसी प्रकार दोनों स्त्री पुरुष \* अग्निहोत्र भी दोनों समय में नित्य किया करें। पृष्ठ २५—२६ में लिखे प्रमाणे अग्न्याधान, समिदाधान और पृष्ठ २७ में लिखे—

ओं आदितेऽनुमन्यस्व ।

इत्यादि ४ मन्त्रों से यथाविधि कुण्ड के चारों ओर जल प्रोक्षण करके, शुद्ध किये हुए सुगन्ध्यादियुक्त घी को तपा के पात्र में लेके, कुण्ड से पश्चिम भाग में पूर्वाभिमुख बैठके, पृष्ठ २७ में लिखे आधारावाज्यभागाहुति चार देके, नीचे लिखे हुए मन्त्रों से प्रातःकाल अग्निहोत्र करे:—

ओं सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ॥ १ ॥ ओं सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॥ २ ॥ ओं ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॥ ३ ॥ ओं सजूर्देवेन सवित्रा सजू-  
रुपसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा ॥ ४ ॥

अब नीचे लिखे हुए मन्त्र सायंकाल में अग्निहोत्र के जानो ।

ओं अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ॥ १ ॥ ओं अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॥ २ ॥ ओं अग्निर्ज्योति-  
र्ज्योतिरग्निः स्वाहा ॥ ३ ॥

इस मन्त्र को मन से उच्चारण करके तीसरी आहुति देनी ॥

\* किसी विशेष कारण से स्त्री वा पुरुष अग्निहोत्र के समय दोनों साथ उपस्थित न होसकें तो एक ही स्त्री वा पुरुष दोनों की ओर का रूप कर लेवे अर्थात् एक २ मन्त्र का दो २ बार पद के दो २ आहुति करे ॥

ओं सजूर्देवेन सवित्रा सजूर्वाय्येन्द्रवत्या जुषाणो  
अग्निर्वेतु स्वाहा ॥ ४ ॥ य० अ० ३ । मं० ६, १० ॥

अब निम्नलिखित मन्त्रों से प्रातः सायं आहुति देनी  
चाहिये:—

ओं भूर्गनये प्राणाय स्वाहा ॥ इदमग्नये, प्राणाय—

इदन्न मम ॥ १ ॥ ओं भुवर्वायवेऽपानाय स्वाहा ॥ इदं वायवेऽ-

पानाय—इदन्न मम ॥ २ ॥ ओं स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा ॥

इदमादित्याय, व्यानाय—इदन्न मम ॥ ३ ॥ ओं भूर्भुवः

स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा ॥ इद-

माग्निवाय्वादित्येभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः—इदन्न मम ॥ ४ ॥

ओं आपो ज्वोतीरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो स्वाहा ॥ ५ ॥

ओं यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते । तिया मामद्य मेध-

याऽग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॥ यजु० अ० ३० । मं०

१४ ॥ ओं विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव । यद्द्रं

तन्न आसुव स्वाहा ॥ ७ ॥ य० अ० ३० । मं० ३ ॥

ओं अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विशक्वानि देव वयुनानि

विद्वान् । युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भृयिष्ठान्त नमउक्तिं

विधेम स्वाहा ॥ ८ ॥ य० अ० ४० । मं० १६ ॥

इन आठ मन्त्रों से एक २ मन्त्र करके एक २ आहुति ऐसे  
आठ आहुति देके—

ओं सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॥

इस मन्त्र से तीन पूर्णाहुति अर्थात् एक २ बार पढ़के एक २ करके तीन आहुति देवे ॥

इत्यग्निहोत्रविधिः संक्षेपतः समाप्तः ॥ २ ॥

### अथ पितृयज्ञः

अग्निहोत्रविधि पूर्ण करके तीसरा पितृयज्ञ करे अर्थात् जीते हुए माता पिता आदि की यथावत् सेवा करनी पितृयज्ञ कहाता है ॥ ३ ॥

### अथ बलिवैश्वदेवविधिः

ओं अग्नये स्वाहा ॥ ओं सोमाय स्वाहा ॥ ओं अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा ॥ ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥ ओं धन्वन्तरये स्वाहा ॥ ओं कुहूँ स्वाहा ॥ ओमनुमते स्वाहा ॥ ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ ओं द्यावापृथिवीभ्यां स्वाहा ॥ ओं स्वितृकृत स्वाहा ॥ मनु० अ० ३ । श्लो० ८५, ८६ ॥

इन दश मन्त्रों से घृतमिश्रित भात की, यदि भात न बना हो तो चार और लवणान्न को छोड़ के जो कुछ पाक में बना हो उसकी दश आहुति करे । तत्पश्चात् निम्नलिखित मन्त्रों से बलिदान करे—

ओं सानुगोयन्द्राय नमः ॥ इससे पूर्व ॥

ओं सानुगाय यमाय नमः ॥ इससे दक्षिण ॥

ओं सानुगाय वरुणाय नमः ॥ इससे पश्चिम ॥

ओं सानुगाय सोमाय नमः ॥ इससे उत्तर ॥

- ओं मरुद्भ्यो नमः ॥ इससे द्वार ॥  
 ओं अद्भ्यो नमः ॥ इससे जल ॥  
 ओं वनस्पतिभ्यो नमः ॥ इससे मूसल और ऊखल ॥  
 ओं श्रियै नमः ॥ इससे ईशान \* ॥  
 ओं भद्रकाल्यै नमः ॥ इससे नैर्ऋत्य † ॥  
 ओं ब्रह्मपतये नमः । ओं वास्तुपतये नमः ॥ इससे मध्य ॥  
 ओं विद्येभ्यो देवेभ्यो नमः । ओं दिवाचरेभ्यो भूते-  
 भ्यो नमः । ओं नक्त्रचारिभ्यो भूतेभ्यो नमः ॥ इनसे ऊपर ॥  
 ओं सर्वात्मभूतये नमः ॥ इससे पृष्ठ ॥  
 ओं पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः ॥ इससे दक्षिण ॥  
 मनु० अ० ३ । श्लो० ८७—६१ ॥

इन मन्त्रों से एक पत्तल वा थाली में यथोक्त दिशाओं में भाग धरना । यदि भाग धरने के समय कोई अतिथि आजाय तो उसी को द देना, नहीं तो अग्नि में धर देना । तत्पश्चात् पुरतसहित लवणाक्ष लेके—

शुनां च षतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम् ।  
 वायसानां कुभीणां च शनकैर्निर्वपेद् भुवि ॥ १ ॥

मनु० अ० ३ । श्लो० ६२ ॥

अर्थः—कुत्ता, पतित, चाण्डाल, पापरोगी, काक और

\* “घर की छत में” ऐसा मनुमें मिलता है । अ० ३ । श्लो० ८६ ॥

† “घर के पाद में” मनु० १ । ८६ ॥

हमि इन छः नामों से छः भाग पृथिवी में धरे और वे छः भाग जिस २ के नाम हैं उस २ को देना चाहिये ॥ ४ ॥

### अथातिथियज्ञः

पांचवां—जो धार्मिक, परोपकारी, सत्योपदेशक, पक्षपात-रहित, शान्त, सर्वहितकारक विद्वानों की अन्नादि से सेवा उनसे प्रश्नोत्तर आदि करके विद्या प्राप्त होना अतिथियज्ञ कहा जाता है। उसको नित्य किया करें। इस प्रकार पञ्चमहायज्ञों को स्त्री पुरुष प्रतिदिन करते रहें ॥ ५ ॥

इसके पश्चात् पञ्चयज्ञ अर्थात् पौर्णमासी और अमावास्या के दिन नैस्तिक अग्निहोत्र की आहुति दिये पश्चात् पूर्वोक्त प्रकार पृष्ठ १८ में लिखे प्रमाणे स्थालीपाक बनाके निम्नलिखित मन्त्रों से विशेष आहुति करें ॥

ओं अग्नये स्वाहा ॥ ओं अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा ॥  
ओं विष्णवे स्वाहा ॥

इन तीन मन्त्रों से स्थालीपाक की तीन आहुति देनी। तत्पश्चात् पृष्ठ २८ में लिखे प्रमाणे व्याहृति आज्याहुति ४ देनी, परन्तु इन्तमें इतना भेद है कि अमावास्या के दिनः—

ओं अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा ॥ इस मन्त्र के बदले—

ओं इन्द्राग्नीभ्यां स्वाहा ॥

इस मन्त्र को बोल के स्थालीपाक की आहुति देवे। इस प्रकार पञ्चयाग अर्थात् जिस के घर में अभाग्य से अग्निहोत्र न होता हो तो सर्वत्र पञ्चयागादि में पृष्ठ १७, १८ में लिखे प्रमाणे पयकुण्ड, यज्ञसामग्री, यज्ञमण्डप, पृष्ठ २५-२६ में लिखे अग्न्याधान समिदाधान, पृष्ठ २७ में लि० अघारवाज्यभागाहुति,

और पृष्ठ २७ में लिखे प्रमाणे वेदी के चारों ओर जल सेवन करके, पृष्ठ ५-१६ में लिखे प्रमाणे ईश्वरोपासना स्वस्तिवाचन शान्तिकरण भी यथायोग्य करें, और जब २ नवान्न आवे तब २ नवशस्येष्टि और संवत्सर के आरम्भ में निम्नलिखित विधि करें। अर्थात् जब २ नवीन अन्न आवे तब २ शस्येष्टि करके नवीन अन्न के भोजन का आरम्भ करें—

नवशस्येष्टि और संवत्सरेष्टि करना हो तो जिस दिन प्रसन्नता हो वही शुभ दिन चुने। ग्राम और शहर के बाहर किसी शुद्ध खेत में यज्ञमण्डप करके, पृष्ठ ५-३३ तक लिखे प्रमाणे सब विधि करके, प्रथम आधारात्राज्यभागानुति ४ (चार) और व्याहृति आहुति ४ (चार) तथा अप्राज्याहुति ८ (आठ) ये सोलह आज्याहुति करके कार्यकर्त्ता—

ओं पृथिवी द्यौः प्रदिशो दिशो यस्मै द्युभिरावृताः ।  
 तमिहेन्द्रमुपह्वये शिवा नः सन्तु हेतयः स्वाहा ॥ १ ॥ ओं  
 यन्मे किंचिदुपेप्सितमस्मिन् कर्मणि वृत्रहन् । तन्मे सर्वथ-  
 स मृध्यतां जीवतः शरदः शतथं स्वाहा ॥ २ ॥ ओं सम्प-  
 त्तिर्भूतिर्भूमिर्दृष्टिर्ज्यैष्ठ्यथं श्रैष्ठ्यथं श्रीः प्रजामिहावतु स्वा-  
 हा ॥ इदमिन्द्राय—इदन्न मम ॥ ३ ॥ ओं यस्या भावे वैदि-  
 कलौकिकानां भूतिर्भवति कर्मणाम् । इन्द्रपत्नीमुपह्वये सी-  
 ताथं सा मे त्वन्नपायिनी भूयात्कर्मणि स्वाहा ॥ इदमिन्द्र-  
 पत्न्यै—इदन्न मम ॥ ४ ॥ ओं अश्वान्वती गोमती सूनृता-  
 वती विभर्त्ति या प्राणभृतो अतन्द्रिता । खलमालिनीमुर्व-  
 रामस्मिन् कर्मण्युपह्वये ध्रुवाथं सा मे त्वन्नपायिनी भूयात्



स्वाहा ॥ इदं सीतायै—इदम् मम ॥ ५ ॥ पार० कां० २।  
कं० १७ ॥

इन मन्त्रों से प्रधान होम की ५ (पांच) आज्याहुति करके—

ओं सीतायै स्वाहा । ओं प्रजायै स्वाहा । ओं शमायै  
स्वाहा । ओं भूतयै स्वाहा ॥ पार० कां० २ । कं० १७ ॥

इन ४ (चार) मन्त्रों से ४ (चार), और पृष्ठ २८ में लिखे  
(यदस्य०) मन्त्र से खिष्टकृत् होमाहुति एक, पसे ५ (पांच)  
शालीपाक की आहुति देके, पश्चात् पृष्ठ २६—३० में लिखे  
प्रमाणे अग्राज्याहुति, व्याहृति आहुति ४ (चार) पसे १२  
(चारह) आज्याहुति देके, पृष्ठ ३१—३२ में लिखे प्रमाणे वाम-  
देव्यगान, ईश्वरोपासना, स्वस्तिवाचन और शान्तिकरण करके  
होम की समाप्ति करें ।

अथ शालोकमविधिं वक्ष्यामः

शाला उसको कहते हैं जो मनुष्य और पश्यादि के रहने  
अथवा पदार्थ रखने के अथे गृह वा स्थानविशेष बनाते हैं ।  
इसके दो विषय हैं एक प्रमाण और दूसरा विधि । उसमें से  
प्रथम प्रमाण और पश्चात् विधि लिखेंगे ॥

अत्र प्रमाणानि—उमितां प्रतिमितमिथो परिमिता-  
भुत । शालाया विश्ववाराया नृद्वानि विचृतामसि ॥ १ ॥  
विधानमग्निशालं पत्नीनां सदनं सदाः । सदा देवाना-  
मग्निं देवि शाले ॥ २ ॥ अथर्व० कां० ६ । सू० ३ ।  
मं० १, ७ ॥

अर्थ—मनुष्यों को योग्य है कि जो कोई किसी प्रकार

का घर बनावे तो वह, ( उपमिताम् ) सब प्रकार की उत्तम उपमायुक्त कि जिसको देख के विद्वान् लोग सराहता करें, ( प्रतिमिताम् ) प्रतिमान अर्थात् एक द्वार के सामने दूसरा द्वार कोणें और कच्चा भी सम्मुख हों, ( अथो ) इसके अनन्तर ( परिमिताम् ) वह शाला चारों ओर के परिमाण से समचौरस हो, ( उत ) और ( शालायाः ) शाला ( विश्ववारायाः ) अर्थात् उस घर के द्वार चारों ओर के वायु को स्वीकार करनेवाले हों, ( नद्धानि ) उसके बन्धन और चिनाई दृढ़ हों । हे मनुष्यो ! ऐसी शाला को जैसे हम शिल्पी लोग ( विचृतामसि ) अच्छे प्रकार ग्रन्थित अर्थात् बन्धनयुक्त करते हैं वैसे तुम भी करो ॥ १ ॥ उस घर में एक ( हविर्धानम् ) होम करने के पदार्थ रखने का स्थान, ( अग्निशालम् ) अग्निहोत्र का स्थान, ( पत्नीनाम् ) स्त्रियों के ( सदनम् ) रहने का ( सदः ) स्थान, और ( देवानाम् ) पुरुषों और विद्वानों के रहने, बैठने, मेल मिलाप करने और सभा का ( सदः ) स्थान तथा स्नान भोजन ध्यान आदि का भी पृथक् २ एक २ घर बनावे, इस प्रकार की ( देवि ) दिव्य कमनीय ( शाले ) बनाई हुई शाला ( असि ) सुखदायक होती है ॥ २ ॥

अन्तरा द्याञ्च पृथिवीं च यद्व्यचम्बतेन शालां प्रतिगृह्णामि त इमाम् । यदन्तरिक्षं रजसो विमानं तत्कुरुष्वेऽहमुदरं शेवधिभ्यः । तेन शालां प्रतिगृह्णामि तस्मै ॥ ३ ॥

ऊर्जस्वती पर्यस्वती पृथिव्यां निामता मिता । विश्वान् विभ्रती शाले मा हिंसीः प्रतिगृह्णतः ॥ ४ ॥ अथर्व० कां० ६ । सू० ३ । मं० १५, १६ ॥

अर्थः—उस शाला में ( अन्तरा ) भिन्न २ ( पृथिवीम् )

शुद्ध भूमि अर्थात् चारों ओर स्थान शुद्ध हों, ( च ) और ( घाम् ) जिस में सूर्य का प्रतिभास आवे वैसी प्रकाशस्वरूप भूमि के समान दृढ़ शाला बनावे, ( च ) और ( यत् ) जो ( व्यचः ) उसकी व्याप्ति अर्थात् विस्तार हे स्त्री ! ( ते ) तेरे लिये है ( तेन ) उसी से युक्त ( इमाम् ) इस ( शालाम् ) घर का बनाता हूं, तू इस में निवास कर और मैं भी निवास के लिये इसको ( प्रतिगृहामि ) ग्रहण करता हूं. ( यत् ) जो उसके घाँव में ( अन्तरिक्षम् ) पुष्कल अवकाश और ( रजसः ) उस घर का ( विमानम् ) विशेष मान परिमाण युक्त लंबी ऊंची छत और ( उदरम् ) भीतर का प्रसार विस्तारयुक्त होवे ( तत् ) इसको ( शेषविभ्यः ) सुख के आधाररूप अनेक कलाओं से नुशाभित ( अहम् ) मैं ( कृण्वे ) करता हूं, ( तेन ) उस पूर्वोक्त लक्षणमात्र से युक्त ( शालाम् ) शाला को ( तस्यै ) उस गृहाश्रम के सब व्यवहारों के लिये ( प्रतिगृहामि ) ग्रहण करता हूं ॥ ३ ॥ जो ( शाले ) शाला ( ऊर्जास्वती ) बहुत बलाग्न्यपराक्रम का बढ़ानेवाली और धन धान्य से पूरित सम्यन्त्रवाली, ( पयस्वती ) जल दूध रसादि से परिपूर्ण, ( पृथिव्याम् ) पृथिवी में ( मित्ता ) परिमाणयुक्त, ( निमित्ता ) निर्मित की हुई, ( विश्वात्मम् ) संपूर्ण अन्नादि ऐश्वर्य को, ( विभ्रती ) धारण करती हुई, ( प्रतिगृहत्तः ) ग्रहण करनेहारों को रोगादि से ( मा. हिंसीः ) पीड़ित न करे वैसा घर बनाना चाहिये ॥

ब्रह्मणा शालां निर्मितां कृत्रिभिर्निर्मितां मिताम् । इन्द्रा-  
ग्नी रक्षतां शालामुमृतां मोस्यं सदाः ॥ ५ ॥ अथर्व०  
का० ६ । सू० ३ । मं० १६ ॥

अर्थः—( अमृतां ) स्वरूप से नाशरहित ( इन्द्राग्नी ) वायु

और पावक ( कविभिः ) उत्तम विद्वान् शिल्पियों ने ( मिताम् ) प्रमाणयुक्त अर्थात् माप में ठीक जैसी चाहिये वैसी (निमिताम्) बनाई हुई ( शालाम् ) शाला को और ( ब्रह्मणा ) चारों वेदों के जाननेहारे विद्वान् ने सब ऋतुओं में सुख देनेहारी ( निमिताम् ) बनाई ( शालाम् ) शाला को प्राप्त होकर रहनेवालों की ( रक्षताम् ) रक्षा करें। अर्थात् चारों ओर का शुद्ध वायु आके अशुद्ध वायु को निकालता रहे और जिसमें सुगन्ध्यादि घृत का होम किया जाय वह अग्नि दुर्गन्ध को निकाल सुगन्ध को स्थापन करे। वह ( सोम्यम् ) ऐश्वर्य आरोग्य सर्वदा सुखदायक ( सदः ) रहने के लिये उत्तम घर है। उसी को निवास के लिये ग्रहण करे ॥ ५ ॥

या द्विपक्षा चतुष्पक्षा षट्पक्षा या निर्मीयते । अष्ट-  
पक्षां दशपक्षां शालां मनस्य पत्नीमग्निर्गर्भं इवा शये ॥६॥  
अथर्व० कां० ६ । सू० ३ । मं० २१ ॥

अर्थः—हे मनुष्यो ! ( या ) जो ( द्विपक्षा ) दो पक्ष अर्थात् मध्य में एक और पूर्व पश्चिम में एक २ शालायुक्त घर अथवा ( चतुष्पक्षा ) जिसके पूर्व पश्चिम दक्षिण और उत्तर में एक २ शाला और इनके मध्य में पांचवीं बड़ी शाला वा ( षट्पक्षा ) एक २ बीच में बड़ी शाला और दो २ पूर्व पश्चिम तथा एक २ उत्तर दक्षिण में शाला हों, ( या ) जो ऐसी शाला ( निर्मीयते ) बनाई जाती है वह उत्तम होती है, और इससे भी जो ( अष्टपक्षाम् ) चारों ओर दो २ शाला और उनके बीच में एक नवमी शाला हो अथवा ( दशपक्षाम् ) जिसके मध्य में दो शाला और उनके चारों दिशाओं में दो २ शाला हों, उस ( मानस्य ) परिमाण के योग से बनाई हुई ( शालाम् ) शाला

को जैसे (पत्नीम्) पत्नी को प्रातः होके (अग्निः) अग्निमय आर्चव और वीर्य (गर्भ इव) गर्भरूप होके (आशये) गर्भाशय में ठहरता है वैसे सब शालाओं के द्वार दो २ हाथ पर छूने बराबर हों, और जिसकी चारों ओर की शालाओं का परिमाण तीन २ गज, और मध्य की शालाओं का छः २ गज से परिमाण न्यून न हो, और चार २ गज चारों दिशाओं की ओर, आठ २ गज मध्य की शालाओं का परिमाण हो, अथवा मध्य की शालाओं का दश २ गज अर्थात् बीस २ हाथ से विस्तार अधिक न हो, बनाकर गृहस्थों को रहना चाहिये। यदि वह समा का स्थान हो तो बाहर की ओर द्वारों में चारों ओर कपाट और मध्य में गोल २ स्तम्भे बनाकर चारों ओर खुला बनाना चाहिये कि जिसके कपाट खोलने से चारों ओर का वायु उसमें आये और सब घरों के चारों ओर वायु आने के लिये अवकाश तथा वृक्ष फल और पुष्करणी कुंड भी होने चाहियें वैसे घरों में सब लोग रहें ॥ ६ ॥

प्रतीचीं त्वा प्रतीचीनः शाले प्रैम्यहिंसतीम् । अग्नि-  
हिंसाऽन्तरापश्चर्तस्य प्रथमा द्वाः ॥ ७ ॥ अथर्व० कां० ६ ।

सू० ३ । मं० २२ ॥

अर्थः—जो (शाले) शालागृह (प्रतीचीनः) पूर्वाभिमुख तथा जो गृह (प्रतीचीम्) पश्चिम द्वार युक्त (अहिंसतीम्) हिंसादि दाप रहित अर्थात् पश्चिम द्वार के सन्मुख पूर्व द्वार जिसमें (हिं) निश्चय कर (अन्तः) बीच में (अग्निः) अग्नि का घर (च) और (आपः) जल का स्थान (ऋतस्य) और सत्य के ध्यान के लिये एक स्थान (प्रथमा) प्रथम (द्वाः) द्वार हैं में (त्वा) उस शाला को (प्रैमि) प्रकर्षता से प्राप्त होता है ॥ ७ ॥

मा नः पाशं प्रति मुचो गुरुर्भारो लघुर्भव । वधूमिव  
त्वा शाले यत्रकामं भ्रामसि ॥ ८ ॥ अथर्व० कां० ६ ।  
सू० ३ । मं० २४ ॥

अर्थ:—हे शिल्पि लोगो ! जैसे ( नः ) हमारी ( शाले )  
शाला अर्थात् गृह ( पाशम् ) बन्धन को ( मा, प्रतिमुचः )  
कभी न छोड़ें जिसमें ( गुरुर्भारः ) बड़ा भार ( लघुर्भव ) छोटा  
होवे वैसी बनाओ ( त्वा ) उस शाला को ( यत्र, कामम् )  
जहां जैसी कामना हो वहां वैसी हम लोग ( वधूमिव ) खी  
के समान ( भ्रामसि ) स्वीकार करते हैं वैसे तुम भी ग्रहण  
करो ॥ ८ ॥

इस प्रकार प्रमाणों के अनुसार जब घर बन चुके तब  
ग्रवण करते समय क्या २-विधि करना सो नीचे लिखे  
प्रमाणे जानो ॥

अथ विधि:—जब घर बन चुके तब उसकी शुद्धि अच्छे  
प्रकार करा, चारों दिशाओं के बाहरले द्वारों में चार वेदी और  
एक वेदी घर के मध्य बनावें अथवा तांबे का वेदी के समान  
कुण्ड बनवा लें कि जिससे सब ठिकाने एक कुण्ड ही में  
काम होजावें । सब प्रकार की सामग्री अर्थात् पृष्ठ १८-१९ में  
लिखे प्रमाणे समिधा, घृत, चावल, मिष्ठ, सुगन्ध, पुष्टिकारक  
द्रव्यों को ले के शोधन कर प्रथम दिन रख लें; जिस दिन  
गृहपति का चित्त प्रसन्न होवे उसी शुभ दिन गृहप्रतिष्ठा करे ।  
वहां ऋत्विज्, होतृ, अध्वर्यु और ब्रह्मा का वरण करे जो कि  
धर्मात्मा विद्वान् हों, उनमें से होता का आसन पश्चिम और  
उस पर वह पूर्वाभिमुख, अध्वर्यु का आसन उत्तर में उस पर  
वह दक्षिणाभिमुख, उद्गाता का पूर्व दिशा में आसन उस पर  
वह पश्चिमाभिमुख, और ब्रह्मा का दक्षिण दिशा में उत्तमासन

बिछा कर उत्तराभिमुख, इस प्रकार चारों आसनों पर चारों पुरुषों को बैठावे और गृहपति सर्वत्र पश्चिम में पूर्वाभिमुख बैठा करे, ऐसे ही घर के मध्य वेदी के चारों ओर दूसरे आसन विछा रखे, पश्चात् निष्कम्यद्वार जिस द्वार से मुख्य करके घर से निकलना और प्रवेश करना होवे अर्थात् जो मुख्य द्वार हो उसी द्वार के समीप ब्रह्मा सहित बाहर ठहर कर—

ॐ अच्युताय भौमाय स्वाहा ॥

इससे एक आहुति देकर, ध्वजा का स्तम्भ जिसमें ध्वजा लगाई हो खड़ा करे और घर के ऊपर चारों कोणों पर चार ध्वजा खड़ी करे, तथा कार्यकर्त्ता गृहपति स्तम्भ खड़ा करके उसके मूल में जल से सेचन करे जिससे वह दृढ़ रहे । पुनः द्वार के सामने बाहर जाकर नीचे लिखे चार मन्त्रों से जल सेचन करे ॥

ॐ इमामुच्छ्रयामि भुवनस्य नामिं वसोर्धारां प्रतरणीं  
वसुनाम् । इहैव ध्रुवां निमिनोमि शालां क्षेमे तिष्ठतु घृतमु-  
च्छ्रयमाणा ॥ १ ॥

इस मन्त्र से पूर्व द्वार के सामने जल छिटकावे ।

अथावती गोमती सृष्टावत्युच्छ्रयस्व महते सौभगाय ।  
या त्वां शिशुरक्रिन्दन्त्वा गावो धेनवो वाश्यमानाः ॥ २ ॥

इस मन्त्र से दक्षिण द्वार ॥

आ त्वां कुमारस्तरुण आ वत्सो जगदैः सह । आ  
त्वा परिश्रुतः कुम्भ आदध्नः कलशैरुप क्षेमस्य पत्नी  
शरती सुवासः रयिं नो धेहि सुभगे सुवीर्यम् ॥ ३ ॥

इस मन्त्र से पश्चिम द्वार ॥

अश्वान्दगोमदूर्जस्वत्पर्णं वनस्पतेरिव । अग्नि नः  
पूर्यतां रयिरिदमनुश्रेयो वसानः ॥ ४ ॥

इस मन्त्र से उत्तर द्वार के सामने जल छिटकावे । तत्पश्चात् सब द्वारों पर पुष्प और पल्लव तथा कदलीस्तम्भ वा कदली के पत्ते भी द्वारों की शोभा के लिये लगाकर, पश्चात् गृहपति—

हे ब्रह्मन् ! प्रविशामीति ॥ ऐसा वाक्य बोले और ब्रह्माः—

वरं भवान् प्रविशतु

ऐसा प्रत्युत्तर देवे और ब्रह्मा की अनुमति से—

ओं ऋचं प्रपद्ये शिवं प्रपद्ये

इस वाक्य को बोल के भीतर प्रवेश करे । और जो घृत गरम कर, छान कर, सुगन्ध मिलाकर रक्खा हो उसको पात्र में ले के जिस द्वार से प्रथम प्रवेश करे उसी द्वार से प्रवेश करके पृष्ठ २५—२६ में लिखे प्रमाणे अग्न्याधान समिदाधान, ब्रह्मप्रोक्षण, आचमन करके पृष्ठ २७ में लिखे प्रमाणे घृत की आधारावाज्यभागाहुति ४ (चार), और व्याहृति आहुति ४ (चार), नवमी खिष्टकृत् आज्याहुति एक अर्थात् दिशाओं की द्वारस्थ वेदियों में अग्न्याधान से ले के खिष्टकृत् आहुतिपर्यन्त विधि करके पश्चात् पूर्वदिशाद्वारस्थ कुण्ड में—

ओं प्राच्या दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा ।

ओं देवेभ्यः स्वाद्येभ्यः स्वाहा ॥

इन मन्त्रों से पूर्वद्वारस्थ वेदी में दो घृताहुति देवे । वैसे ही—



ओं दक्षिणाया दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा ।

ओं देवेभ्यः स्वाहेभ्यः स्वाहा ॥

इन दो मन्त्रों से दक्षिणाद्वारस्थ वेदी में एक २ मन्त्र करके दो आज्याहुति और—

ओं प्रतीच्या दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा ।

ओं देवेभ्यः स्वाहेभ्यः स्वाहा ॥

इस दो मन्त्रों से दो आज्याहुति पश्चिमदिशाद्वारस्थ कुण्ड में देवे ।

ओं उदीच्या दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा ।

ओं देवेभ्यः स्वाहेभ्यः स्वाहा ॥

इनसे उत्तरदिशास्थ वेदी में दो आज्याहुति देवे, पुनः मध्यशालास्थ वेदी के समीप जाके स्व २ दिशा में बैठ के—

ओं ध्रुवाया दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा ।

ओं देवेभ्यः स्वाहेभ्यः स्वाहा ॥

इन से मध्य वेदी में दो आज्याहुति ॥

ओं ऊर्वाया दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा ।

ओं देवेभ्यः स्वाहेभ्यः स्वाहा ॥

इनसे भी दो आज्याहुति मध्यवेदी में और—

ओं दिशो दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा ।

ओं देवेभ्यः स्वाहेभ्यः स्वाहा ॥

इन से भी दो आज्याहुति मध्यस्थ वेदी में देके, पुनः पूर्व दिशास्थ द्वारस्थवेदी में अग्नि को प्रज्वलित करके, वेदी से

दक्षिण भाग में ब्रह्मासन तथा होता आदि के पूर्वोक्त प्रकार आसन विछुवा, उसी वेदी के उत्तर भाग में एक कलश स्थापन कर, पृष्ठ १८ में लिखे प्रमाणे स्थालीपाक बना के पृथक् निष्कस्यद्वार के समीप जा ठहर कर ब्रह्मादि सहित गृहपति मध्यशाला में प्रवेश करके ब्रह्मादि को दक्षिणादि आसन पर बैठा स्वयं पूर्वाभिमुख बैठ के संस्कृत धी अर्थात् जो गरम कर छान जिसमें कस्तूरी आदि सुगन्ध मिलाया हो, पात्र में लें के सबके सामने एक २ पात्र भर के रखे और चमसा में लेके—

ओं वास्तोष्पते प्रति जानीह्यस्मान्त्स्वावेशो अनधीवो  
भवा नः । यत्त्वेमहे प्रति तन्नो जुषस्व शन्नो भव त्रिपदे श  
चतुष्पदे स्वाहा ॥ १ ॥ वास्तोष्पते प्रतरणो न एधि गयस्फानो  
गोधिरथोभेरिन्दो । अजरासस्ते सख्ये स्याम पितेव पुत्रान्  
प्रति नो जुषस्व स्वाहा ॥ २ ॥ वास्तोष्पते शग्मया संसदा  
ते सजीमहिं रखया गातमत्या । पाहि जेम उत योगे वर  
नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः स्वाहा ॥ ३ ॥ ऋ०  
मं० ७ । सू० ५४ । मं० १-३ ॥

अमीलहा वास्तोष्पते विश्वा रूपाण्याविशन् । सखा  
सुशेव एधि नः स्वाहा ॥ ४ ॥ ऋ० मं० ७ । सू० ५५ ।  
मं० १ ॥

इन चार मन्त्रों से ४ ( चार ) आज्याहुति देके जो स्थाली-  
पाक अर्थात् भात बनाया हो उसको दूसरे काल के पात्र में  
लेके उल्ल पर यथायोग्य वृत संचन करके अपने २ सामने रखे  
और पृथक् २ थोड़ा २ लेकर—

ॐ अग्निमिन्द्रं बृहस्पतिं विश्वाँश्च देवानुपह्वये । सर-  
 स्वतीञ्च वाजीञ्च वास्तु मे दत्त वाजिनः स्वाहा ॥ १ ॥  
 सर्पदेवजनान्त्सर्वान्हिमवन्तं सुदर्शनम् । वसँश्च रुद्रानादि-  
 त्यानीशानं जगदैः सह । एतान्त्सर्वान् प्रपद्येहं वास्तु मे  
 दत्त वाजिनः स्वाहा ॥ २ ॥ पूर्वाह्नमपराह्णं चोभौ माध्य-  
 न्दिना सह । प्रदोपमर्धरात्रं च व्युष्टां देवीं महापथाम् ।  
 एतान् सर्वान् प्रपद्येहं वास्तु मे दत्त वाजिनः स्वाहा ॥ ३ ॥  
 ॐ कर्त्तारञ्च विकर्त्तारं विश्वकर्माणमोपधीश्च वनस्पतीन् ।  
 एतान्त्सर्वान् प्रपद्येहं वास्तु मे दत्त वाजिनः स्वाहा ॥ ४ ॥  
 धातारं च विधातारं निधीनां च पतिं सह । एतान् सर्वान् प्रपद्येहं  
 वास्तु मे दत्त वाजिनः स्वाहा ॥ ५ ॥ स्योनथं शिवमिदं  
 वास्तु दत्तं ब्रह्मप्रजापती । सर्वाँश्च देवताश्च स्वाहा ॥

स्थालीपाक अर्थात् घृतयुक्त भात की इन छः मन्त्रों से  
 छः आहुति देकर, कांस्यपात्र में उदुम्बर, गूलर, पलाश के  
 पत्ते, शाल्ल, तृणविशेष, गोमय, दही, मधु, घृत, कुशा और  
 पव को ले के उन सब वस्तुओं को मिला कर—

ॐ श्रीश्च त्वा यशश्च पूर्वे सन्धौ गोपायेताम् ॥

इस मन्त्र से पूर्वद्वार ॥

यज्ञश्च त्वा दक्षिणा च दक्षिणे सन्धौ गोपायेताम् ॥

इससे दक्षिण द्वार ॥

अपश्च त्वा ब्राह्मणश्च पश्चिमे सन्धौ गोपायेताम् ॥

इससे पश्चिम द्वार ॥

ऊर्कं च त्वा सूनुता चोचरे सन्धौ गोपायेताम् ॥

इससे उत्तर द्वार के समीप उनको बसें और जल प्रोक्षणी करे ॥

केता च मां सुकेता च पुरस्ताद् गोपायेतामित्यग्निर्वै

केताऽऽदित्यः सुकेता तौ प्रपद्ये ताभ्यां नामोऽस्तु तौ मा पुरस्ताद् गोपायेताम् ॥ १ ॥

इससे पूर्व दिशा में परमात्मा का उपस्थान करके, दक्षिण द्वार के सामने दक्षिणाभिमुख होके—

दक्षिणतो गोपायमानं च मा रक्षमाणा च दक्षिणतो

गोपायेतामित्यहर्वै गोपायमानं रक्षमाणा ते प्रपद्ये ताभ्यां नमोऽस्तु ते मा दक्षिणतो गोपायेताम् ॥ २ ॥

इस प्रकार जगदीश का उपस्थान करके, पश्चिम द्वार के सामने पश्चिमाभिमुख हो के—

दीदिविश्च मा जागृविश्च पश्चाद् गोपायेतामित्यन्नं वै

दीदिविः प्राणो जागृविस्तौ प्रपद्ये ताभ्यां नमोऽस्तु तौ मा पश्चाद् गोपायेताम् ॥ ३ ॥

इस प्रकार पश्चिम दिशा में सर्वरक्षक परमात्मा का उपस्थान करके, उत्तर दिशा में उत्तर द्वार के सामने उत्तराभिमुख खड़े रह के—

अश्वप्नश्च मानवद्राणश्चोत्तरतो गोपायेतामिति चन्द्रमा

वा अश्वप्नो वायुरनवद्राणस्तौ प्रपद्ये ताभ्यां नमोस्तु तौ ओत्तरतो गोपायेतामिति ॥ धर्मस्थूणराजं श्रीसूर्यामहो-

रात्रे द्वारफलके इन्द्रस्य गृहा वसुमतो वरुथिनस्तानहं प्रपद्ये  
सह प्रजया पशुभिस्सह यन्मे किञ्चिदस्त्युपहृतः सर्वगणाः ।  
सखायः साधुसंमतस्तां त्वा शाले अरिष्टवीरा गृहा नः  
सन्तु सर्वतः ॥

इस प्रकार उत्तर दिशा में सर्वाधिष्ठाता परमात्मा का उप-  
स्थान करके, चुपात्र वेदवित् धार्मिक होता आदि संपत्नीक  
प्राह्वण तथा इष्ट मित्र और सम्बन्धियों को उत्तम भोजन  
करके यथायोग्य स्तुकार करके दक्षिणा दें, पुरुषों को पुरुष  
और स्त्रियों को स्त्री प्रसन्नतापूर्वक विदा करें और वे जाते  
समय गृहपति और गृहपत्नी आदि को—

सर्वे भवन्तोऽत्रानन्दिताः सदा भूयांसुः ॥

इस प्रकार आशीर्वाद दे के अपने २ घर को जावें । इसी  
प्रकार आराम आदि की भी प्रतिष्ठा करें । इसमें इतना ही विशेष  
है कि जिस और का वायु वर्गाचे को जावे उसी और होम  
करे कि जिसका सुगन्ध वृक्ष आदि को सुगन्धित करे । यदि  
इसमें घर बना हो तो शाला के समान उसकी भी प्रतिष्ठा  
करे ॥

इति शालादिसंस्कारविधिः

इस प्रकार गृहादि की रचना करके गृहाश्रम में जो २  
अपने २ वर्ण के अनुकूल कर्त्तव्य कर्म हैं उन उन को यथा-  
वत् करें ॥

अथ ब्राह्मणस्वरूपलक्षणम्

अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा ।

दानं शानेप्रहश्चैव ब्राह्मणानामकल्पयत् ॥१॥ मनु० ॥

शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ।

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥२॥ गीता० ॥

अर्थः—१ ( एक )—निष्कपट होके प्रीति से पुरुष पुरुषों को और स्त्री स्त्रियों को पढ़ावें । २ ( दो )—पूर्ण विद्या पढ़ें । ३ ( तीन )—अग्निहोत्रादि यज्ञ करें । ४ ( चौथा )—यज्ञ करावें । ५ ( पांच )—विद्या अथवा सुवर्ण आदि का सुपात्रों को दान देवें । ६ ( छठा )—न्याय में धनोपार्जन करनेवाले गृहस्थों से दान लेवे भी । इनमें से ३ ( तीन ) कर्म पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना \* धर्म में । और तीन कर्म पढ़ाना, यज्ञ कराना, दान लेना जीविका है । परन्तु—

प्रतिग्रहः प्रत्यघ्नः ॥ मनु० ॥

जो दान लेना है वह नीच कर्म है । किन्तु पढ़ा के और यज्ञ करा के जीविका करनी उत्तम है ॥ १ ॥ ( शमः ) मन को अधर्म में न जाने दे किन्तु अधर्म करने की इच्छा भी न उठने देवे ( दमः ) श्रोत्रादि इन्द्रियों को अधर्माचरण से सदा दूर रखे दूर रख के धर्म ही के बीच में प्रवृत्त रखे ( तपः ) ब्रह्मचर्य, विद्या, योगाभ्यास की सिद्धि के लिये शीत, उष्ण, निन्दा, स्तुति, लुब्धा, तृषा, मानापमान आदि द्वन्द्व का सहना ( शौचम् ) राग, द्वेष, मोहादि से मन और आत्मा को तथा जलादि से शरीर को सदा पवित्र रखना ( क्षान्तिः ) क्षमा अर्थात् कोई

\* धर्म नाम न्यायाचरण । न्याय नाम पक्षपात छोड़ के वर्तना । पक्षपात छोड़ना नाम सर्वदा आर्हिंसादि निर्वैरता सत्यभाषणादि में स्थिर रहकर, हिंसा द्वेषादि और मिथ्याभाषणादि से सदा पृथक् रहना । सब मनुष्यों का यही एक धर्म है । किन्तु जो २ धर्म के लक्षण वर्ण-कर्मों में पृथक् २ आते हैं इसी से चार वर्ण पृथक् २ गिने जाते हैं ॥

निन्दा स्तुति आदि से सतावे तो भी उन पर कृपालु रहकर क्रोधदि का न करना (आर्जवम्) निरभिमान रहना दम्भ स्वात्मश्लाघा अर्थात् अपने मुख से अपनी प्रशंसा न करके नम्र सरल शुद्ध पवित्र भाव रखना (ज्ञानम्) सब शास्त्रों को पढ़ के विचार कर उनके शब्दार्थसम्बन्धों को यथावत् जान कर पढ़ाने का पूर्ण सामर्थ्य करना (विज्ञानम्) पृथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों को जान और क्रियाकुशलता तथा योगाभ्यास से साक्षात् करके यथावत् उपकार ग्रहण करना कराना (आस्तित्वम्) परमेश्वर, वेद, धर्म, परलोक, परजन्म, पूर्वजन्म, कर्मफल और मुक्ति से विमुख कभी न होना। ये नव कर्म और गुण धर्म में समझना। सब से उत्तम गुण कर्म स्वभाव को धारण करना ये गुण कर्म जिन व्यक्तियों में हों वे ब्राह्मण और ब्राह्मणी होंगे। विवाह भी इन्हीं वर्ण के गुण कर्म स्वभावों को मिला ही के करे। मनुष्यमात्र में से इन्हीं को ब्राह्मणवर्ण का अधिकार होवे ॥ २ ॥

### अथ क्षत्रियवस्वरूपलक्षणम्

प्रजानां रक्षणं दानमिन्द्रियाध्ययनमेव च ।

विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः ॥ १ ॥ मनु० ॥

शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् ।

दानमीश्वरभावश्च क्षत्रिकर्म स्वभावजम् ॥ २ ॥ गीता० ॥

अर्थः—दीर्घ ब्रह्मचर्य से (अध्ययनम्) साक्षात्पाह्न वेदादि शास्त्रों को यथावत् पढ़ना (इन्द्रिया) अग्निहोत्रादि यज्ञों का करना (दानम्) सुपात्रों को विद्या सुवर्ण आदि और प्रजा को अमयदान देना (प्रजानां, रक्षणम्) प्रजाओं का सब प्रकार से सर्वदा यथावत् पालन करना यह धर्म क्षत्रियों के धर्म के

लक्षणों में, और शस्त्रविद्या का पढ़ाना, न्यायाधर और सेना में जीविका करना क्षत्रियों की जीविका है (विषयेष्वप्रसक्तिः) विषयों में अनासक्त हो के सदा जितेन्द्रिय रहना लोभ व्यभिचार मद्यपानादि नशा आदि दुर्व्यसनों से पृथक् रहकर विनय सुशीलतादि शुभ कर्मों में सदा प्रवृत्त रहना (शौर्यम्) शस्त्र संग्राम मृत्यु और शस्त्रप्रहारादि से न डरना (तेजः) प्रगल्भ उत्तम प्रतापी होकर किसी के सामने दीन वा भीरु न होना (धृतिः) चाहे कितनी आपत्, विपत्, हेश, दुःख प्राप्त हो तथापि धैर्य रखके कभी न घबराना (दाक्ष्यम्) संग्राम, वाग्युद्ध, दूतत्व, विचार आदि सब में अतिचतुर बुद्धिमान् होना (युद्धे, चाप्यपलायनम्) युद्ध में सदा उद्यत रहना युद्ध से घबरा कर शत्रु के वश में कभी न होना (दानम्) इसका अर्थ प्रथम श्लोक में आगया (ईश्वरभावः) जैसे परमेश्वर सब के ऊपर दया करके, पितृवत् वर्तमान, पक्षपात छोड़कर, धर्माधर्म करनेवालों का यथायोग्य सुख दुःखरूप फल देता और अपने सर्वज्ञता आदि साधनों से सब का अन्तर्यामी होकर सब के अच्छे बुरे कर्मों को यथावत् देखता है, जैसे प्रजा के साथ वर्त कर, गुप्त दूत आदि से अपने को सब प्रजा वा राजपुरुषों के अच्छे बुरे कर्मों से सदा ज्ञात रखना, रात दिन न्याय करने और प्रजा को यथावत् सुख देने, श्रेष्ठों का मान और दुष्टों को दण्ड करने में सदा प्रवृत्त रहना, और सब प्रकार से अपने शरीर को रोगरहित, बलिष्ठ, दृढ़, तेजस्वी, दीर्घायु रख के आत्मा को न्याय धर्म में चलाकर कृतकृत्य करना आदि गुण कर्मों का योग जिस व्यक्ति में हो वह क्षत्रिय और क्षत्रिया होवे। इनका भी इन्हीं गुण कर्मों के मेल से विवाह करना। और जैसे ब्राह्मण पुरुषों और ब्राह्मणी स्त्रियों को पढ़ावे वैसे ही राजा पुरुषों और राणी स्त्रियों की न्याय तथा उन्नति सदा



किया करे । जो क्षत्रिय राजा न हों वे भी राज में ही यथाधिकार से नौकरी किया करें ॥

अथ वैश्यस्वरूपलक्षणम्

पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च ।

वणिक्प्रथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च ॥१॥ मनु० ॥

अर्थः—(अध्ययनम्) वेदादि शास्त्रों का पढ़ना (इज्या) अग्निहोत्रादि यज्ञों का करना (दानम्) अन्नादि का दान देना ये तीन धर्म के लक्षण और (पशूनां रक्षणम्) गाय आदि पशुओं का पालन करना उनसे दुग्धादि का वेचना (वणिक्प्रथम्) नाना देशों की भाषा, हित्ताव, भूगर्भविद्या, भूमि, बीज आदि के गुण जानना और सब पदार्थों के भावाभाव समझना (कुसीदम्) व्याज का लेना \* (कृषिमेव च) खेती की विद्या का जानना, अन्न आदि की रक्षा, खात और भूमि की परीक्षा, जोतना वना आदि व्यवहार का जानना ये चार कर्म वैश्य की जीविका । ये गुण कर्म जिस व्यक्ति में हों वह वैश्य वैश्या । और इन्हीं की परस्पर परीक्षा और योग से विवाह होना चाहिये ॥ १ ॥

अथ शुद्रस्वरूपलक्षणम्

एकमेव हि शुद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत् ।

एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनसृयया ॥ १ ॥ मनु० ॥

\* सवा रूपये सैकडे में अधिक, चार आने से न्यून व्याज न लेवे न देवे । जब दूना धन आज्ञाय उससे आगे बाँड़ी न लेवे न देवे । जितना न्यून व्याज लेवेगा उतना ही उसका धन बढ़ेगा और कभी धन का नाश और कुसन्तान उसके कुल में न होंगे ॥

अर्थ:—( प्रभुः ) परमेश्वर ने ( शूद्रस्य ) जो विद्याहीन जिसको पढ़ने से भी विद्या न आसके, शरीर से पुष्ट, सेवा में कुशल हो उस शूद्र के लिये ( पतेषामेव वर्णानाम् ) इन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्णों की (अनसूयया) निन्दा से रहित प्रीति से सेवा करना ( एकमेव कर्म ) यही एक कर्म ( समादिशत् ) करने की आज्ञा दी है। ये मूर्खत्वादि गुण और सेवा आदि कर्म जिस व्यक्ति में हों वह शूद्र और शूद्रा है। इन्हीं की परीक्षा से इनका विवाह और इनको अधिकार भी ऐसा ही होना चाहिये। इन गुण कर्मों के योग ही से चारों वर्ण होवें तो उस कुल देश और मनुष्यसमुदाय की बड़ी उन्नति होवे और जिनका जन्म जिस वर्ण में हो उसी के सदृश गुण कर्म स्वभाव हों तो अतिविशेष है ॥ १ ॥

अब सब ब्राह्मणादि वर्णवाले मनुष्य लोग अपने २ कर्मों में निम्नलिखित रीति से वर्तें ॥

वेदोदितं स्वकं कर्म नित्यं कुर्यादतन्द्रितः ।

तद्धि कुर्वन्वथाशक्तिं प्राप्नोति परमां गतिम् ॥ १ ॥

नेहेतार्थान् प्रसंगेन न विरुद्धेन कर्मणा ।

न विद्यमानेष्वर्थेषु नात्यामपि यतस्ततः ॥ २ ॥ मनु० ॥

अर्थ:—ब्राह्मणादि द्विज वेदोक्त अपने कर्म को आलस्य छोड़ के नित्य किया करें उसको अपने सामर्थ्य के अनुसार करते हुए, मुक्ति पर्यन्त पदार्थों को प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ गृहस्थ कभी किसी दुष्ट के प्रसंग से द्रव्यसंचय न करे, न विरुद्ध कर्म से, न विद्यमान पदार्थ होते हुए उन को गुप्त रख के दूसरे से छुल करके और चाहे कितना ही दुःख पड़े तथापि अधर्म से द्रव्यसञ्चय कभी न करे ॥ २ ॥

इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसज्येत कामतः ।

अतिप्रसङ्गि चैतेषां मनसां सन्निवर्त्तयेत् ॥ ३ ॥

सर्वान् परित्यजेदर्थान् स्वाध्यायस्य विरोधिनाः ।

यथा तथाऽध्यापयंस्तु साहस्य कृतकृत्यता ॥४॥मनु०॥

अर्थः—इन्द्रियों के विषयों में काम से कभी न फँसे, और विषयों की अत्यन्त प्रसङ्गि अर्थात् प्रसंग को मन से अच्छे प्रकार दूर करता रहे ॥ ३ ॥ जो स्वाध्याय और धर्मविरोधी व्यवहार वा पदार्थ हैं उन सबको छोड़ देवे, जिस किसी प्रकार से विद्या का पढ़ाते रहना ही गृहस्थ को कृतकृत्य होना है ॥ ४ ॥

बुद्धिबुद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च ।

नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमांश्चैव वैदिकान् ॥ ५ ॥

यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति ।

तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥ ६ ॥

न संवसेच्च पतितैर्न चाण्डालैर्न पुक्कसैः ।

न मूर्खैर्न वल्लिप्तैश्च ज्ञान्त्येर्नान्त्यावसायिभिः ॥ ७ ॥

नात्मानमवमन्येत पूर्वाभिरसमृद्धिभिः ।

आमृत्याः श्रियमन्विच्छेन्ननां मन्येत दुर्लभाम् ॥ ८ ॥

सत्यं ब्रूयान् प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्सत्यमप्रियम् ।

प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धर्मः सनातनः ॥९॥मनु०॥

अर्थः—हे स्त्री पुरुषो ! तुम जो धर्म, धन और बुद्ध्यादि को अत्यन्त शीघ्र बढ़ानेहार, हितकारी शास्त्र हैं उनको और वेद के भागों की विद्याओं को नित्य देखा करो ॥ ५ ॥ मनुष्य

जैसे २ शास्त्र को विचार कर उसके यथार्थ भाव को प्राप्त होता है वैसे २ अधिक २ जानता जाता है और इसकी प्रीति विज्ञान ही में होती जाती है ॥ ६ ॥ सज्जन गृहस्थ लोगों को योग्य है कि जो पतित दुष्ट कर्म करनेवारे हों न उनके, न चांडाल, न कंजर, न मूर्ख, न मिथ्याभिमानी और न नीच निश्चयवाले मनुष्यों के साथ कभी निवास करें ॥ ७ ॥ गृहस्थ लोग कभी प्रथम पुष्कल धनी हो के पश्चात् दरिद्र हो जायें उससे अपने आत्मा का अपमान न करें कि हाय हम निर्धनी होगये इत्यादि विलाप भी न करें किन्तु मृत्युपर्यन्त लक्ष्मी की उन्नति में पुरुषार्थ किया करें और लक्ष्मी को दुर्लभ न समझें ॥ ८ ॥ मनुष्य सदैव सत्य बोलें और दूसरे को कल्याणकारक उपदेश करें । कारण को काणा और मूर्ख को मूर्ख आदि अप्रिय वचन उनके सन्मुख कभी न बोलें और जिस मिथ्याभाषण से दूसरा प्रसन्न होता हो उसको भी न बोलें यह सनातन धर्म है ॥ ९ ॥

अभिवादेयदृद्धांश्च दद्याच्चैवासनं स्वकम् ।

कृताञ्जलिरुपासीति गच्छतः पृष्ठतोऽन्वियात् ॥ १० ॥

श्रुतिस्मृत्युदितं सम्यङ् निबद्धं स्वेषु कर्मसु ।

धर्ममूलं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः ॥ ११ ॥

आचारात्प्रभते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः ।

आचाराद्धनमक्षय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम् ॥ १२ ॥

दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः ।

दुःस्वभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च ॥ १३ ॥

सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्तरः ।

अहधानोऽनस्यश्च शतं वर्षाणि जीवति ॥ १४ ॥ मनु० ॥

अर्थः—सदा विद्यावृद्धौ और वयोवृद्धौ को नमस्ते अर्थात् उनका मान किया करें। जब वे अपने समीप आवें तब उठकर मानपूर्वक ले अपने आसन पर बैठाने और हाथ जोड़ के आप समीप बैठे, पूछे (हु) वे उत्तर दें और जब जाने लगे तब थोड़ी दूर पीछे २ जाकर नमस्ते कर विदा किया करे और वृद्ध लोग हरवार निकम्मे जहां तहां न जाया करें ॥ १० ॥ गृहस्थ सदा आलस्य को छोड़कर वेद और मनुस्मृति में वेदानुष्ठान कहे हुए अपने कर्मों में निबद्ध और धर्म का मूल सदाचार अर्थात् जो सत्य और सत्पुरुष आते धर्मात्माओं का आचरण है उसका सदन सदा किया करें ॥ ११ ॥ धर्माचरण ही से दीर्घायु उत्तम प्रजा और अक्षय धन को मनुष्य प्राप्त होता है और धर्माचार बुरे अधर्मयुक्त लक्षणों का नाश करदेता है ॥ १२ ॥ और जो दुष्टाचारी पुरुष होता है वह सर्वत्र निन्दित दुःखभागी और व्याधि से अल्पायु सदा होजाता है ॥ १३ ॥ जो सब अच्छे लक्षणों से हीन भी होकर सदाचारयुक्त सत्य में श्रद्धा और निन्दा आदि दोषरहित होता है वह मुन के लो वर्ष पर्यन्त जीता है ॥ १४ ॥

यद्यत्पश्यं कर्म तत्तद्यत्नेन वर्जयेत् ।

सद्यदान्भवशं तु स्यात्तत्तत्सेवेन यत्नतः ॥ १५ ॥

सर्वं पश्यं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् ।

एतद्विद्यात्ममासन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ १६ ॥

अधार्मिको नरो यो हि यस्य चाप्यनृतं धनम् ।

हिंसारतश्च यो नित्यं नृदासो सुखमथत ॥ १७ ॥ मनु० ॥

अर्थः मनुष्य जो २ परार्थीन कर्म हो उस २ का प्रयत्न से सदा श्रेष्ठ और जो २ स्वार्थीन कर्म हो उस २ का सर्वत्र प्रयत्न

से किया करे ॥ १५ ॥ क्योंकि जितना परवश होना है वह सब दुःख और जितना स्वार्थीन रहना है वह सब सुख कहाता है यही संक्षेप से सुख और दुःख का लक्षण जानो ॥ १६ ॥ जो अधार्मिक मनुष्य है और जिसका अधर्म से संचित किया हुआ धन है और जो सदा हिंसा में अर्थात् वैर में प्रवृत्त रहता है वह इस लोक और परलोक अर्थात् परजन्म में सुख को कभी नहीं प्राप्त हो सकता ॥ १७ ॥

नाधर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति गौरिव ।

शनैरावर्त्तमानस्तु कर्तुर्मूलानि कृन्तति ॥ १८ ॥

यदि नात्मानि पुत्रेषु न चत्पुत्रेषु नष्टेषु ।

न त्वेवन्तु कृतोऽधर्मः कर्तुर्भवति निष्फलः ॥ १९ ॥

सत्यधर्मायवृत्तेषु शौचे चैवारमस्सदा ।

शिष्यांश्च शिष्याद्धर्मेण वाग्बाहूदरसंयतः ॥ २० ॥ मनु० ॥

अर्थः—मनुष्य निश्चय करके जाने कि इस संसार में जैसे गाय की सेवा का फल दूध आदि शीघ्र नहीं होता वैसे ही किये हुए अधर्म का फल भी शीघ्र नहीं होता किन्तु धीरे २ अधर्मकर्त्ता के सुखों को रोकता हुआ सुख के मूलों को काट देता है पश्चात् अधर्मी दुःख ही दुःख भोगता है ॥ १८ ॥ यदि अधर्म का फल कर्त्ता की विद्यमानता में न हो तो पुत्रों और पुत्रों के समय में न हो तो नातियों के समय में अवश्य प्राप्त होता है किन्तु यह कभी नहीं हो सकता कि कर्त्ता का किया हुआ कर्म निष्फल होवे ॥ १९ ॥ इसलिये मनुष्यों को वाच्य है कि सत्य धर्म और आर्य अर्थात् उत्तम पुरुषों के आचरणों और भीतर बाहर की पवित्रता में सदा रमण करें । अपनी वाणी बाहू उदर को नियम और सत्यधर्म के साथ वर्त्तमान रख के

शिष्यों को शदा शिक्षा किया करें ॥ २० ॥

परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां धर्मवर्जितौ ।

धर्म चाप्यसुखोदकं लोकविक्रुष्टमेव च ॥ २१ ॥

धर्मं शनैस्संचिनुयाद्वल्मीकमिव पुत्तिकाः ।

परलोकसहायार्थं सर्वभूतान्यपीडयन् ॥ २२ ॥

उत्तमैरुत्तमैर्नित्यं सम्बन्धानाचरेत्सह ।

निनीपुः कुलमुत्कर्षमधमानधर्मास्त्यजेत् ॥ २३ ॥

वाच्यर्था नियताः सर्वे वाङ्मूला वृग्विनिःसृताः ।

तान्तु यः स्तेनयेद्वाचं स सर्वस्तेयकृन्नरः ॥ २४ ॥

स्वाश्यायेन जपेहोमिस्त्रैविद्येनेज्यया सुतैः ।

महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ २५ ॥ मनु० ॥

अर्थः—जो धर्म से वर्जित धनादि पदार्थ और काम हों उनको सर्वथा शीघ्र छोड़ देवे और जो धर्माभास अर्थात् उत्तर-काल में दुःखदायक कर्म हैं और जो लोगों को निन्दित कर्म में प्रवृत्त करनेवाले कर्म हैं उनसे भी दूर रहे ॥ २१ ॥ जैसे दीमक धीरे-धीरे बड़े भारी घर को बना लती है वैसे मनुष्य परजन्म के सहाय के लिये सब प्राणियों को पीड़ा न देकर धर्म का संचय धीरे-धीरे किया करे ॥ २२ ॥ जो मनुष्य अपने कुल को उत्तम करना चाहे वह नीच नीच पुरुषों का सम्बन्ध छोड़कर नित्य अच्छे अच्छे पुरुषों से सम्बन्ध बढ़ाता जावे ॥ २३ ॥ जिस वाणी में सब व्यवहार, निश्चित वाणी ही जिन का मूल और जिस वाणी ही से सब व्यवहार सिद्ध होते हैं जो मनुष्य इस वाणी को चारता अर्थात् मिथ्याभाषण करता है वह जानो सब चोरी आदि पाप ही को करता है इसलिये मिथ्याभाषण

को छोड़ के सदा सत्यभाषण ही किया करे ॥ २४ ॥ मनुष्यों को चाहिये कि धर्म से वेदादि शास्त्रों का पठन पाठन, गायत्री प्रणवादि का अर्थ विचार, ध्यान, अग्निहोत्रादि होम, कर्मोपासना ज्ञान विद्या पौर्णमास्यादि इष्टि, पञ्चमहायज्ञ, अग्निष्टोम आदि, न्याय से राज्यपालन, सत्योपदेश और योगाभ्यासादि उत्तम कर्मों से इस शरीर को (ब्राह्मी) अर्थात् ब्रह्म-सम्बन्धी करे ॥ २५ ॥

अर्थ सभा०—जो २ विशेष बड़े २ काम हों जैसा कि राज्य, वे सब सभा से निश्चय करके किये जावें ।

इसमें प्रमाण—तं सभा च समितिश्च सेना च ॥ १ ॥

अथर्व० कां० १५ । सू० ६ । मं० २ ॥ सभ्य सभां ये

पाहि ये च सभ्याः सभासदः ॥ २ ॥ अथर्व० कां० १६ ।

सू० ५५ । मं० ५ ॥ त्रीणि राजाना विदथे पुरुणि परि

विद्वानि भूषथः सदांसि ॥ ३ ॥ ऋ० मं० ३ । सू० ३८ । मं० ६ ।

अर्थ— (तम्) जो कि संसार में धर्म के साथ राज्यपालनादि किया जाता है उस व्यवहार को सभा और संग्राम तथा सेना सब प्रकार संबन्धित करे ॥ १ ॥ हे सभ्य सभा के योग्य सभापते राजन् तू ( मे ) मेरी ( सभाम् ) सभा की ( पाहि ) रक्षा और उन्नति किया कर ( ये, च ) और जो ( सभ्यः ) सभा के योग्य धार्मिक आत् ( सभासदः ) सभासद् विद्वान् लोग हैं वे भी सभा की योजना रक्षा और उससे सब की उन्नति किया करें ॥ २ ॥ जो ( राजाना ) राजा और प्रजा के भद्र पुरुषों के दोनों समुदाय हैं वे (विदथे) उत्तम ज्ञान और लाभदायक इस जगत् अथवा संग्रामादि कार्यों में ( त्रीणि ) राज-सभा, धर्मसभा और विद्यासभा अर्थात् विद्यादि व्यवहारों को



वृद्धि के लिये ये तीन प्रकार की (सदांसि) समा नियत कर  
 नहीं से संसार की सब प्रकार की उन्नति करें ॥ ३ ॥

अनाम्नातेषु धर्मेषु कथं स्यादिति चेद्भवेत् ।

यं शिष्टा ब्राह्मणाः ब्रूयुस्त धर्मः स्यादशङ्कितः ॥ १ ॥

धर्मणाधिगतो यैस्तु वेदः सपरिवृंहणः ।

ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः ॥२॥मनु०॥

अर्थ—हे गृहस्थ लोगो ! जो धर्मयुक्त व्यवहार मनुस्मृति  
 धर्म में प्रत्यक्ष न कहे हों यदि उनमें शंका होवे तो तुम जिस  
 को शिष्ट ध्यान विद्वान् कहें उसी को शंका रहित कर्तव्य धर्म  
 मानो ॥ १ ॥ शिष्ट सब मनुष्यमात्र नहीं होते किन्तु जिन्होंने  
 पूर्ण ब्रह्मचर्य और धर्म से साङ्गोपाङ्ग वेद पढ़े हों जो श्रुति प्रमा-  
 ण और प्रत्यक्षादि प्रमाणों ही से विधि वा निषेध करने में समर्थ  
 धार्मिक परोपकारी हों वे ही शिष्ट पुरुष होते हैं ॥ २ ॥

दशावरा वा परिपद्यं धर्मं परिकल्पयेत् ।

व्यवरा वापि वृत्तस्था तं धर्मं न विचालयेत् ॥ ३ ॥

त्रिविद्या हेतुकस्तर्का नैरुक्तो धर्मपाठकः ।

त्रयथाश्रमिणः पूर्वं परिपत्स्याद्दशावरा ॥ ४ ॥

ऋग्वेदविद्यजुर्विच सामवेदविदेव च ।

व्यवरा परिपज्ज्ञेया धर्मसंशयनिर्णये ॥ ५ ॥

एकोऽपि वेदविद्धर्मं यं व्यवस्येद् द्विजोत्तमः ।

स विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानामुदितोऽयुतः ॥६॥मनु०॥

अर्थ—वेद शिष्ट न्यून से न्यून १० (दश) पुरुषों की  
 सभा होवे अथवा बड़े विद्वान् तीनों की भी सभा हो सकती है

सभा से धर्म कर्म निश्चित हों उनका भी आचरण सब लोग करें ॥ ३ ॥ उन दशों में इस प्रकार के विद्वान् होवें—  
 तीन ) वेदों के विद्वान्, चौथा हेतुक अर्थात् कारण अकारण का ज्ञाता, पांचवां तर्कान्यायशास्त्रवित्, छठा निरुक्त का ज्ञाननेहारा, सातवां धर्मशास्त्रवित्, आठवां ब्रह्मचारी, नववां अरुण्य और दशवां वानप्रस्थ इन महात्माओं की सभा होवे ॥ ४ ॥ तथा ऋग्वेदवित् यजुर्वेदवित् और सामवेदवित् इन तीनों विद्वानों की भी सभा धर्मसंशय अर्थात् सब व्यवहारों निर्णय के लिये होनी चाहिये और जितने सभा में अधिक पण हों उतनी ही उत्तमता है ॥ ५ ॥ द्विजों में उत्तम अर्थात् तृथ्याश्रमी संन्यासी अकेला भी जिस धर्म व्यवहार के करने में निश्चय करे वही परमधर्म समझना किन्तु अज्ञानियों के हस्तों लाखों और कोड़ों पुरुषों का कहा हुआ, धर्मव्यवहार भी न मानना चाहिये, किन्तु धर्मात्मा विद्वानों और विशेषतः संन्यासी का वेदादि प्रमाणों से कहा हुआ धर्म को मानने योग्य है ॥ ६ ॥

यदि सभा में मतभेद हो तो बहुपक्षानुसार मानना और पक्ष में उत्तमों की व्रात स्वीकार करनी और दोनों पक्षों में बराबर उत्तम हों तो वहां संन्यासियों की सम्मति लेनी, धर्म पक्षपातरहित सर्वहितैषी संन्यासियों की सम्मति होवे ही उत्तम समझनी चाहिये ।

चतुर्भिरपि चैकैतैर्नित्यमाश्रमिभिर्द्विजैः ।

दशलक्षणको धर्मस्सेवितव्यः प्रयत्नतः ॥ ७ ॥

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥८॥मनु०॥

अर्थ—ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यासी आदि सब मनुष्यों को योग्य है कि निम्नलिखित धर्म का सेवन और उससे विरुद्ध अधर्म का त्याग प्रयत्न से किया करें ॥ ७ ॥ धर्म, न्याय नाम पक्षपात छोड़ कर सत्य ही का आचरण और असत्य का सर्वदा परित्याग रखना इस धर्म के ग्यारह लक्षण हैं, ( अहिंसा ) किसी से वैरबुद्धि करके उसके अनिष्ट करने में कभी न वर्तना, ( धृतिः ) सुख दुःख हावि लाभ में भी व्याकुल होकर धर्म को न छोड़ना किन्तु धैर्य से धर्म ही में स्थिर रहना, ( क्षमा ) निन्दा स्तुति मानापमान का सहन करके धर्म ही करना, ( दमः ) मन को अधर्म से सदा हटाकर धर्म ही में प्रवृत्त रखना ( अस्तंयम् ) मन, कर्म, वचन से अन्याय और अधर्म से पराये द्रव्य का स्वीकार न करना ( शौचम् ) राग-द्वेषादि त्याग से आत्मा और मन को पवित्र और जलादि से शरीर को शुद्ध रखना, ( इन्द्रियनिग्रहः ) श्रोतादि बाह्य इन्द्रियों को अधर्म से हटा के धर्म ही में चलाना, ( धीः ) वेदादि सत्य विद्या ब्रह्मचर्य सत्त्वङ्ग करने और कुसंग दुर्व्यसन मद्यपानादि त्याग से बुद्धि को सदा बढ़ाते रहना ( विद्या ) जिससे भूमि से ल के परमेश्वर पर्यन्त का यथार्थ बोध होता है उस विद्या को प्राप्त होना, ( सत्यम् ) सत्य मानना सत्य बोलना सत्य करना, ( अक्रोधः ) क्रोधादि दोषों को छोड़कर शान्त्यादि गुणों का ग्रहण करना धर्म कहाता है इस का ग्रहण और अन्याय पक्षपातसहित आचरण अधर्म जो कि हिंसा वैरबुद्धि, अधैर्य असहन, मन को अधर्म में चलाना, चोरी करना, अपवित्र रहना, इन्द्रियों को न जीतकर अधर्म में चलाना, कुसंग दुर्व्यसन मद्यपानादि से बुद्धि को नाश करना, अविद्या जो कि अधर्माचरण अज्ञान है उसमें फँसना, असत्य मानना असत्य बोलना, क्रोधादि दोषों में फँसकर अधर्मी दुष्टाचारी होना, ये

रह अधर्म के लक्षण हैं, इनसे सदा दूर रहना चाहिये ॥८॥

धा समा यत्र न सन्ति वृद्धा न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम् ।

सौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति न तत्सत्यं यच्छ्लेताभ्युपेतम् ॥

महाभारते० ॥ ६ ॥

सभां वा न प्रवेष्टव्यं वक्त्रव्यं वा समञ्जसम् ।

अब्रुवन् विब्रुवन्वापि नरो भवति किल्बिषी ॥ १० ॥

धर्मो विद्वस्त्वधर्मेण सभां यत्रोपतिष्ठते ।

शल्यं चास्य न कृन्तन्ति विद्वास्तत्र सभासदः ॥११॥

विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यमद्वेषरागिभिः ।

हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तन्निवोधत ॥१२॥ मनु० ॥

वह सभा नहीं है जिसमें वृद्ध पुरुष न हों, वे वृद्ध नहीं

धर्म ही की बाल नहीं बोलते, वह धर्म नहीं है जिसमें

नहीं और न वह सत्य है जो कि छल से युक्त हो ॥ ६ ॥

य को योग्य है कि सभा में प्रवेश न करे, यदि सभा में

करे तो सत्य ही बोले, यदि सभा में बैठा हुआ भी अस-

त को सुन के मौन रहे अथवा सत्य के विरुद्ध बोले वह

य अतिपापी है ॥ १० ॥ अधर्म से धर्म घायल होकर जिस

में प्राप्त होवे उसके घाव को यदि सभासद न पूर दें तो

य जानो कि उस सभा में सब सभासद ही क्षयल पड़े हैं

॥ जिसको सत्पुरुष रागद्वेषरहित विद्वान् अपने हृदय से अनु-

जानकर सेवन करते हैं उसी पूर्वोक्त को तुम लोग धर्म

॥ १२ ॥

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ।

तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोवधीत् ॥१३॥

धृषो हि भगवान्धर्मस्तस्य यः कुरुते क्षलम् ।

धृषलं तं विदुर्देवास्त्वस्माद्धर्मं न लोपयेत् ॥१४॥ मनु०॥

जो पुरुष धर्म का नाश करता है उसी का नाश धर्म कर देता है और जो धर्म की रक्षा करता है उसकी धर्म भी रक्षा करता है इसलिये मारा हुआ धर्म कभी हमको न मार डाले इस भय से धर्म का हनन अर्थात् त्याग कभी न करना चाहिये ॥ १३ ॥ जो सुख की वृष्टि करनेहारा सब पशुचर्य का दाता धर्म है उसका जो लोप करता है उसको विद्वान् लोग धृषल अर्थात् नीच समझते हैं ॥ १४ ॥

न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्धर्मं त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः ।

धर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥

॥ १५ ॥ महामारवे ॥

यत्र धर्मो ह्यधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च ।

हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः ॥१६॥ मनु०॥

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु,

लक्ष्मीस्तमाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ।

अथवा वा मरणमस्तु युगान्तरे वा,

न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥ १७ ॥

मर्तृहरिः ॥

अर्थः—मनुष्यों को योग्य है कि काम से अर्थात् भूढ़ से कामना सिद्धि होने के कारण से, वा निन्दा स्तुति आदि के लक्ष से भी, धर्म का त्याग कभी न करें, और न लोभ से, चाहे

भूठ अधर्म से चक्रवर्ती राज्य भी मिलता हो। तथापि धर्म को छोड़कर चक्रवर्ती राज्य को भी ग्रहण न करें। चाहे भोजन छादन जलपान आदि की जीविका भी अधर्म से हो सके वा प्राण जाते हों परन्तु जीविका के लिये भी धर्म को कभी न छोड़ें। क्योंकि जीव और धर्म नित्य हैं तथा सुख दुःख दोनों अनित्य हैं। अनित्य के लिये नित्य का छोड़ना अतीव दुष्ट कर्म है। इस धर्म का हेतु कि जिस शरीर आदि से धर्म होता है वह भी अनित्य है। धन्य वे मनुष्य हैं जो अनित्य शरीर और सुख दुःखादि के व्यवहार में वर्तमान होकर नित्य धर्म का त्याग कभी नहीं करते ॥ १५ ॥ जिस सभा में बैठे हुए सभासदों के सामने अधर्म से धर्म और भूठ से संत्य का हनन होता है उस सभा में सब सभासद मरे से ही हैं ॥ १६ ॥ सब मनुष्यों को यह निश्चय जानना चाहिये कि चाहे सांसारिक अपने प्रयोजन की नीति में वर्तनहारे चतुर पुरुष निन्दा करें वा स्तुति करें, लक्ष्मी प्राप्त होवे अथवा नष्ट होजावे, आज ही मरण होवे अथवा वर्षान्तर में मृत्यु प्राप्त होवे, तथापि जो मनुष्य धर्मयुक्त मार्ग से एक पग भी विरुद्ध नहीं चलते वे ही धीर पुरुष धन्य हैं ॥ १७ ॥

संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम् । देवा  
भागं यथा पूर्वं संजानाना उपासते ॥ १ ॥ ऋ० मं० १० ।  
सू० १६१ । मं० २ ॥

दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत्सत्यानृते प्रजापतिः । अश्रद्धाम-  
नृतेऽदधाच्छ्रद्धासत्ये प्रजापतिः ॥ २ ॥ यजु० अ० १६ ।  
मं० ७७ ॥

सह नाववतु सह नौ धुनक्नु सह वीर्यं करवावहै ।  
 तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै । ॐ शान्तिश्शान्ति-  
 शान्तिः ॥ तैत्तिरीयार० अष्टमप्रपाठकः । प्रथमानुवाकः ॥

अर्थः—हे गृहस्थादि मनुष्यो ! तुमको मैं ईश्वर आक्षा देता हूँ कि ( यथा ) जैसे ( पूर्वं ) प्रथम अधीत विद्यायोगाभ्यासी ( संजानानाः ) सम्यक् जाननेवाले ( देवाः ) विद्वान् लोग मिलके ( भागम् ) सत्य असत्य का निर्णय करके असत्य को छोड़ सत्य की ( उपासते ) उपासना करते हैं वैसे ( सम्, जानताम् ) आत्मा से धर्माऽधर्म प्रियाऽप्रिय को सम्यक् जानने-छारे ( वः ) तुम्हारे ( मनांसि ) मन एक दूसरे से प्राविशेयी होकर एक पूर्वोक्त धर्म में सम्मत हों और तुम उसी धर्म को ( संगच्छध्वम् ) सम्यक् मिल के प्राप्त होओ जिसमें तुम्हारी एक सम्मति होती है और विरुद्धवाद अधर्म को छोड़ के ( संबद्धध्वम् ) सम्यक् संवाद प्रश्नात्तर प्रीति से करके एक दूसरे की उन्नति किया करो ॥ १ ॥ ( प्रजापतिः ) सकल सृष्टि का उत्पत्ति और पालन करने हारा सर्वव्यापक सर्वज्ञ न्यायकारी आद्वितीय स्वामी परमात्मा ( सत्यानृत ) सत्य और अनृत ( नपे ) मित्र २ स्वरूपवाले धर्म अधर्म को ( दृष्ट्वा ) अपनी सर्वज्ञता से यथावत् देख के ( व्याकरोत् ) मित्र २ निश्चित करता है ( अनृते ) मिथ्याभाषणादि अधर्म में ( अश्रद्धाम् ) अप्रीति करा और ( प्रजापतिः ) वही परमात्मा ( सत्ये ) सत्यभाषणादि लक्षणयुक्त न्याय पक्षपातरहित धर्म में तुम्हारी ( श्रद्धाम् ) प्रीति को ( अदधात् ) धारण कराता है वैसे ही तुम करो ॥ २ ॥ हम लौ पुरुष, सबके स्वामी, मित्र-मित्र, पिता पुत्रादि ( सह ) मिलके ( नौ ) हम दोनों प्रीति से ( अवतु ) एक दूसरे की रक्षा किया करें और ( सह ) प्रीति से

मिल के एक दूसरे के (वीर्यम्) पराक्रम की बढ़ती (कर-  
षावहै) सदा किया करें (नौ) हमारा (अधीतम्) पढ़ा पढ़ाया  
(तेजस्वि) अतिप्रकाशमान (अस्तु) होवे और हम एक  
दूसरे से (मा, विद्विषावहै) कभी विद्वेष विरोध न करें।  
किन्तु सदा मित्रभाव और एक दूसरे के साथ सत्य प्रेम से  
वर्त्त कर सर्व गृहस्थों के सद्व्यवहारों को बढ़ाते हुए सदा  
आनन्द में बढ़ते जावें। जिस परमात्मा का यह "ओम्" नाम  
है उसकी कृपा और अपने धर्मयुक्त पुरुषार्थ से हमारे शरीर  
मन और आत्मा का त्रिविध दुःख जो कि अपने दूसरे से  
होता है नष्ट होजावे और हम लोग प्रीति से एक दूसरे के  
साथ वर्त्त के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि में सफल  
होके सदैव स्वयं आनन्द में रहकर सबको आनन्द में रखें ॥

इति गृहाश्रमसंस्कारविधिः समाप्तः ॥

### अथ वानप्रस्थसंस्कारविधिं वक्ष्यामः

वानप्रस्थसंस्कार उसको कहते हैं जो विवाह से सन्तानोत्पत्ति करके पूर्ण ब्रह्मचर्य से पुत्र भी विवाह करे और पुत्र का भी एक सन्तान होजाय अर्थात् जब पुत्र का भी पुत्र होजावे तब पुरुष वानप्रस्थाश्रम अर्थात् वन में जाकर निश्चलित-स्थित सब बातें करे ॥

अत्र प्रमाणानि—ब्रह्मचर्याश्रम समाप्य गृही भवेद् गृही भूत्वा वनी भवेद्दनी भूत्वा प्रव्रजेत् ॥ १ ॥ शतपथब्राह्मणे ॥

व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां ।

दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥ २ ॥

यजु० अ० १६ । मं० ३० ॥



अर्थः—मनुष्यों को चाहिये कि ब्रह्मचर्याश्रम की समाप्ति करके गृहस्थ हों गृहस्थ होके वनी अर्थात् वानप्रस्थ हों और वानप्रस्थ होके संन्यास ग्रहण करें ॥ १ ॥ जब मनुष्य ब्रह्मचर्यादि तथा सत्यभाषणादि व्रत अर्थात् नियम धारण करता है तब उस (व्रतेन) व्रत से उत्तम प्रतिष्ठा रूप (दीक्षाम्) दीक्षा को (आप्नोति) प्राप्त होता है (दीक्षया) ब्रह्मचर्यादि आश्रमों के नियम पालन से (दक्षिणाम्) सत्कारपूर्वक धनादि को (आप्नोति) प्राप्त होता है (दक्षिणा) उस सत्कार से (श्रद्धाम्) सत्य धारण में प्रीति को (आप्नोति) प्राप्त होता है और (श्रद्धया) सत्यधार्मिक जनों में प्रीति से (सत्यम्) सत्यविज्ञान वा सत्य पदार्थ मनुष्य को (आप्यते) प्राप्त होता है इसलिये श्रद्धापूर्वक ब्रह्मचर्य और गृहाश्रम का अनुष्ठान करके वानप्रस्थ आश्रम अवश्य करना चाहिये ॥ २ ॥

अभ्यादधामि समिधमग्ने व्रतपते त्वयि । व्रतञ्च श्रद्धां  
चोपैमिन्धे त्वा दीक्षितो अहम् ॥ ३ ॥ यजु० अ० २० ।  
मं० २४ ॥

आ नयंतमा रभस्व सुकृतां लोकमपि गच्छतु प्रजा-  
नन् । तीर्त्वा तमांसि बहुधा महान्त्युजो नाक्रुमाक्रमतां  
तुतीयम् ॥ ४ ॥ अथर्व० कां० ६ । सू० ५ । मं० १ ॥

अर्थः—हे (व्रतपतेऽग्ने) नियमपालकेश्वर ! (दीक्षितः) दीक्षा को प्राप्त होता हुआ (अहम्) मैं (त्वयि) तुझ में स्थिर होके (व्रतम्) ब्रह्मचर्यादि आश्रमों का धारण (च) और इसकी सामग्री (श्रद्धाम्) सत्य की धारणा को (च) और इसके उपार्यों को (उपैमि) प्राप्त होता हूँ इसीलिये अग्नि में जैसे (समिधन्) समिधा को (अभ्यादधामि) धारण करता

हूं जैसे विद्या और व्रत को धारण कर प्रज्वलित करता हूं और जैसे ही ( त्वा ) तुरू को अपने आत्मा में धारण करता और सदा ( ईन्धे ) प्रकाशित करता हूं ॥ ३ ॥ हे गृहस्थ ! ( प्रजानन् ) प्रकर्षता से जानता हुआ तू ( पतम् ) इस वान-प्रस्थाश्रम को ( आरभस्व ) आरम्भ कर ( आनय ) अपने मन को गृहाश्रम से इधर की ओर ला ( सुकृताम् ) पुरयात्मानों के ( लोकमपि ) देखने योग्य वानप्रस्थाश्रम को भी ( गच्छतु ) प्राप्त हो ( बहुधा ) बहुत प्रकार के ( महान्ति ) बड़े बड़े ( तमांसि ) अज्ञान दुःख आदि संसार के मोहों को ( तीर्त्वा ) तर के अर्थात् पृथक् होकर ( अजः ) अपने आत्मा को अजर अमर जान ( तृतीयम् ) तीसरे ( नाकम् ) दुःखरहित वानप्रस्थाश्रम को ( आक्रमताम् ) आक्रमण अर्थात् रीतिपूर्वक आरूढ़ हो ॥ ४ ॥

भद्रमिच्छन्त ऋषयस्स्वर्विदस्तपो दीक्षामुपनिषदुरग्रे ।

ततो राष्ट्रं वलमोजश्च जातं तदस्मै देवा उपसन्नमन्तु ॥ ५ ॥

अथर्व० कां० १६ । सू० ४१ । मं० १ ॥

मा नो मेधां मा नो दीक्षां मा नो हिंसिष्ट यत्तपः ।

शिवा नः शं सन्त्वायुषे शिवा भवन्तु मातरः ॥ ६ ॥

अथर्व० कां० १६ । सू० ४० । मं० ३ ॥

अर्थः—हे विद्वान् मनुष्यो ! जैसे ( स्वर्विदः ) सुख को प्राप्त होनेवाले ( ऋषयः ) विद्वान् लोग ( अग्रे ) प्रथम ( दीक्षाम् ) ब्रह्मचर्यादि आश्रमों की दीक्षा उपदेश लेके ( तपः ) प्राणायाम और विद्याध्ययन जितेन्द्रियत्वादि शुभ लक्षणों को ( उप, निषेदुः ) प्राप्त होकर अनुष्ठान करते हैं जैसे इस ( भद्रम् ) कल्याणकारक वानप्रस्थाश्रम की ( इच्छन्तः ) इच्छा

करे । जैसे राजकुमार ब्रह्मचर्याश्रम को छोड़के ( ततः ) तब  
 अन्तर ( श्रोजः ) पराक्रम ( च ) और ( बलम् ) बल को प्राप्त  
 हो के ( जातम् ) प्रसिद्ध प्राप्त हुए ( राष्ट्रम् ) राज्य की इच्छा  
 और राजा करते हैं और ( अस्मै ) न्यायकारी धार्मिक विद्वान्  
 राजा को ( देवाः ) विद्वान् लोग नमन करते हैं ( तत् ) वैसे  
 सब लोग वानप्रस्थाश्रम को किये हुए आप को ( उप, सं, न  
 भन्तु ) समीप प्राप्त होके नम्र होवें ॥ ५ ॥ सम्बन्धी जन ( नः )  
 हम वानप्रस्थाश्रमस्थों को ( मेधात् ) प्रज्ञा को ( मा, हिंसिष्ट  
 षष्ट मत् करे ( नः ) हमारी ( दीक्षाम् ) दीक्षा को ( मा ) मत  
 और ( नः ) हमारा ( यत् ) जो ( तपः ) प्राणायामादि उत्तम  
 तप है उसको भी ( मा ) मत नाश करे ( नः ) हमारी दीक्षा और  
 ( आयुषे ) जीवन के लिये सब प्रजा ( शिवा ) कल्याण करने  
 वाली ( भवन्तु ) होवें जैसे हमारी ( मातरः ) माता पितामह  
 पितामही आदि ( शिवाः ) कल्याण करनेवाली होती हैं वैसे  
 सब लोग प्रसन्न होकर मुझ को वानप्रस्थाश्रम की अनुमति  
 देनहार ( भवन्तु ) होवें ॥ ६ ॥

तपःश्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये शान्त्या \* विद्वांसो  
 भिन्नचर्याञ्चरन्तः । सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रापृत्त  
 स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥ ७ ॥ मुण्डकोपनि० मुं० १  
 ख० २ । मं० ११ ॥

अर्थः—हे मनुष्यों ! ( ये ) जो ( विद्वांसः ) विद्वान् लोग  
 ( अरण्ये ) जंगल में ( शान्त्या ) शान्ति के साथ ( तपःश्रद्धे  
 योगाभ्यास और परमात्मा में प्रीति करके ( उपवसन्ति ) वन  
 शान्तियों के समीप वसते हैं और ( भिन्नचर्याम् ) भिन्नाचर

\* " शान्ता " इति सुखके षट्. ( आनन्दश्रमग्रन्थावलिः ) ।

को (चरन्तः) करते हुए जंगल में निवास करते हैं (ते) वी  
(हि) ही (विरजाः) निर्दोष निष्पाप निर्मल होके (सूर्यद्वारा  
रेण) प्राण के द्वारा (यत्र) जहाँ (सः) सो (अमृतः) मरत्य  
जन्म से पृथक् (अव्ययात्मा) नाशरहित (पुरुषः) पूर्ण पर-  
मात्मा विराजमान है (हि) वहीं (प्रयान्ति) जाते हैं इसलिये  
धानप्रस्थाश्रम करना अति उत्तम है ॥ ७ ॥

एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातको द्विजः ।

वने वसेत्तु नियतो यथावद्विजितेन्द्रियः ॥ १ ॥

गृहस्थस्तु यदा पश्येद् बलीपलितमात्मनः ।

अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत् ॥ २ ॥

सन्त्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्वञ्चैव परिच्छदम् ।

पुत्रेषु भार्यां निक्षिप्य वनं गच्छेत्सहैव वा ३ ॥ मनु० ॥

अर्थ:—पूर्वोक्त प्रकार विधिपूर्वक ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्या पढ़  
के समावर्त्तन के समय स्नानविधि करनेहारा द्विज ब्राह्मण वन  
त्रिय और वैश्य जितेन्द्रिय जितात्मा होके यथावत् गृहाश्रम  
कर के वन में वसे ॥ १ ॥ गृहस्थ लोग जब अपने देह का  
खमड़ा ढीला और श्वेत केश होते हुए देखें और पुत्र का भी  
पुत्र होजाय तब वन का आश्रय लें ॥ २ ॥ जब वानप्रस्थाश्रम  
की दीक्षा लें तब ग्रामों में उत्पन्न हुए पदार्थों का आहार  
और घर के सब पदार्थों को छोड़ के पुत्रों में अपनी पत्नी को  
छोड़ अथवा संग में लेके वन को जावें ॥ ३ ॥

आग्निहोत्रं समादाय गृह्यं चाग्निपरिच्छदम् ।

ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः ॥ ४ ॥ मनु० ॥

अर्थ:—जब गृहस्थ वानप्रस्थ होने की इच्छा करे तब  
आग्निहोत्र की सामग्री सहित ले के ग्राम से निकल जंगल में

चित्तेन्द्रिय होकर निवास करे ॥ ४ ॥

स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यादान्तो मैत्रः समाहितः ।

दाता नित्यमनादाता सर्वभूतानुकम्पकः ॥ ५ ॥

तापसंश्लेषेव विप्रेषु यात्रिकं भैक्ष्यमाहरेत् ।

गृहमधिषु चान्येषु द्विजेषु वनवासिषु ॥ ६ ॥

एताश्चान्याश्च सेवेत दीक्षा विप्रो वने वसन् ।

विविधाश्चापनिषदीरात्मसंसिद्धये श्रुतीः ॥ ७ ॥

मनु० अ० ६ ॥

अर्थः—वहाँ जङ्गल में वेदादि शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने में नित्य युक्त, मन और इन्द्रियों को जीतकर यदि स्वस्त्री भी समीप हो तथापि उससे सेवा के सिवाय विषयसेवन अर्थात् प्रसङ्ग कभी न करे, सब से मित्रभाव, सावधान, नित्य देनेहारा, और किसी से कुछ भी न लेवे, सब प्राणीमात्र पर अनुकम्पा-कृपा करनेहारा होवे ॥ ५ ॥ जो जङ्गल में पढ़ाने और योगाभ्यास करनेहारे तपस्वी अर्मात्मा विद्वान् लोग रहते हों जो कि गृहस्थ वा वानप्रस्थ वनवासी हों उनके घरों में से भिक्षा ग्रहण करे ॥ ६ ॥ और इस प्रकार वन में वसता हुआ इन और अन्य दीक्षाओं का सेवन करे, और आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान के लिये नान्यप्रकार की उपनिषद् अर्थात् ज्ञान और उपासना विधायक श्रुतियों के अर्थों का विचार किया करे, इसी प्रकार जवनक सन्यास करने की इच्छा न हो तबतक वानप्रस्थ ही रहे ॥ ७ ॥

अथ विधिः—वानप्रस्थाश्रम करने का समय ५० वर्ष के उपरान्त है । जब पुत्र का भी पुत्र होजावे तब अपनी स्त्री, पुत्र, भाई, बन्धु, पुत्रवधु आदि को सब गृहाश्रम की शिक्षा

करके वन की ओर यात्रा की तय्यारी करे। यदि स्त्री चले तो साथ लेजावे, नहीं तो ज्येष्ठ पुत्र को सौंप जावे कि इसकी सेवा यथावत् किया करना और अपनी पत्नी को शिक्षा कर जावे कि तू सदा पुत्र आदि को धर्ममार्ग में चलने के लिये और अधर्म से हटाने के लिये शिक्षा करती रहना। तत्पश्चात् पृष्ठ १६-१७ में लिखे प्रमाणे यज्ञशाला वेदी आदि सब बनावे। पृष्ठ १८-१९ में लिखे घृत आदि सब सामग्री जोड़ के पृष्ठ २५-२६ में लिखे प्रमाणे ( ओं भूर्भुवः स्वर्द्यौं० ) इस मन्त्र से अग्न्याधान और ( अयन्त इध्म० ) इत्यादि मन्त्रों से समिदाधान करके पृ० २७ में लिखे प्रमाणे:—

ओं अदितेऽनुमन्यस्व ॥

इत्यादि चार मन्त्रों से कुरड के चारों ओर जल प्रोक्षण करके, आधारावाज्यभागाहुति ४ और व्याहृति आज्याहुति ४ ( चार ) करके, पृष्ठ ९-१३ में लिखे प्रमाणे स्वस्तिवाचन और शान्तिकरण करके, स्थालीयाक बनाकर, उस पर घृत सेचन कर, निम्नलिखित मन्त्रों से आहुति देवे ॥

ओं काय स्वाहा । कस्मै स्वाहा । कतमस्मै स्वाहा ।  
आधिमाधीताय स्वाहा । मनः प्रजापतये स्वाहा । चित्तं  
धिज्ञातायादित्यै स्वाहा । अदित्यै मह्यै स्वाहा । अदित्यै  
सुमृडाकायै स्वाहा । सरस्वत्यै स्वाहा । सरस्वत्यै पावकायै  
स्वाहा । सरस्वत्यै बृहत्यै स्वाहा । पूष्णे स्वाहा । पूष्णे  
प्रपथ्याय स्वाहा । पूष्णे नरन्धिपाय स्वाहा । त्वष्ट्रे स्वाहा ।  
त्वष्ट्रे तुरीपाय स्वाहा । त्वष्ट्रे पुरुरूपाय स्वाहा \* । भुवन-  
स्य पतये स्वाहा । अधिपतये स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा ।† ।

ओं आयुर्यज्ञेन कल्पताथ् स्वाहा । प्राणो यज्ञेन कल्पताथ्  
 स्वाहा । अपानो यज्ञेन कल्पताथ् स्वाहा । व्यानो यज्ञेन  
 कल्पताथ् स्वाहा । उदानो यज्ञेन कल्पताथ् स्वाहा ।  
 समानो यज्ञेन कल्पताथ् स्वाहा । चक्षुर्यज्ञेन कल्पताथ् स्वा-  
 हा । श्रोत्रं यज्ञेन कल्पताथ् स्वाहा । वाग्यज्ञेन कल्पताथ्  
 स्वाहा । मनो यज्ञेन कल्पताथ् स्वाहा । आत्मा यज्ञेन  
 कल्पताथ् स्वाहा । ब्रह्मा यज्ञेन कल्पताथ् स्वाहा । ज्यो-  
 तिर्यज्ञेन कल्पताथ् स्वाहा । स्वर्ग्यज्ञेन कल्पताथ् स्वाहा ।  
 पृष्ठं यज्ञेन कल्पताथ् स्वाहा । यज्ञो यज्ञेन कल्पताथ् स्वा-  
 हा \* । एकस्मै स्वाहा । द्वाभ्यां स्वाहा । शताय स्वाहा ।  
 एकशताय स्वाहा । व्युष्ट्यै स्वाहा । स्वर्गाय स्वाहा † ॥

इन मन्त्रों से एक २ करके ४३ स्थालीपाक की आज्या-  
 हुति देके, पुनः पृष्ठ २८ में लिखे प्रमाणे व्याहृति आहुति ४  
 (चार) देकर, पृ० ३१-३२ में लिखे प्रमाणे नामगान करके, सब  
 षष्ट गिठों से मिल, पुत्रादिकों पर सब धर का भार धरके,  
 अग्निहोत्र की सामग्री सहित जङ्गल में जाकर, एकान्त में  
 निवास कर, योगाभ्यास शान्तियों का विचार महात्माओं का  
 स्मरण करके स्वात्मा और परमात्मा को साक्षात् करने में प्रय-  
 त्न किया करे ॥

इति धानप्रस्थप्रकरणविधिः समाप्तः ॥

—७१—

\* यजु० अ० २२ । मं० ३३ ॥

† यजु० अ० २२ । मं० ३४ ॥

अथ संन्याससंस्कारविधिं वक्ष्यामः

संन्याससंस्कार उसको कहते हैं कि जो मोहादि आवरण  
पक्षपात छोड़ के विरक्त होकर सब पृथिवी में परोपकार  
विचरे अर्थात्—

सम्यङ् न्यस्यन्त्यधर्माचरणानि येन, वा सम्यङ् निर-  
सत्कर्मस्वास्त उपविशति स्थिरीभवति येन स संन्यास  
संन्यासो विद्यते यस्य स संन्यासी ॥

कालः—प्रथम जो वानप्रस्थ के आदि में कह आये हैं।  
ब्रह्मचर्य पूरा करके गृहस्थ और गृहस्थ होके वनस्थ, वनस्थ  
होके संन्यासी होवे, यह क्रमसंन्यास अर्थात् अनुक्रम  
आश्रमों का अनुष्ठान करता २ वृद्धावस्था में जो संन्यास  
सेना है उसी को क्रमसंन्यास कहते हैं ॥

द्वितीय प्रकार

यदहरेव विरजेत् तदहरेव प्रव्रजेद्ब्रह्मनाम्ना गृहाद्वा ॥

यह ब्राह्मणग्रन्थ का वाक्य है—

अर्थः—जिस दिन दृढ़ वैराग्य प्राप्त होवे उसी दिन वानप्र-  
स्थ का समय पूरा भी न हुआ हो अथवा वानप्र-  
स्थ का अनुष्ठान न करके गृहाश्रम से ही संन्यासाश्र-  
म ग्रहण करे। क्योंकि संन्यास में दृढ़ वैराग्य और यथार्थ ज्ञान  
का होना ही मुख्य कारण है ॥

तृतीय प्रकार

ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत् ॥

यह भी ब्राह्मण ग्रन्थ का वचन है। यदि पूर्ण असुरिड  
ब्रह्मचर्य, सच्चा वैराग्य और पूर्ण ज्ञान विज्ञान को प्राप्त होके



अर्थः—हे (छन्दस्याम्) स्वतन्त्रतायुक्त (वाचम्) वाणी को (वदन्) कहते हुए (सोमेन) विद्या योगाभ्यास और परमेश्वर की भक्ति से (आनन्दम्) सब के लिये आनन्द को (जनयन्) प्रकट करते हुए (इन्दो) आनन्दप्रद (पवमान) पवित्रात्मन् पवित्र करनेहारि संन्यासिन् ! (यत्र) जिस (सोमे) परमैश्वर्ययुक्त परमात्मा में (ब्रह्मा) चारों वेदों का जाननेहारा विद्वान् (महीयते) महत्त्व को प्राप्त होकर सत्कार को प्राप्त होता है जैसे (ब्रह्मा) मेव से सब जगत् को आनन्द होता है वैसे तू सब को (इन्द्राय) परमैश्वर्य युक्त मोक्ष का आनन्द देने के लिये सब साधनों को (परि, स्व) सब प्रकार से प्राप्त कर ॥ ४ ॥

यत्र ज्योतिरजस्रं यस्मिँल्लोके स्वर्हितम् । तस्मिन्  
मां वैहि पवमानामृते लोके अर्चित इन्द्रायेन्दो परि स्व  
॥ ५ ॥ ऋ० मं० ६ । सू० ११३ । मं० ७ ॥

अर्थः—हे (पवमान) अविद्यादि क्लेशों के नाश करने-  
हारि पवित्रस्वरूप (इन्दो) सर्वानन्ददायक परमात्मन् ! (यत्र)  
जिस तेरे स्वरूप में (अजन्मम्) निरन्तर व्यापक तेरा (ज्यो-  
तिः) तेज है (यस्मिन्) जिस (लोके) ज्ञान से देखने योग्य  
मुझ में (स्वः) नित्य सुख (हितम्) स्थित है (तस्मिन्)  
रस (अमृत) जन्म मरण और (अर्चिते) नाश से रहित  
(लोके) द्रष्टव्य अपने स्वरूप में आप (मा) मुझ को (इ-  
न्द्राय) परमैश्वर्य प्राप्ति के लिये (वैहि) कृपा से धारण की-  
जिये और मुझ पर माता के समान कृपाभाव से (परि, स्व)  
आनन्द की वर्षा कीजिये ॥ ६ ॥

यत्र राजा वैवस्वता यत्रात्रोर्धनं दिवः । यत्रामृग्यह-

तीरापस्तत्र माममृतं कृधीन्द्रायेन्दो परि स्रव ॥ ६ ॥ ऋ०  
मं० ६ । सू० ११३ । मं० ८ ॥

अर्थः—हे ( इन्दो ) आनन्दप्रद परमात्मन् ! ( यत्र ) जिस  
मुझ में ( वैवस्वतः ) सूर्य का प्रकाश ( राजा ) प्रकाशमान हो  
रहा है ( यत्र ) जिस आप में ( दिवः ) विजुली अथवा बुरी  
कामना की ( अवरोधनम् ) रुकावट है ( यत्र ) जिस आप में  
( अमूः ) वे कारणरूप ( यद्धतीः ) बड़े व्यापक आकाशस्थ  
( आपः ) प्राणप्रद वायु हैं ( तत्र ) उस अपने स्वरूप में ( माम् )  
मुझ को ( अमृतम् ) मोक्षप्राप्त ( कृधि ) कीजिये ( इन्द्राय )  
परमैश्वर्य के लिये, ( परि, स्रव ) आर्द्रभाव से आप मुझ को  
प्राप्त हूजिये ॥ ६ ॥

यत्रानुकामं चरणं त्रिनाके त्रिदिवे दिवः । लोका यत्र  
ज्योतिष्मन्तस्तत्र माममृतं कृधीन्द्रायेन्दो परि स्रव ॥ ७ ॥  
ऋ० मं० ६ । सू० ११३ । मं० ६ ॥

अर्थः—हे ( इन्दो ) परमात्मन् ! ( यत्र ) जिस आप में  
( अनुकामम् ) इच्छा के अनुकूल स्वतन्त्र ( चरणम् ) विचरना  
है ( यत्र ) जिस ( त्रिनाके ) त्रिविध अर्थात् आध्यात्मिक आधि-  
भौतिक और आधिदैविक दुःख से रहित ( त्रिदिवे ) तीन सूर्य  
विद्युत् और भौम्य त्रिणि से प्रकाशित सुखस्वरूप में ( दिवः )  
कामना करने योग्य शुद्ध कामनावाले ( लोकाः ) यथार्थ ज्ञान-  
युक्त ( ज्योतिष्मन्तः ) शुद्ध विज्ञानयुक्त मुक्ति को प्राप्त हुए  
सिद्ध पुरुष विचरते हैं ( तत्र ) उस अपने स्वरूप में ( माम् )  
मुझ को ( अमृतम् ) मोक्ष प्राप्त ( कृधि ) कीजिये और ( इन्द्राय )  
दस परम आनन्दैश्वर्य के लिये ( परि, स्रव ) कृपा से प्राप्त  
हूजिये ॥ ७ ॥

यत्र कामा निकामारश्च यत्र ब्रध्नस्य विष्टपम् । स्वधा  
 च यत्र तृप्तिश्च तत्र माममृतं कृधीन्द्रायिन्दो परि स्रव ॥ ८ ॥  
 ऋ० मं० ६ । सू० ११३ । मं० १० ॥

अर्थः—हे ( इन्दो ) निष्कामानन्दप्रद सच्चिदानन्दस्वरूप  
 परमात्मन् ! ( यत्र ) जिस आप में ( कामाः ) सब कामना  
 ( निकामाः ) और अभिलाषा छूट जाती हैं ( च ) और ( यत्र )  
 जिस आप में ( ब्रध्नस्य ) सब से बड़े प्रकाशमान सूर्य का  
 ( विष्टपम् ) विशिष्ट सुख ( च ) और ( यत्र ) जिस आप में  
 ( स्वधा ) अपना ही धारण ( च ) और जिस आप में ( तृप्तिः )  
 पूर्ण तृप्ति है ( तत्र ) उस अपने स्वरूप में ( माम् ) मुझ को  
 ( अमृतम् ) प्रात मुक्तिवाला ( कृधि ) कीजिये तथा ( इन्द्राय )  
 सब दुःख विदारण के लिये आप मुझ पर ( परि, स्रव ) करु-  
 णावृत्ति कीजिये ॥ ८ ॥

यत्रानन्दाश्च मोदाश्च मुदः प्रमुद आसते । कामस्य  
 यत्राप्ताः कामास्तत्र माममृतं कृधीन्द्रायिन्दो परि स्रव ॥ ९ ॥  
 ऋ० मं० ६ । सू० ११३ । मं० ११ ॥

अर्थः—हे ( इन्दो ) सर्वानन्दयुक्त जगदीश्वर ! ( यत्र ) जिस  
 आप में ( आनन्दाः ) सम्पूर्ण समृद्धि ( च ) और ( मोदाः )  
 सम्पूर्ण हर्ष ( मुदः ) सम्पूर्ण प्रसन्नता ( च ) और ( प्रमुदः )  
 प्रकृत प्रसन्नता ( आसते ) स्थित हैं ( यत्र ) जिस आप में  
 ( कामस्य ) अभिलाषा पुरुष की ( कामाः ) सब कामना  
 ( आप्ताः ) प्रात होती हैं ( तत्र ) उसी अपने स्वरूप में ( इन्द्राय )  
 परमेश्वर्य के लिये ( माम् ) मुझ को ( अमृतम् ) जन्म मृत्यु  
 के दुःख से रहित मोक्षप्राप्तयुक्त कि जिसके मुक्ति के समय के  
 मध्य में संसार में नहीं आना पड़ता उस मुक्ति की प्राप्ति वाला

( कृधि ) कीजिये और इसी प्रकार सब जीवों को ( परि, सब ) सब ओर से प्राप्त हूजिये ॥ ६ ॥

यदेवा यतयो यथा भुवनान्यपिन्वत । अत्रा समुद्र  
आ गूळहमा सूर्यमजभर्त्तन ॥ १० ॥ ऋ० मं० १० । सू०  
७२ । मं० ७ ॥

अर्थ:—हे ( देवाः ) पूर्ण विद्वान् ( यतयः ) संन्यासी लोगो ! तुम ( यथा ) जैसे ( अत्र ) इस ( समुद्रे ) आकाश में ( गूळम् ) गुप्त ( आसूर्यम् ) स्वयं प्रकाशस्वरूप सूर्यादि का प्रकाशक परमात्मा है उसको ( आ, अजभर्त्तन ) चारों ओर से अपने आत्माओं में धारण करो और आनन्दित होओ वैसे ( यत् ) जो ( भुवनानि ) सब भुवनस्थ गृहस्थादि मनुष्य हैं उनको सदा ( अपिन्वत ) विद्या और उपदेश से संयुक्त किया करो यही तुम्हारा परमधर्म है ॥ १० ॥

भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदस्तपो दीक्षामुपनिषेदुरग्रे ।  
ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तदस्मै देवा उपसन्नमन्तु  
॥ ११ ॥ अथर्व० कां० १६ । सू० ४१ । मं० १ ॥

अर्थ:—हे विद्वानो ! जो ( ऋषयः ) वेदार्थविद्या को और ( स्वर्विदः ) सुख को प्राप्त ( अग्रे ) प्रथम ( तपः ) ब्रह्मचर्यरूप आश्रम को पूर्णता से सेवन तथा यथावत् स्थिरता से प्राप्त होके ( भद्रम् ) कल्याण की ( इच्छन्तः ) इच्छा करते हुए ( दीक्षाम् ) संन्यास की दीक्षा को ( उपनिषेदुः ) ब्रह्मचर्य ही से प्राप्त होवें उनका ( देवाः ) विद्वान् लोग ( उप, सन्नमन्तु ) यथावत् सत्कार किया करें ( ततः ) तदनन्तर ( राष्ट्रम् ) राज्य ( बलम् ) बल ( च ) और ( ओजः ) पराक्रम ( जातम् ) उत्पन्न होवे ( तत् ) उससे ( अस्मै ) इस संन्यासाश्रम के पालन के लिये यत्न किया करें ॥ ११ ॥

## अथ मनुस्मृतेशरलोकाः

घनेषु तु विहृत्यैवं तृतीयं भागमायुषः ।  
 चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा संगान् परिव्रजेत् ॥ १ ॥  
 अधीत्य विधिवद्देवान् पुत्राँश्चोत्पाद्य धर्मतः ।  
 इष्ट्वा च शक्तितो यज्ञैर्मनो सोक्षे नियोजयेत् ॥ २ ॥  
 प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सर्ववेदसदक्षिणाम् ।  
 आत्मन्यग्नीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेद् गृहात् ॥ ३ ॥  
 यो दत्त्वा सर्वभूतेभ्यः प्रव्रजत्यभयं गृहात् ।  
 तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ ४ ॥  
 आगारादभिनिष्क्रान्तः पवित्रोपचितो मुनिः ।  
 समुपाडेषु कामेषु निरपेक्षः परिव्रजेत् ॥ ५ ॥  
 अग्निरनिकेतः स्याद् ग्राममन्त्रार्थमाश्रयेत् ।  
 उपेक्षकोऽसङ्कसुको मुनिर्भावसमाहितः ॥ ६ ॥  
 नाभिनन्देत् मरणं नाभिनन्देत् जीवितम् ।  
 कालमेव प्रतीक्षेत् निर्देशं मृतको यथा ॥ ७ ॥  
 दृष्टिपूतं न्यसत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् ।  
 सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत् ॥ ८ ॥  
 अथ्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः ।  
 आत्मनैव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥ ९ ॥  
 वल्गुमकेशनखश्मश्रुः पात्री दण्डी कुसुम्भवान् ।  
 विचरेन्नियतां नित्यं सर्वभूतान्यपीडयन् ॥ १० ॥

इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च ।

अहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते ॥ ११ ॥

दूषितोपि चरेद्धर्मं यत्र तत्राश्रमे रतः ।

समः सर्वेषु भूतेषु न लिङ्गं धर्मकारणम् ॥ १२ ॥

फलं कतकवृक्षस्य यद्यप्यम्बुप्रसादकम् ।

न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति ॥ १३ ॥

प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोऽपि विधिवत्कृताः ।

व्याहृतिप्रणवैर्युक्ता विज्ञेयं परमं तपः ॥ १४ ॥

दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः ।

तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात् ॥ १५ ॥

प्राणाधामैर्दहेदोषान् धारणाभिश्च किल्बिषम् ।

प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान् ॥ १६ ॥

उच्चावचेषु भूतेषु दुर्ज्ञेयामकृतात्मभिः ।

ध्यानयोगेन संपश्येद् गतिमस्यान्तरात्मनः ॥ १७ ॥

सम्यग्दर्शनसंपन्नः कर्मभिर्न निवध्यते ।

दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥ १८ ॥

अहिंसयेन्द्रियासंगैर्वैदिकैश्चैव कर्मभिः ।

तपसश्चरणैश्चोग्रैः साधयन्तीह तत्पदम् ॥ १९ ॥

यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निःस्पृहः ।

तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम् ॥ २० ॥

अनेन विधिना सर्वास्त्यक्त्वा सङ्गाञ्छनैः शनैः ।

सर्वद्वन्द्वविनिर्मुक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते ॥ २१ ॥

इदं शरणमज्ञानामिदमेव विजानताम् ।

इदमन्विच्छतां स्वर्ग्य\*मिदमानन्त्यमिच्छताम् ॥ २२ ॥

अनेन क्रमयोगेन परिव्रजति यो द्विजः ।

स विद्युयेह पाप्मानं परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ २३ ॥

मनु० अ० ६ ॥

अर्थः—इस प्रकार जंगलों में आयु का तीसरा भाग अर्थात् अधिक से अधिक २५ ( पच्चीस ) वर्ष अथवा न्यून से न्यून १२ ( बारह ) वर्ष तक विहार करके आयु के चौथे भाग अर्थात् ७० ( सत्तर ) वर्ष के पश्चात् सब मोहादि संगों को छोड़कर संन्यासी होजावे ॥ १ ॥ विधिपूर्वक ब्रह्मचर्याश्रम से सब वेदों को पढ़ गृहाश्रमी होकर धर्म से पुत्रोत्पत्ति कर वागप्रस्थ में सामर्थ्य के अनुसार यज्ञ करके मोक्ष में अर्थात् संन्यासाश्रम में मन को लगावे ॥ २ ॥ प्रजापति परमात्मा की प्राप्ति के निमित्त प्राजापत्येष्टि ( कि जिसमें यज्ञोपवीत और शिखा का त्याग किया जाता है ) कर आहवनीय गार्हपत्य और दाक्षिणात्य संज्ञक अग्नियों को आत्मा में समारोपित करके ब्राह्मण विद्वान् गृहाश्रम से ही संन्यास लेवे ॥ ३ ॥ जो पुरुष सब प्राणियों को अभयदान सत्यापदेश देकर गृहाश्रम से ही संन्यास ग्रहण कर लेता है उस ब्रह्मवादी वेदोक्त सत्यापदेशक संन्यासी का मोक्षलोक और सब लोकलोकान्तर तेजोमय ( ज्ञान से प्रकाशमय ) हो जाते हैं ॥ ४ ॥ जब सब कामों को जीत लेवे और उनकी श्रपणा न रहे, पवित्रात्मा और पवित्रान्तःकरण मननशील हो जावे तभी गृहाश्रम से निकल कर संन्यासाश्रम का ग्रहण करे अथवा ब्रह्मचर्य ही से संन्यास का

हण कर लेवे ॥ ५ ॥ वह संन्यासी (अग्निः \*) आहवनी-  
 दि अग्नियों से रहित, और कहीं अपना स्वाभिमत घर भी  
 बांधे, और अन्न वस्त्रादि के लिये ग्राम का आश्रय लेवे, बुरे  
 नुष्यों की उपेक्षा करता और स्थिरबुद्धि मननशील होकर  
 ऐश्वर्य में अपनी भावना का समाधान करता हुआ विचरे  
 ६ ॥ न तो अपने जीवन में आनन्द और न अपने मृत्यु में  
 ख माने, किन्तु जैसे चुद्र भृत्य अपने स्वामी की आज्ञा की  
 ट देखता रहता है, वैसे ही काल और मृत्यु की प्रतीक्षा क-  
 रा रहे ॥ ७ ॥ चलते समय आगे २ देख के पंग धरे, सदा  
 अ से छान कर जल पीवे, सब से सत्य वाणी बोले अर्थात्  
 त्योपदेश ही किया करे, जो कुछ व्यवहार करे वह सब मन  
 पवित्रता से आचरण करे ॥ ८ ॥ इस संसार में आत्मनिष्ठा  
 स्थित, सर्वथा अपेक्षारहित, मांस मद्यादि का त्यागी, आत्मा  
 सहाय से ही सुखार्थी होकर विचरा करे और सब को स-  
 पदेश करता रहे ॥ ९ ॥ सब शिर के बाल डाढ़ी मूँछ और  
 त्रों को समय २ छेदन कराता रहे, पात्री, दण्डी और कुसुंभ  
 रंगे हुए † वस्त्रों का धारण किया करे, सब भूत प्राणिमात्र  
 पीड़ा न देता हुआ दृढात्मा होकर नित्य विचरा करे ॥ १० ॥  
 संन्यासी बुरे कामों से इन्द्रियों के निरोध, राग द्वेषादि दोषों  
 क्षय और निर्वैरता से सब प्राणियों का कल्याण करता  
 वह मोक्ष को प्राप्त होता है ॥ ११ ॥ यदि संन्यासी को

\* इसी पद से आन्ति में पढ़ के संन्यासियों का दाह नहीं करते  
 संन्यासी लोग अग्नि को नहीं छूते । यह पाप संन्यासियों के पीछे  
 गया । यहां आहवनीयादि संज्ञक अग्नियों को छोड़ना है, स्पर्श वा  
 कर्म छोड़ना नहीं है ॥

† अथवा गेरु से रंगे हुए वस्त्रों को पहिने ॥



मूर्ख संसारी लोग निन्दा आदि से दूषित वा अपमान भी करे तथापि धर्म ही का आचरण करे, ऐसे ही अन्य ब्रह्मचर्याश्रमादि के मनुष्यों को करना उचित है, सब प्राणियों में पक्षपातरहित होकर समबुद्धि रखे इत्यादि उत्तम काम करने ही के लिये संन्यासाश्रम की विधि है, किन्तु केवल दरडादि चिह्न धारण करना ही धर्म का कारण नहीं है ॥ १२ ॥ यद्यपि निर्मलौ वृक्ष का फल जल को शुद्ध करनेवाला है तथापि उसके नामग्रहणमात्र से जल शुद्ध नहीं होता किन्तु उसको ले पीस जल में डालने ही से उस मनुष्य का जल शुद्ध होता है, वैसे नाममात्र आश्रम से कुछ भी नहीं होता किन्तु अपने २ आश्रम के धर्मयुक्त कर्म करने ही से आश्रमधारण सफल होता है अन्यथा नहीं ॥ १३ ॥ इस पवित्र आश्रम को सफल करने के लिये संन्यासी पुरुष विद्विषत् योगशास्त्र की रीति से सात व्याहृतियों के पूर्व सात प्रणव लगा के जैसा कि पृष्ठ २२१ में प्राणायाम का मन्त्र लिखा है उसको मन से जपता हुआ तीन श्री प्राणायाम करे तो जाना अत्युत्कृष्ट तप करता है ॥ १४ ॥ क्योंकि जैसे अग्नि में तपाने से धातुओं के मल छूट जाते हैं वैसे ही प्राण के निग्रह से इन्द्रियों के दोष नष्ट हो जाते हैं ॥ १५ ॥ इसलिये संन्यासी लोग प्राणायामों से दोषों को, धाराओं से अन्तःकरण के मूल को, प्रत्याहार से संग से हुए दोषों और ध्यान से अविद्या पक्षपात आदि अनीश्वरता के दोषों को छुड़ा के पक्षपातरहित आदि ईश्वर के गुणों को धारण कर सब दोषों को भस्म कर दें ॥ १६ ॥ बड़े छोटे प्राणी और अप्राणियों में जो अशुद्धात्माओं से देवने के योग्य नहीं है उस अन्तर्यामी परमात्मा की गति अर्थात् प्राप्ति को ध्यान योग से ही संन्यासी देखा करे ॥ १७ ॥ जो संन्यासी यथार्थ ज्ञान वा पददर्शनों से

युक्त है वह दुष्ट कर्मों से बद्ध नहीं होता और जो ज्ञान, विद्या, योगाभ्यास, सत्संग, धर्मानुष्ठान वा षड्दर्शनों से रहित विज्ञानहीन होकर संन्यास लेता है वह संन्यासपदवी और मोक्ष को प्राप्त न होकर जन्ममरण रूप संसार को प्राप्त होता है और ऐसे मूर्ख अधर्मों को संन्यास का लेना व्यर्थ और धिक्कार देने के योग्य है ॥ १८ ॥ और जो निर्वैर, इन्द्रियों के विषयों के बन्धन से पृथक्, वैदिक कर्माचरणों और प्राणायाम सत्यभाषणादि उत्तम उग्र कर्मों से सहित संन्यासी लोग होते हैं वे इसी जन्म इसी वर्तमान समय में परमेश्वर की प्राप्तिरूप पद को प्राप्त होते हैं, उनका संन्यास लेना सफल और धन्यवाद के योग्य है ॥ १९ ॥ जब संन्यासी सब पदार्थों में अपने भाव से निःस्पृह होता है तभी इस लोक इस जन्म और मरण पाकर परलोक और मुक्ति में परमात्मा को प्राप्त होके निरन्तर \* सुख को प्राप्त होता है ॥ २० ॥ इस विधि से धीरे २ सब संग से हुये दोषों को छोड़ के सब हर्षशोकादि द्वन्द्वों से विशेषकर निर्मुक्त हो के विद्वान् संन्यासी ब्रह्म ही में स्थिर होता है ॥ २१ ॥ और जो विविदिषा अर्थात् जानने की इच्छा करके गौण संन्यास लेवे वह भी विद्या का अभ्यास, सत्पुरुषों का सङ्ग, योगाभ्यास और ओंकार का जप और उस के अर्थ परमेश्वर का विचार भी किया करे। यही अज्ञानियों का शरण अर्थात् गौणसंन्यासियों और यही विद्वान् संन्यासियों का और यही सुख का खोज करनेहार और यही अनन्त † सुख की इच्छा

\* निरन्तर शब्द का इतना ही अर्थ है कि मुक्ति के नियत समय के मध्य में दुःख आकर विघ्न नहीं कर सकता।

† अनन्त इतना ही है कि मुक्तिसुख के समय में अन्त अर्थात् निसका नाश न होवे ॥

करनेहारे मनुष्यों का आश्रय है ॥ २२ ॥ इस क्रमानुसार संन्यास-  
योग से जो द्विज अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, संन्यास ग्रहण  
करता है वह इस संसार और शरीर से सब पापों को छोड़-  
छुड़ा के परब्रह्म को प्राप्त होता है ॥ २३ ॥

विधि:—जो पुरुष संन्यास लेना चाहे वह जिस दिन स-  
र्धेया प्रसन्नता हो उसी दिन नियम और व्रत अर्थात् तीन दिन  
तक दुग्धपान करके उपवास और भूमि में शयन और प्राणा-  
पाम, ध्यान तथा एकान्तदेश में ओंकार का जप किया करे,  
और पृष्ठ १६-१६ में लि० सभामण्डप, वेदी, समिधा, घृतादि  
साकल्य सामग्री एक दिन पूर्व कर रखनी । पश्चात् जिस  
चाँथे दिन संन्यास लेना हो प्रहर रात्रि से उठकर, शौच स्ना-  
नादि आवश्यक कर्म करके, प्राणायाम ध्यान और प्रणव का  
लय करता रहे । सूर्योदय के समय उत्तम गृहस्थ धार्मिक  
विद्वानों का पृष्ठ २३-२४ में लि० वरण कर पृष्ठ २५-२६ में लि०  
अग्न्याधान समिधाधान, घृतप्रतपन और स्थालीपाक करके,  
पृष्ठ ६-१६ लि० स्वस्तिवाचन शान्तिकरण का पाठ कर, पृष्ठ  
२७ में लि० वेदी के चारों ओर जलप्राक्षण, आधारावाज्यभागा-  
हृति ४ ( चार ), और व्याहृति आहृति ४ ( चार ), तथा:—

ओं भुवनंपतये स्वाहा । ओं भूतानां पतये स्वाहा ।

ओं प्रजापतये स्वाहा ॥

इनमें से एक २ मन्त्र से एक २ करके ग्यारह आज्याहृति  
देके, जो विधिपूर्वक भात बनाया हो उसमें घृत सेचन करके,  
व्यजमान जो कि संन्यास का लेनेवाला है और दो ऋत्विज  
निम्नलिखित स्वाहान्त मन्त्रों से भात का होम, और शेष दो  
ऋत्विज भी साथ २ घृताहृति करते जावें ॥

ओं ब्रह्म होता ब्रह्म यज्ञो ब्रह्मणा स्वरवो मिताः ।  
 अध्वर्युर्ब्रह्मणो जातो ब्रह्मणोऽन्तर्हितं हविः, स्वाहा ॥ १ ॥  
 ब्रह्म सुचो घृतवंतीर्ब्रह्मणा वेदिरुद्धिता । ब्रह्म यज्ञश्च सत्रं च  
 ऋत्विजो ये हविष्कृतः । शमिताय स्वाहा ॥ २ ॥ अंहो-  
 मुचे प्रभरे मनीषामा सुत्राम्णो सुमतिमावृणान्तः । इदमिन्द्र  
 प्रति हव्यं गृभाय सत्यास्सन्तु यजमानस्य कामाः, स्वाहा  
 ॥ ३ ॥ अंहोमुचं वृषभं यज्ञियानां विराजन्तं प्रथममध्वरा-  
 णाम् । अपानपातमश्विना हुवे धियेन्द्रेण म इन्द्रियं दत्त-  
 भोजः, स्वाहा ॥ ४ ॥ यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया  
 तपसा सह । अग्निर्मा तत्र नयत्वग्निर्मेधां दधातु मे,  
 अग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न मम ॥ ५ ॥ यत्र० ।  
 वायुर्मा तत्र नयतु वायुः प्राणान् दधातु मे । वायवे स्वाहा ॥  
 इदं वायवे-इदन्न मम ॥ ६ ॥ यत्र० । सूर्यो मा तत्र नयतु  
 चक्षुस्सूर्यो दधातु मे । सूर्याय स्वाहा ॥ इदं सूर्याय-इदन्न  
 मम ॥ ७ ॥ यत्र० । चन्द्रो मा तत्र नयतु मनश्चन्द्रो दधातु  
 मे । चन्द्राय स्वाहा ॥ इदं चन्द्राय-इदन्न मम ॥ ८ ॥  
 यत्र० । सोमो मा तत्र नयतु पयः सोमो दधातु मे ।  
 सोमाय स्वाहा ॥ इदं सोमाय-इदन्न मम ॥ ९ ॥ यत्र० ।  
 इन्द्रो मा तत्र नयतु बलमिन्द्रो दधातु मे । इन्द्राय स्वाहा ॥  
 इदमिन्द्राय-इदन्न मम ॥ १० ॥ यत्र० । आपो मा तत्र  
 नयन्त्वमृतं मोपतिष्ठतु । अद्भ्यः स्वाहा ॥ इदमद्भ्यः—  
 इदन्न मम ॥ ११ ॥ यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा

सह । ब्रह्मा मा तत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्म दधातु मे । ब्रह्मस्व  
स्वाहा ॥ इदं ब्रह्मणो—इदन्न मम ॥ १२ ॥ अथर्व० कां०  
१६ ॥ सू० ४२ । ४३ ॥

ओं प्राणापानव्यानोदानसमाना मे शुध्यन्ताम् । ज्यो-  
तिरहं विरजा विपाप्मा भूयासः स्वाहा ॥ १ ॥ वाङ्मन-  
घक्षुःश्रोत्रजिह्वाघ्राणरेतोबुद्ध्याकृतिः संकल्पा मे शुध्य-  
न्ताम् । ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासः स्वाहा ॥ २ ॥  
शिरःपाणिपादौ पृष्ठोरुदरजङ्घाशिश्रोपस्थपायव्रो मे शुध्य-  
न्ताम् । ज्योति० ॥ ३ ॥ त्वक्चर्ममांसरुधिरमेदोम-  
ज्जास्नायव्रोऽस्थीनि मे शुध्यन्ताम् । ज्योति० ॥ ४ ॥  
शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा मे शुध्यन्ताम् । ज्योति० ॥ ५ ॥  
पृथिव्यग्नेजोवायुराकाशा मे शुध्यन्ताम् । ज्योति० ॥ ६ ॥  
अन्नमयशान्मयमनोमयविज्ञानमयानन्दमया मे शुध्यन्ताम् ।  
ज्योति० ॥ ७ ॥ विविष्टये स्वाहा ॥ ८ ॥ कपोत्काय स्वा-  
हा ॥ ९ ॥ उच्छिष्ट पुरुष हरित लोहित पिङ्गलाक्षि देहि  
देहि ददापयिता मे शुध्यताम् † । ज्योति० ॥ १० ॥  
ओं मनोवाक्कायकर्माणि मे शुध्यन्ताम् । ज्योति० ॥ ११ ॥  
अव्यक्रमाविरहद्वारैर्ज्योति० ॥ १२ ॥ आत्मा मे शुध्यताम् ।  
ज्योति० ॥ १३ ॥ अन्तरात्मा मे शुध्यताम् । ज्योति०

\* आकृतिरिति विसर्गान्तः पाठः तैत्तिरीयारण्यके ।

† पादपृष्ठोभयमध्ये पादवपदमधिकं तैत्तिरीयारण्यके ।

‡ तैत्तिरीयार० प्र० १० । अनु० २१-६० ॥

॥ १४ ॥ परमात्मा मे शुध्यताम् । ज्योतिरहं विरजा विषा-  
प्मा भूयासः१ स्वाहा \* ॥ १५ ॥

इन १५ मन्त्रों में से एक २ करके भात की आहुति देनी ।  
पश्चात् निम्नलिखित मन्त्रों से ३५ वृताहुति देवें ॥

ओमग्नये स्वाहा ॥ १६ ॥ ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यः  
स्वाहा ॥ १७ ॥ ओं ध्रुवाय भूमाय स्वाहा ॥ १८ ॥ ओं  
ध्रुवक्षितये स्वाहा ॥ १९ ॥ ओमच्युतक्षितये स्वाहा ॥ २० ॥  
ओमग्नये स्विष्टकृते स्वाहा ॥ २१ ॥ ओं धर्माय स्वाहा  
॥ २२ ॥ ओमधर्माय स्वाहा ॥ २३ ॥ ओमद्भ्यः स्वाहा  
॥ २४ ॥ ओमोषधिवनस्पतिभ्यः स्वाहा ॥ २५ ॥ ओं  
रक्षोदेवजनेभ्यः स्वाहा ॥ २६ ॥ ओं गृह्णाभ्यः स्वाहा  
॥ २७ ॥ ओमवसानेभ्यः स्वाहा ॥ २८ ॥ ओमवसानप-

१ तैत्तिरीयार० प्र० १० । अनु० ६६, पशियाटिक सोसाइटी बङ्गाल  
में मुद्रित ।

\* ( प्राणपान ) इत्यादि से ले के ( परमात्मा मे शुध्यताम् ) इत्य-  
न्त मन्त्रों से संन्यासी के लिये उपदेश है । अर्थात् जो संन्यासाश्रम  
प्रवृत्त करे वह धर्माचरण, सत्यापदेश, योगाभ्यास, शम, दम, शान्ति,  
सुशीलतादि, विद्याविज्ञानादि शुभ गुण कर्म स्वभावों से सहित, होकर,  
परमात्मा को अपना सहायक मान कर, अत्यन्त पुरुषार्थ से शरीर प्राण  
मन इन्द्रियादि को अशुद्ध व्यवहार से हटा शुद्ध व्यवहार में चला के,  
पक्षपात कपट अधर्म व्यवहारों को छोड़, अन्य के दोष, पदार्थ आर, उप-  
देश से छुड़ाकर, स्वयं आनन्दित होके, सब मनुष्यों को आनन्द  
प्रवृत्ता रहे ।



शिर पर पुरुषसूक्त के मन्त्रों से १०८ ( एकसौ आठ ) बार अभिषेक करे। पुनः पृष्ठ २४ में लि० आचमन और प्राणायाम करके, हाथ जोड़, वेदी के सामने नेत्रान्मीलन कर, मन से—

ओं ब्रह्मणे नमः । ओमिन्द्राय नमः । ओं सूर्याय नमः । ओं सोमाय नमः । ओमात्मने नमः । ओमन्तरात्मने नमः ॥

इन छः मन्त्रों को जप के—

ओमात्मने स्वाहा । ओमन्तरात्मने स्वाहा । ओं परमात्मने स्वाहा । ओं प्रजापतये स्वाहा ॥

इन ४ ( चार ) मन्त्रों से ४ ( चार ) आज्याहुति देकर, कार्यकर्त्ता संन्यास ग्रहण करनेवाला पुरुष पृ० १४६ में लि० मधुपर्क की क्रिया करे, तदनन्तर प्राणायाम करके:—

ओं भूः सावित्रीं प्रविशामि तत्सवितुर्वरेण्यम् ॥ ओं भुवः सावित्रीं प्रविशामि भर्गो देवस्य धीमहि ॥ ओं स्वः सावित्रीं प्रविशामि धियो यो नः प्रचोदयात् ॥ ओं भूर्भुवः स्वः सावित्रीं प्रविशामि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

इन मन्त्रों को मन से जपे ॥

ओमग्नये स्वाहा । ओं भूः प्रजापतये स्वाहा । ओमिन्द्राय स्वाहा । ओं प्रजापतये स्वाहा । ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा । ओं ब्रह्मणे स्वाहा । ओं प्राणाय स्वाहा । ओमपानाय स्वाहा । ओं व्यानाय स्वाहा । ओं उदानाय



स्वाहा । ओं समानाय स्वाहा ॥

इन मन्त्रों से वेदी में आज्याहुति देके:—

ओ भूः स्वाहा ॥

इस मन्त्र से पूर्णाहुति करके:—

पुत्रपणायश्च वित्तपणायश्च लोकपणायश्चोत्थायाश्च  
भिचात्र्यं चरन्ति \* ॥ श० कां० १४ ॥

पुत्रपणा वित्तपणा लोकपणा मया परित्यक्ता मत्तः  
सर्वभूतेभ्योऽभयमस्तु स्वाहा \* ॥

इस वाक्य को बाल के सब के सामने जल को भूमि में  
छाड़ देवे । पीछे नाभिमात्र जल में पूर्वाभिमुख खड़ा रहकर—

ओं भूः सावित्रीं प्रविशामि तत्सवितुर्वरेण्यम् । ओं  
भुवः सावित्रीं प्रविशामि मर्गा देवस्य धीमहि । ओं स्वः  
सावित्रीं प्रविशामि धियो यो नः प्रचोदयात् । ओं भूर्भुवः  
स्वः सावित्रीं प्रविशामि परो रजसे सावदाम् ॥

इसका मन से जप करके, प्रणवार्थ परमात्मा का ध्यान  
करके, पूर्वोक्त (पुत्रपणायश्च०) इस समय कण्डिका को  
बाल के, प्रणव मन्त्रोच्चारण कर—

पुत्रादि के मोह, वित्तादि पदार्थों के मोह और लोकस्थ प्रतिष्ठा  
की इच्छा से मन को हटाकर परमात्मा में आत्मा को दृढ़ करके जो भिचा-  
त्र्य करने हैं वे ही सब को सत्यापदेश से अभयदान देते हैं अर्थात्  
इन्होंने हाथ में जल ले के मैंने आज से पुत्रादि का तथा वित्त का मोह  
और लोक में प्रतिष्ठा की इच्छा करने का त्याग कर दिया और मुझ से  
सब भूत प्राणियों का अभय प्राप्त होवे यह मेरी सत्य वाणी है ॥

ओं भूः संन्यस्तं मया । ओं भुवः संन्यस्तं मया ।  
ओं स्वः संन्यस्तं मया ॥

इस मन्त्र का मन से उच्चारण करे । तत्पश्चात् जल से अञ्जलि भर, पूर्वाभिमुख होकर, संन्यास लेनेवाला:—

ओं अमयं सर्वभूतेभ्यो मत्तः स्वाहा ॥

इस मन्त्र से दोनों हाथ की अञ्जलि को पूर्वदिशा में छोड़ देवे ।

येना सहस्रं वहसि येनाग्ने सर्ववेदसम् । तेनेमं यज्ञं  
वो वह स्वदेवेषु गन्तवे \* ॥ १ ॥ अथर्व० कां० ६ । सू०  
॥ मं० १७ ॥

और इसी पर स्मृति है—

प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सर्ववेदसदेक्षिणाम् ।

आत्मन्यग्नीन् समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेद् गृहात् ॥ १ ॥  
मनु० ॥

इस श्लोक का अर्थ पहिले लिख दिया है ॥

इसके पश्चात् मौन करके शिखा के लिये जो पांच वा सात केश रक्खे थे उनको एक एक उखाड़ और यज्ञोपवीत उतार कर हाथ में ले जल की अञ्जलि भर:—

\* हे ( अग्ने ) विद्वन् ! ( येन ) जिससे ( सहस्रम् ) सब संसार को अग्नि धारण करता है और ( येन ) जिससे तू ( सर्ववेदसम् ) गृहो-  
क्षमस्थ पदार्थमोह, यज्ञोपवीत और शिखा आदि को ( वहसि ) धारण करता है उनको छोड़ ( तेन ) उस त्याग से ( नः ) हमको ( इमम् ) यह संन्यासरूप ( स्वाहा ) सुख देने हारे ( यज्ञम् ) प्राप्त होने योग्य अञ्ज को ( देवेषु ) विद्वानों में ( गन्तवे ) जाने को ( वह ) प्राप्त हो ॥

ओमापो वै सर्वा देवताः स्वाहा ॥ ओं भूः स्वाहा ॥

इन मन्त्रों से शिखा के बाल और यज्ञोपवीत सहित जला-  
पजलि को जल में होम कर देवे। उसके पश्चात् आचार्य शिष्य  
को जल से निकाल के कापाय वस्त्र की कौपीन, कटिवस्त्र,  
उपवस्त्र, अङ्गोष्ठा प्रीतिपूर्वक देवे। और पृ० ६८ में लि० (यो मे  
दृग्दः०) इस मन्त्र से दृग्द धारण करके आत्मा में आहव-  
नीयादि अग्नियों का आरोपण करे।

यो विद्याद् ब्रह्म प्रत्यक्षं परंषि यस्य संभारा ऋचो  
यस्यानुक्यम् (१) ॥ १ ॥ सामानि यस्य लोमानि यजु-  
हृदयमुच्यते परिस्तरणमिद्विः (२) ॥ २ ॥ यद्वा अति-  
थिपतिरतिथीन् प्रति पश्यति देवयजनं प्रक्षते (३) ॥ ३ ॥

(१)-(यः) जो पुरुष (प्रत्यक्षम्) साक्षात्कारता से (ब्रह्म)  
परमात्मा को (विद्यात्) जाने (यस्य) जिसके (परंषि) कठोर स्वभाव  
प्रादि (संभारा) होम करने के साकल्य और (यस्य) जिसके (ऋचः)  
एवार्थ सत्यभाषण सत्यापदेश और ऋग्वेद ही (अनुक्यम्) अनुकूलता  
से देने के योग्य वचन है वही संन्यास ग्रहण करे ॥ १ ॥

(२)-(यस्य) जिसके (सामानि) सामवेद (लोमानि) लोम के  
समान (यजुः) यजुर्वेद जिसके (हृदयम्) हृदय के समान (उच्यते)  
बड़ा जाता है (परिस्तरणम्) जो सब ओर से शास्त्र आसन आदि  
सामग्री (हविरित्) होम करने योग्य के समान है वह संन्यास ग्रहण  
करने में योग्य होता है ॥ २ ॥

(३)-(वा) वा (यत्) जो (अतिथिपतिः) अतिथियों का

(१) और (२) मन्त्रों के हिन्दी अर्थ संवत् १९४१ की कृपि-  
संस्कारविधि में नहीं हैं।

यदाभिवदति, दीक्षामुपैति यदुदकं याचत्यपः प्र णयति  
 ( ४ ) ॥ ४ ॥ या एव यज्ञ आपः प्रणीयन्ते ता एव ताः  
 ( ५ ) ॥ ५ ॥ यदावसथान् कल्पयन्ति सदोहविधानान्येव  
 वत्कल्पयन्ति ( ६ ) ॥ ६ ॥ यदुपस्तृणन्ति बर्हिरेव तत्  
 ( ७ ) ॥ ७ ॥ तेषामासन्नानामतिथिरात्मन् जुहोति ( ८ )

पालन करनेहारा ( अतिथीम् ) अतिथियों के प्रति ( प्रतिपश्यति ) देखता है वही विद्वान् संन्यासियों में ( देवयजनम् ) विद्वानों के यजन करने के समान ( प्रेक्षते ) ज्ञानदृष्टि से देखता और संन्यास लेने का अधिकारी होता है ॥ ३ ॥

( ४ ) और ( यत् ) जो संन्यासी ( अभिवदति ) दूसरे के साथ खेवाद वा दूसरे को अभिवादन करता है वह जानो ( दीक्षाम् ) दीक्षा को ( उपति ) प्राप्त होता है ( यत् ) जो ( उदकम् ) जल की ( याचति ) याचना करता है वह जानो ( अपः ) प्रणीता आदि में जल को ( प्रणयति ) डालता है ॥ ४ ॥

( ५ )—( यज्ञे ) यज्ञ में ( याः, एव ) जिन्हीं ( आपः ) जलों का ( प्रणीयन्ते ) प्रयोग किया जाता है ( ताः, एव ) वे ही ( ताः ) पात्र में रखे जल संन्यासी की यज्ञस्थ जलक्रिया है ॥ ५ ॥

( ६ )—संन्यासी ( यत् ) जो ( आवसथान् ) निवास का स्थान ( कल्पयन्ति ) कल्पना करते हैं वे ( सदः ) यज्ञशाला ( हविर्धानान्येव ) हविष् के स्थापन करने के ही पात्र ( तत् ) वे ( कल्पयन्ति ) समर्थित करते हैं ॥ ६ ॥

( ७ )—और ( यत् ) जो संन्यासी लोग ( उपस्तृणन्ति ) विछौने आदि करते हैं ( बर्हिरेव, तत् ) वह कुशपिंजूली के समान है ॥ ७ ॥

( ८ )—और जो ( तेषाम् ) उन ( आसन्नानाम् ) समीप बैठने-हारों के निकट बैठा हुआ ( अतिथिः ) जिसकी कोई नियत तिथि न हो

मग्नीत् । यावद् ध्रियते सा दीक्षा यदश्नाति तद्वि, यत्पि-  
पति तदस्य सोमपानं, यद्रमते तदुपसदो, यत्सञ्चरत्युपवि-  
शत्युत्तिष्ठते च स प्रवर्ग्यो, यन्मुखं तदाहवनीयो, या व्या-  
हृतिराहुतिर्यदस्य विद्वानं तज्जुहोति, यत्सायं प्रातरत्ति

प्रकार संन्यास ग्रहण किये हुए ( तस्य ) उस ( विदुषः ) विद्वान् संन्यासी  
के संन्यासाश्रमरूप ( यज्ञस्य , अच्छे प्रकार अनुष्ठान करने योग्य यज्ञ  
का ( यजमानः ) पति ( आत्मा ) स्वरूप है, और जो ईश्वर, वेद  
और सत्यधर्माचरण, परोपकार में ( भद्रा ) सत्य का धारणरूप इद  
मीति है वह उसकी ( पत्नी ) स्त्री है, और जो संन्यासी का ( शरीरम् )  
शरीर है वह ( इध्मम् ) यज्ञ के लिये इन्धन है, और जो उसका ( उरः )  
बसःस्थल है वह ( वेदिः ) कुण्ड, और जो उसके शरीर पर ( लोमानि )  
तेल हैं वे ( बर्हिः ) कुशा हैं, और जो ( वेदः ) वेद और उनका शब्दा-  
संन्यन्ध जानकर आचरण करना है वह संन्यासी की ( शिखा ) चोटी  
है, और जो संन्यासी का ( हृदयम् ) हृदय है वह ( यूपः ) यज्ञ का स्त-  
म्भ है, और जो उसके शरीर में ( कामः ) काम है वह ( आज्यम् )  
ज्ञान अग्नि में होन करने का पदार्थ है और जो ( मन्युः ) संन्यासी में  
स्रोध है वह ( पशुः ) निवृत्त करने अर्थान् शरीर के मलवत् छोड़ने के  
योग्य है, और जो संन्यासी ( तपः ) सत्यधर्मानुष्ठान प्राणायामादि योगा-  
भ्यास करना है वह ( अग्निः ) जानो वेदी का अग्नि है, जो संन्यासी  
( इमः ) अधर्माचरण ने इन्द्रियों को रोक के धर्माचरण में स्थिर रख के  
बचाता है वह ( शनयिना ) जानो दृष्टों को दृष्ट देनेवाला सभ्य है और  
जो संन्यासी की ( वाक् ) सत्योपदेश करने के लिये वाणी है वह जानो  
सब ननुष्यों को ( दक्षिणा ) अभयदान देना है, जो संन्यासी के शरीर  
में ( प्राणः ) प्राण है वह ( होता ) होता के समान, जो ( चक्षुः ) चक्षु  
है वह ( उद्गाता ) उद्गाता के तुल्य, जो ( मनः ) मन है वह ( अध्वर्युः )

तत्समिधं, यत्प्रातर्मध्यन्दिनं सायं च तानि सवनानि ।  
 ये अहोरात्रे ते दर्शपौर्णमासौ, ये ऽर्द्धमासाश्च मासाश्च ते  
 चातुर्मास्यानि, य ऋतवस्ते पशुबन्धा, ये संवत्सराश्च परिव-  
 त्सराश्च ते ऽर्हणाः, सर्ववेदसं वा एतत्सत्रं, यन्मरणं तदव-  
 भृथः एतद्वै जरामर्यमग्निहोत्रं सत्रं, य एवं विद्वानुदगयने

अध्वयु के समान, जो ( श्रोत्रम् ) श्रोत्र है वह ( ब्रह्मा ) ब्रह्मा और ( अग्नीत् )  
 अग्नि लानेवाले के तुल्य ( यावत्प्रियते ) जितना कुछ संन्यासी धारण  
 करता है ( सा ) वह ( दीक्षा ) दीक्षाग्रहण, और ( यत् ) जो संन्यासी  
 ( अश्नाति ) खाता है ( तद्धविः ) वह घृतादि साकल्य के समान,  
 ( यत्, पिबति ) और जो वह जल दुग्धादि पीता है ( तदस्य, सोमपानम् )  
 वह इसका सोमपान है और ( यद्रमते ) वह जो इधर उधर भ्रमण  
 करता है ( तदुपसदः ) वह उपसद उपसामग्री, ( यत्संचरत्युपविशत्यु-  
 तिष्ठते ) जो वह गमन करता, बैठता और उठता है ( स प्रवर्ग्यः ) वह  
 इसका प्रवर्ग्य है, ( यन्मुखम् ) जो इसका मुख है ( तदाहवनीयः ) वह  
 संन्यासी को आहवनीय अग्नि के समान, ( या व्याहृतिराहुतिर्यदस्य  
 विज्ञानम् ) जो संन्यासी का व्याहृति का उच्चारण करना वा जो इसका  
 विज्ञान आहुतिरूप है ( तज्जुहोति ) वह जानो होम कर रहा है ( यत्सायं,  
 प्रातरत्ति ) संन्यासी जो सायं और प्रातःकाल भोजन करता है ( तत्स-  
 मिधम् ) वे समिधा हैं, ( यत्प्रातर्मध्यन्दिनं सायं च ) जो संन्यासी प्रातः  
 मध्याह्न और सायंकाल में कर्म करता है ( तानि सवनानि ) वे तीन सवन  
 ( ये, अहोरात्रे ) जो दिन और रात्रि हैं ( ते दर्शपौर्णमासौ ) वे संन्यासी  
 के पौर्णमासेष्टि और अमावासेष्टि हैं, ( ये ऽर्द्धमासाश्च, मासाश्च ) जो  
 कृष्ण शुक्लपक्ष और महीने हैं ( ते चातुर्मास्यानि ) वे संन्यासी के  
 चातुर्मास्य याग हैं, ( ये ऋतवः ) जो वसन्तादि ऋतु हैं ( ते पशुबन्धाः )  
 वे जानो संन्यासी के पशुबन्ध अर्थात् ६ पशुओं का बांधना- रखना है।

प्रमीयते देवानामेव महिमानं गत्वाऽऽदित्यस्य सायुज्यं गन्ध-  
 स्यथ यो दक्षिणे प्रमीयते पितृणामेव महिमानं गत्वा चन्द्रससः  
 सायुज्यं सलोकतामामोत्ये, तौ वै सूर्याचन्द्रमसोर्महिमानौ  
 ब्राह्मणो विद्वानभिजयति, तस्माद् ब्राह्मणो महिमानमाप्नोति,  
 तस्माद् ब्रह्मणो महिमानमित्युपनिषत् ॥ तैत्ति० प्रपा० १० ।  
 अनु० ६४ ॥

( ये संवत्सराश्च परिवत्सराश्च ) जो संवत्सर और परिवत्सर अर्थात् वर्ष  
 वर्षान्तर हैं ( तेऽहर्गणाः ) वे संन्यासी के अहर्गण दो रात्रि वा तीन रात्रि  
 आदि के घत हैं, जो ( सर्ववेदसं, वै ) सर्वस्व दक्षिणा अर्थात् शिक्षा  
 यज्ञ यज्ञोपवीत आदि पूर्वाश्रमचिह्नों का त्याग करना है ( पृतत्सत्रम् )  
 वह सब से बड़ा यज्ञ है, ( यन्मरणम् ) जो संन्यासी का मृत्यु है ( तदव-  
 शृत्यः ) वह यज्ञान्तस्नान है, ( पृतद्वै जरामयमग्निहोत्रं सत्रम् ) यही  
 शरावस्था और मृत्युपर्यन्त अर्थात् यावत् जीवन है तावत् सत्योपदेश योगा-  
 ध्यासादि संन्यास के धर्म का अनुष्ठान अग्निहोत्ररूप बड़ा दीर्घ यज्ञ है,  
 ( य एवं शिद्धानुदययने० ) जो इस प्रकार विद्वान् संन्यास लेकर विज्ञान  
 पांगाम्यास करके शरीर छोड़ता है वह विद्वानों ही के महिमा को प्राप्त  
 होकर स्वप्रकाशस्वरूप परमात्मा के संग को प्राप्त होता है और जो  
 पांग विज्ञान से रहित है सो सांसारिक दक्षिणाधनरूप व्यवहार में मृत्यु  
 को प्राप्त होता है । वह पुनः २ साता पित्राद्यौ ही के महिमा को प्राप्त  
 होकर चन्द्रलोक के समान वृद्धि क्षय को प्राप्त होता है । और जो इन  
 दोनों के महिमाओं को विद्वान् ब्राह्मण अर्थात् संन्यासी जीत लेता है वह  
 उससे परे परमात्मा के महिमा को प्राप्त होकर मुक्ति के समय पर्यन्त  
 जोत मुख को भागता है ।

## संस्कारविधि:

### अथ संन्यासे पुनः प्रभाणानि

न्यास \* इत्याहुर्मनीषिणो ब्रह्माणम् । ब्रह्मा वि

\* ( न्यास इत्याहुर्मनीषिणः ) इस अनुवाक का अर्थ सुगम है इस वार्थ कहते हैं। न्यास अर्थात् जो संन्यास शब्द का अर्थ पूर्व ये उस रीति से जो संन्यासी होता है वह परमात्मा का उपासक वह परमेश्वरं सूर्यादि लोकों में न्यास और पूर्ण है, कि जिसके से सूर्य तपता है। उस तपते से वर्षा, वर्षा से ओषधी वनरपत्ति उत्पत्ति, उनसे अन्न, अन्न से प्राण, प्राण से बल, बल से तपः प्राणायाम योगाभ्यास, उससे श्रद्धा सत्यधारण में प्रीति, उससे बुद्धि से विचारशक्ति, उससे ज्ञान, ज्ञान से शान्ति, शान्ति से चेतचित्त से स्मृति, स्मृति से पूर्वापर का ज्ञान, उससे विज्ञान और जिससे आत्मा को संन्यासी जानता और जेनाता है। इसलिये अन्नदान जिससे प्राण बल विज्ञानादि होते हैं। जो प्राणों का आत्मा, जिससे सब जगत् ओत प्रोत व्याप्त हो रहा है वह सब जगत् का कर्ता, पूर्वकल्प और उत्तरकल्प में भी जगत् को बनाता है। उसके जानने इच्छा से उसको जान कर हे संन्यासिन् ! तू पुनः २ मृत्यु को प्राप्त हो। किन्तु मुक्ति से पूर्ण सुख को प्राप्त हो। इसलिये सब तपों के सब से पृथक्, उत्तम संन्यास को कहते हैं। हे परमेश्वर ! जो तू स्ववास करता हुआ विभु है, तू प्राण का प्राण, सबका सन्धान करने विरव का स्रष्टा धर्ता, सूर्यादि को तेजदाता है। तू ही अग्नि से ते तू ही विद्यादाता, तू ही सूर्य का कर्ता, तू ही चन्द्रमा के प्रकाश का शक है। वह सब से बड़ा पूजनीय देव है। ( ओम् ) इस मन्त्र व से उच्चारण करके परमात्मा में आत्मा को युक्त करे। जो इस की प्राह्य महोत्तम विद्या को उन्न प्रकार से जानता है वह संन्यासी आत्मा के महिमा को प्राप्त होकर आनंद में रहता है।



अर्थः—(दत्ते) सर्वदुःखविदारक परमात्मन् ! तू (मा) मुझको संन्यासमार्गमें (दंड) बड़ा । हे सर्वमित्र ! तू (मित्रस्य) सर्व सुहृद् प्राप्त पुरुष की (चक्षुषा) दृष्टि से (मा) मुझको सब का मित्र बना जिससे (सर्वाणि भूतानि) प्राणिमात्र मुझको मित्र की दृष्टि से (समीक्षन्ताम्) देखें और (अहम्) मैं (मित्रस्य) मित्र की (चक्षुषा) दृष्टि से (सर्वाणि भूतानि) सब जीवों को (समीक्षे) देखूँ इस प्रकार आप ही बना और अपने पुरुषार्थ से हम लोग एक दूसरे को (मित्रस्य चक्षुषा) सुहृद्भाव की दृष्टि से (समीक्षामहे) देखते रहें ॥१॥ हे (अग्ने) स्वप्रकाशस्वरूप सब दुःखों के दाहक (देव) सब सुखों के दाता परमेश्वर ! (विद्वान्) आप (राये) योग विद्वानरूप धन की प्राप्ति के लिये (सुपथा) वदोक्त धर्ममार्ग में (अस्मान्) हम को (विश्वानि) सम्पूर्ण (वयुनानि) प्रजात और उत्तम कर्मों को (नय) रूपा से प्राप्त कीजिये और (अस्मान्) हम से (जुहुषाम्) कुटिल पक्षपातसहित (पक्ष) अपराध पापकर्म को (युयोजि) दूर रखिये और इस अधर्माचरण से हम को सदा दूर रखिये इसलिये (ते) आप ही की (भूयिष्याम्) बहुत प्रकार (नम उक्तिम्) नमस्कारपूर्वक प्रार्थना को नित्य (विश्रम) किया करें ॥ २ ॥ (यः) जो संन्यासी (तु) पुनः (आत्मज्ञेय) आत्मा अर्थात् परमेश्वर ही में तथा अपने आत्मा के तुल्य (सर्वाणि भूतानि) सम्पूर्ण जीव और जगत्स्थ पदार्थों को (अनुपश्यति) अनुकूलता से देखता है (च) और (सर्वभूतेषु) सम्पूर्ण प्राणी अध्यात्मिकों में (आत्मानम्) परमात्मा को देखता है (ततः) इस कारण वह किसी व्यवहार में (न, त्रिचिकित्सति) संशय का प्राप्त नहीं होता अर्थात् परमेश्वर को सर्वव्यापक सर्वान्तर्यामी सर्वसाक्षी जान के अपने आत्मा के तुल्य सब प्राणिमात्र को

इनि लाभ सुख दुःखादि व्यवस्था में देखे वही उत्तम संन्यास-धर्म को प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ ( विज्ञानतः ) विज्ञानयुक्त संन्यासी का ( यस्मिन् ) जिस पक्षपातरहित धर्मयुक्त संन्यास में ( सर्वाणि, भूतानि ) सब प्राणिमात्र ( आत्मैव ) आत्मा ही के तुल्य जानना अर्थात् जैसा अपना आत्मा अपने को प्रिय है वही प्रकार का निश्चय ( अभूत् ) होता है ( तत्र ) उस संन्यासाश्रम में ( एकत्वमनुपश्यतः ) आत्मा के एक भाव को देखनेवाले संन्यासी को ( को, मोहः ) कौनसा मोह और ( कः, शोकः ) कौनसा शोक होता है अर्थात् न उसको किसी से कभी मोह और न शोक होता है इसलिये संन्यासी मोहशोकादि दोषों से रहित होकर सदा सब से उपकार करता रहे ॥ ४ ॥ इस प्रकार परमात्मा की स्तुति प्रार्थना और धर्म में दृढ़ लिप्ठा करके जो ( भूतानि ) सम्पूर्ण पृथिव्यादि भूतों में ( परीत्य ) व्याप्त ( लोकान् ) सम्पूर्ण लोकों में ( परीत्य ) पूर्ण हो और ( सर्वाः ) सब ( प्रादिशो, दिशश्च ) दिशा और उपदिशाओं में ( परीत्य ) व्यापक होके स्थित है ( ऋतस्य ) सत्यकारण के योग से ( प्रथमजाम् ) सब महत्तत्त्वादि सृष्टि को धारण करके पालन कर रहा है उस ( आत्मानम् ) परमात्मा को संन्यासी ( आत्मना ) स्वात्मा से ( उपस्थाय ) समीप स्थिर होकर उसमें ( अभिसंविवेश ) प्रतिदिन समाप्रियोग से प्रवेश किया करे ॥ ५ ॥ हे संन्यासी लोगो ! ( यस्मिन् ) जिस ( परमे ) सर्वोत्तम ( व्योमन् ) आकाशवत् व्यापक ( अक्षरे ) नाशरहित परमात्मा में ( ऋचा ) ऋग्वेदादि वेद और ( विश्वे ) सब ( देवाः ) पृथिव्यादि लोक और सस्रस्त विद्वाव ( अग्निपेदुः ) स्थित हुए और होते हैं ( यः ) जो जन ( ततः ) उस व्यापक परमात्मा को ( न, वेद ) नहीं जानता वह ( ऋचा ) वेदादि शास्त्र पढ़ने से ( किं, करिष्यति ) क्या सुख व लाभ कर लेगा

अर्थात् विद्या के बिना परमेश्वर का ज्ञान कभी नहीं होता और विद्या पढ़ के भी जो परमेश्वर को नहीं जानता और न उसकी आज्ञा में चलता है वह मनुष्य शरीर धारण करके निष्फल चला जाता है और (ये) जो विद्वान् लोग (तत्) उस ब्रह्म को (विदुः) जानते हैं (ते, इमे, इत्) वे वे ही उस परमात्मा में (समासत) अच्छे प्रकार समाधियोग से स्थिर होते हैं ॥ ६ ॥ (समाधिनिर्धूतमलस्य) समाधियोग से निर्मल (चतसः) चित्त के सम्बन्ध से (आत्मनि) परमात्मा में (निवेशितस्य) निश्चल प्रवेश कराये हुये जीव को (यत्) जो (सुखम्) सुख (भवेत्) हावे वह (गिरा) वाणी से (वर्णयितुम्, न, शक्यत) कहा नहीं जा सकता क्योंकि (तदा) तब वह समाधि में स्वयं स्थित जीवात्मा (तत्) उस ब्रह्म को (अन्तःकरणे) शुद्ध अन्तःकरण से (गृह्यते) ग्रहण करता है, वह वर्णन करने में पूर्णरूप से कभी नहीं आ सकता. इसलिये संन्यासी लोग परमात्मा में स्थित रहें और उसकी आज्ञा अर्थात् प्रज्ञापानरहित न्याय धर्म में स्थित होकर सत्योपदेश सत्यविद्या के प्रचार से सब मनुष्यों को सुख पहुंचाता रहे ॥

समानाद् ब्राह्मणो नित्यमुद्विजेत विपादिव ।

अमृतस्यैव चाकाङ्क्षद्विमानस्य सर्वदा ॥ १ ॥

यमान् संवत् सततं न नियमान् केवलान् बुधः ।

यमान् पतत्यङ्घ्रिणां नियमान् केवलान् भजन् ॥ २ ॥

अर्थ:—संन्यासी जगत् के सम्मान से विष के तुल्य डरता रहे और अमृत के समान अपमान की चाहना करता रहे, क्योंकि जो अपमान से डरता और मान की इच्छा करता है

वह प्रशंसक होकर मिथ्यावादी और पतित होजाता है, इस-  
 लिये चाहे निन्दा, चाहे प्रशंसा, चाहे मान, चाहे अपमान, चाहे  
 जीना, चाहे मृत्यु, चाहे हानि, चाहे लाभ हो, चाहे कोई  
 श्रेयिणी करे, चाहे वैर बांधे, चाहे अन्न पान वस्त्र उत्तम स्थान  
 न मिले वा मिले, चाहे शीत उष्ण कितना ही क्यों न हो इ-  
 त्यादि सब का सहन करे, और अधर्म का खण्डन तथा धर्म  
 का मण्डन सदा करता रहे, इससे परे उत्तम धर्म दूसरे किसी  
 को न माने, परमेश्वर से भिन्न किसी की उपासना न करे, न  
 वेदविरुद्ध कुछ माने, परमेश्वर के स्थान में सूक्ष्म वा स्थूल  
 तथा जड़ और जीव को भी कभी न माने, आप सदा परमेश्वर  
 को अपना स्वामी माने और आप सेवक बना रहे वैसा ही उ-  
 पदेश अन्य को भी किया करे, जिस २ कर्म से गृहस्थों की  
 उन्नति हो वा माता, पिता, पुत्र, स्त्री, पति, बन्धु, बहिन, मित्र,  
 षड़ोसी, नौकर, बड़े और छोटों में विरोध छूट कर प्रेम बड़े  
 उस २ का उपदेश करे, जो वेद से विरुद्ध मतमतान्तर के ग्रंथ  
 वायविल, कुरान, पुराण, मिथ्याभिलाष तथा काव्यालङ्कार किं  
 जिनके पढ़ने सुनने से मनुष्य विषयी और पतित होजाते हैं  
 उन सब का निषेध करता रहे, विद्वानों और परमेश्वर से  
 भिन्न न किसी को देव तथा विद्या योगाभ्यास सत्सङ्ग और  
 सत्यभाषणादि से भिन्न न किसी को तीर्थ और विद्वानों की  
 मूर्तियों से भिन्न पाषाणादि मूर्तियों को न माने न मनवावे  
 वैसा ही गृहस्थों को माता, पिता, आचार्य, अतिथि, स्त्री के  
 लिये विवाहित पुरुष और पुरुष के लिये विवाहित स्त्री की  
 मूर्ति से भिन्न किसी की मूर्ति को पूज्य न समझावे किन्तु  
 वैदिकमत की उन्नति और वेदविरुद्ध पाखण्डमतों के खण्डन  
 करने में सदा तत्पर रहे। वेदादि शाखाओं में श्रद्धा और तदि-  
 रुद्ध ग्रन्थों वा मतों में श्रद्धा किया कराया करे। आप श्रद्धा

गुण कर्म स्वभावयुक्त होकर सबको इसी प्रकार के करने में प्रयत्न किया करे और जो पूर्वोक्त उपदेश लिखे हैं उन २ अपने संन्यासाश्रम के कर्तव्य कर्मों को किया करे। खण्डनीय कर्मों का खण्डन करना कभी न छोड़े। आसुर अर्थात् अपने को ईश्वर ब्रह्म माननेवालों का भी यथावत् खण्डन करता रहे। परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव और न्याय आदि गुणों का प्रकाश करता रहे। इस प्रकार कर्म करता हुआ स्वयं आनन्द में रहकर सब को आनन्द में रखे। सर्वदा (अहिंसा) निर्वैरता, (सत्यम्) सत्य बोलना सत्य मानना सत्य करना, (अस्तेयम्) मन कर्म वस्त्रन से अन्याय करके परपदार्थ का ग्रहण न करना चाहिये न किसी को करने का उपदेश करे, (ब्रह्मचर्यम्) सदा जितेन्द्रिय होकर अष्टविध मैथुन का त्याग रख के वीर्य की रक्षा और उन्नति करके चिरञ्जीवी होकर सब का उपकार करता रहे, (अपरिग्रहः) अभिमानादि दोष रहित किसी संसार के धनदि पदार्थों में मोहित होकर कभी न फँसे। इन ५ (पांच) धर्मों का सेवन सदा किया करे। और इन के साथ ५ (पांच) नियम अर्थात् (शौच) बाहर भीतर से पवित्र रहना, (सन्तोष) पुरुषार्थ करते जाना और हानि लाभ में प्रसन्न और प्रसन्न न होना, (तपः) सदा पक्षपातरहित न्यायरूप धर्म का सेवन प्राणायामादि योगाभ्यास करना, (स्वाध्याय) सदा प्रणव का जप अर्थात् मन में चिन्तन और उसके अर्थ ईश्वर का विचार करते रहना, (ईश्वरप्रणिधान) अर्थात् अपने आत्मा को वेदाक्त परमेश्वर की आज्ञा में समाप्त करके परमानन्द परमेश्वर के सुख को जीता हुआ भागकर शरीर छोड़ के सर्वानन्दयुक्त मोक्ष को प्राप्त होना संन्यासियों के मुख्य कर्म हैं। हे जगदीश्वर सर्वशक्तिमन् सर्वान्तर्यामिन् दयालो न्यायकारिन् सच्चिदानन्दानन्त नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभाव अजर

आमर पवित्र परमात्मन् ! आप अपनी कृपा से संन्यासियों को पूर्वोक्त कर्मों में प्रवृत्त रख के परममुक्ति सुख को प्राप्त कराते रहिये ।

इति संन्याससंस्कारविधिः समाप्तः ॥

### अन्त्येष्टिकर्मविधिं वक्ष्यामः

अन्त्येष्टि कर्म उसको कहते हैं कि जो शरीर के अन्त का संस्कार है जिसके आगे उस शरीर के लिये कोई भी अन्य संस्कार नहीं है । इसी को नरमेध पुरुषमेध नरयाग पुरुषयाग भी कहते हैं ॥

भस्मान्तं शरीरम् ॥ यजु० अ०-४० । मं० १५ ॥

निपेकादिश्मशानान्तो मन्त्रैर्यस्योदितो विधिः ॥ मनु० ॥

इस शरीर का संस्कार ( भस्मान्तम् ) अर्थात् भस्म करने पर्यन्त है ॥ १ ॥ शरीर का आरम्भ ऋतुदान और अन्त में श्मशान अर्थात् मृतक कर्म है ॥ २ ॥ ( प्रश्न ) जो गरुडपुराण आदि में दशगात्र, एकादशाह, द्वादशाह, सपिण्डीकर्म, मासिक वार्षिक गयाश्राद्ध आदि क्रिया लिखी हैं क्या ये सब असत्य हैं ? ( उत्तर ) हाँ, अवश्य मिथ्या हैं, क्योंकि वेदों में इन कर्मों का विधान नहीं है इसलिये अकर्त्तव्य हैं । और मृतक जीव का सम्बन्ध पूर्व सम्बन्धियों के साथ कुछ भी नहीं रहता और न इन जीवों हुए सम्बन्धियों का । वह जीव अपने कर्म के अनुसार जन्म पाता है । ( प्रश्न ) मरण के पीछे जीव कहां जाता है ? ( उत्तर ) यमालय को ( प्रश्न ) यमालय किसको कहते हैं ? ( उत्तर ) वाय्वालय को । ( प्रश्न ) वाय्वालय किसको

थोड़ा ऊंचा रहे ॥ २ ॥ उस वेदी का परिमाण पुरुष खड़ा होकर ऊपर को हाथ उठावे उतनी लम्बी और दोनों हाथों को लंबे उत्तर दक्षिण पार्श्व में करने से जितना परिमाण हो अर्थात् मृतक के साढ़े तीन हाथ अथवा तीन हाथ से ऊपर चौड़ी होवे और छाती के बराबर गहरी होवे ॥ ३ ॥ और नीचे आय हाथ अर्थात् एक घीता भर रहे । उस वेदी में थोड़ा २ जल छिड़वावे । यदि गोमय उपस्थित हो तो लेपन भी करदे । उसमें नीचे से आधी वेदी तक लकड़ियां चिने, जैसे कि भित्ती में ईंटें चिनी जाती हैं, अर्थात् बराबर समानकर लकड़ियां धरे । लकड़ियों के बीच में थोड़ा थोड़ा कपूर थोड़ी थोड़ी दूर पर रखे । उसके ऊपर मध्य में मृतक का रखे अर्थात् चारों ओर वेदी बराबर खाली रहे, और पश्चात् चारों ओर और ऊपर चन्दन तथा पलाश आदि के काण्ड बराबर चिने, वेदी से ऊपर एक घीता भर लकड़ियां चिने । जबतक यह किया होवे तबतक अलग चूल्हा बना, अग्नि जला, घृत तथा और द्रव्य कर पात्रों में रखे । उनमें कस्तूरी आदि सब पदार्थ मिलावे । लम्बी २ लकड़ियों में चार चमसों को चाहे घे लकड़ी के ही वा चांदी लोहे के अथवा लोहे के हों जिस चमसा में एक छुटांक भर से अधिक और आधी छुटांक भर से न्यून घृत न आवे खूब बड़े वस्त्रों से डण्डों के साथ बांधे । पश्चात् घृत का दीपक करके, कपूर में लगाकर, शिर से आरम्भ कर प्राङ्पर्यन्त मध्य २ में अग्नि प्रवेश करावे । अग्निप्रवेश कराके:—

आमग्नये स्वाहा । आँ सोमाय स्वाहा । आँ लोकाय स्वाहा । आँमनुमतये स्वाहा । आँ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा ॥  
भास्वला० अ० ४ । क० ३ । सू० २५-२६ ॥

इन पांच मन्त्रों से आहुतियां देके अग्नि को प्रदीप्त होय देवे । तत्पश्चात् चार मनुष्य पृथक् २ खड़े रहकर वेदों के मन्त्रों से आहुति देते जायँ, जहां स्वाहा आवे वहां आहुति छोड़ देवे ॥

अथ वेदमन्त्राः

सूर्यं चक्षुर्गच्छतु वातमात्मा द्यां च गच्छ पृथिवीं च  
 वर्मणम् । अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रति  
 तिष्ठो शरीरैः स्वाहा ॥ १ ॥ अजो भागस्तपसा तं तपस्व  
 तं ते शोचिस्तपतु तं ते अर्चिः । यास्ते शिवास्तन्वा जात-  
 वेदस्ताभिर्वहेनं सुकृतासु लोकं स्वाहा ॥ २ ॥ अवसृज  
 हनरग्ने पितृभ्यो यस्त आहुतश्चरति स्वधाभिः । आयुर्वसान  
 उपवेतु शेषः संगच्छतां तन्वा जातवेदः स्वाहा ॥ ३ ॥  
 मग्नेर्वर्म परिगोभिव्ययस्व सम्प्रोर्णुष्व पीवसा मेदसा च ।  
 त्वा धृष्णुर्हरसा जाहृषाणो दधृग्विधच्यन्पर्यङ्घ्र्याते स्वाहा  
 । ४ ॥ यं त्वयग्ने समदहस्तसु निर्वापया पुनः । कियाम्बवत्र  
 हेतु पाकदूर्वा व्यल्कशा स्वाहा ॥ ५ ॥ ऋ० म० १० ।  
 १० १६ । म० ३ । ४ । ५ । ७ । १३ ॥

परेयिवासं प्रवतो महीरनु बहुभ्यः पन्थामनुपस्पशा-  
 म् । दैवस्वतं सङ्गमनं जनानां यमं राजानं हविषा दुवस्य  
 वाहा ॥ ६ ॥ यमो नो गातुं प्रथमो विवेद नैषा गव्युतिर-  
 भर्तवा उ । यत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुरेना जज्ञानाः  
 ध्यारे अनुस्वाः स्वाहा ॥ ७ ॥ मातली कव्यैर्यमो अग्नि-